अखबार जो बदल दे नजरिया
राष्ट्रीय ख़बर
हमारी नज़र
पेज ›› 12 मूल्य ›› 3 रुपये ›› वर्ष ›› 14 अंक ›› 227 epaper.rashtriyakhabar.com श्रावण, शुक्लपक्ष चतुर्थी, विक्रम संवत 2080
web: www.rashtriyakhabar.com

विदुर नीति

एको धर्मः परं श्रेयः क्षमैका शांतिरूत्तमा।
विद्यैका परमा तृप्तिरहिंसैका सुखावहा॥

भावार्थ : एक ही धर्म पर स्थिर रहना श्रेयप्रद होता है, एक क्षमा ही उत्तम शांति का मार्ग है, एक विद्या ही तृप्त करनेवाली है, एक अहिंसा ही सुख प्रदान करने वाली है।

रांची पारा अपडेट

मैक्सिमम	मिनीमम
30.00 °c	23.00 °c

सूर्यास्त (आज) ›› 18 .17 बजे
सूर्योदय (कल) ›› 05 .26 बजे

गुजरात हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नाराज

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने एक बलात्कार पीड़िता की गर्भपात कराने की उसकी याचिका को 12 दिनों तक टालने पर गुजरात उच्च न्यायालय की शनिवार को कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे मामले में किसी प्रकार की लापरवाही न करते हुए इससे तत्परतापूर्वक निपटा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने गुजरात के एक मामले में ह्यविशेष सुनवाईह्न करते हुए भ्रूण को हटाने की संभावना का पता लगाने के लिए भरूच की एक मेडिकल बोर्ड से एक नई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि वह इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई कर इस मसले पर विचार करेगी। पीड़िता के अधिवक्ता ने पीठ के समक्ष कहा कि उच्च न्यायालय ने मामले की तारीख 23 अगस्त तय की है, जिससे उसकी गर्भावस्था 28 सप्ताह की हो जाएगी।

हैदराबाद में भीख मांगने वाले रैकेट का भंडाफोड़

हैदराबाद: हैदराबाद में पुलिस ने भीख मांगने वाले रैकेट को सफलतापूर्वक समाप्त कर 23 भिखारियों को बचाया है। आयुक्त कार्यालय के तहत वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम, हैदराबाद की मानव तस्करी विरोधी इकाई (एएचटीयू), जुबली हिल्स पुलिस, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और स्माइल प्रोजेक्ट के नेताओं के सहयोग से विभिन्न चौराहों से 23 भिखारियों को बचाने में कामयाब रही और गुरुवार को भिखारियों के सरगना, कर्नाटक में गुलबर्गा के फतेहनगर निवासी अनिल पवार को भी पकड़ लिया। शनिवार को जारी एक पुलिस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस मामले के आरोपी कर्नाटक के गुलबर्गा के रहने वाले रामू, रघु, धर्मेंद्र सहित कई अन्य व्यक्ति अभी भी फरार हैं।

अंकिता हत्याकांड के आरोपी की जमानत पर 21 अगस्त को सुनवाई

नैनीताल: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी और वनंतरा रिसार्ट के स्वामी पुलकित आर्य के जमानत प्रार्थना पत्र पर उच्च न्यायालय में आगामी 21 अगस्त सोमवार को सुनवाई होगी। आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र पर सरकार की ओर से जवाब पेश कर दिया गया है जबकि पीड़िता की ओर से आपत्ति दर्ज करने के लिये अदालत से समय की मांग की गयी थी। अदालत अब 21 अगस्त को दोनों जवाबों के आलोक में सुनवाई करेगी। आरोपी पिछले साल अक्तूबर से जेल में बंद है। एसटीएफ इस मामले की जांच कर रही है। एसटीएफ ने पुलकित आर्य और उसके दो साथियों अंकित गुप्ता और सौरभ भाष्कर को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया था। आरोपी की ओर से पेश जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि वह बेकसूर है। यहां बता दें कि वनंतरा रिसॉर्ट में बतौर रिसेप्सनिस्ट काम कर रही अंकिता की पिछले साल सितम्बर में हत्या कर दी गयी थी।

जंगल की आग से 15 हजार घरों को खाली करने का आदेश

ओटावा: कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में जंगल की आग से प्रभावित 15 हजार घरों को खाली करने का आदेश दिया गया है। जारी रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने ब्रिटिश कोलंबिया में शुक्रवार दोपहर को चार हजार से बढ़ाकर 15 हजार घरों को खाली करने का आदेश दिया है जबकि 20 हजार घर अलर्ट पर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे प्रांत में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है, जहां सैकड़ों जगह आग लगी हुई हैं। 36 हजार की आबादी वाले शहर वेस्ट केलोना में बड़ी संख्या में इमारतों में आग लग गई और 2,400 से अधिक घरों को खाली करा लिया गया। उन्होंने बताया कि विशाल क्षेत्र में लगी आग येलोनाइफ शहर की ओर बढ़ रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कनाडा के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र की राजधानी शहर को खाली करने की आधिकारिक समय सीमा समाप्त हो गई है। वहां रहने वाले करीब सभी लोग कार या विमान से वहां से चले गए है।

अपरिहार्य कारणों से आज का अंक 12 पृष्ठों का है। पाठकों की असुविधा के लिए हमें खेद है।

कई मंचों से भारत में पॉम ऑयल कारोबार पर लगा है आरोप

अडाणी को जमीन देना ही मणिपुर विवाद की जड़ में

- जमीन पर पूंजीपति कब्जे की असली चाल
- नशे के कारोबार में पकड़े गये हैं मैतेई
- दवा उद्योग या पॉम ऑयल स्पष्ट नहीं

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी: मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा, हालांकि मणिपुर में हुई हिंसा को करीब 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन जलती आग का असली रहस्य आज भी सामने नहीं आ पाया है। शीर्ष पर इसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच संघर्ष के रूप में प्रचारित किया गया है, लेकिन वास्तव में यह विशुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित है। 2017 में भाइयों के बीच हुई हिंसा की यह कहानी लिखी गई थी। मणिपुर के एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी और विवरण के अनुसार, जैसा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने योजना बनाई थी, यह रक्त पात राजनीतिक रूप से मणिपुर में एक अत्यधिक विवादास्पद पूंजीवादी व्यापारी कुकी समुदाय की बस्ती के लिए सरकारी भूमि सौंपने के लिए है। अधिकारी ने दोनों भाजपा के सरकार पर यह भी बड़ा आरोप लगाया है कि कि यह घटना सरकार के

करीबी पूंजीवादी व्यापारियों को पहाड़ी भूमि सौंपने के समानांतर धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति से भी जुड़ी हुई थी। इसलिए घटनाएं बार-बार गुजरात दंगों की याद दिला रही हैं। 16 जिलों वाले इस राज्य की राजधानी इंफाल ठीक बीच में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इम्फाल राज्य की भूमि का केवल 10% है। लेकिन आबादी के लिहाज से राज्य की 57% आबादी यहां रहती है। इम्फाल के आसपास का लगभग 90% क्षेत्र पहाड़ी है। ये क्षेत्र राज्य की आबादी का 43 प्रतिशत हिस्सा हैं। अगर हम केवल इंफाल घाटी की बात करें तो यहां मैतेई समुदाय की सबसे बड़ी आबादी है। इस समुदाय के लोग ज्यादातर हिंदू हैं। राज्य की कुल आबादी में मैतेई की हिस्सेदारी लगभग 53% बताई जाती है। राजनीतिक रूप से भी मैतेई समुदाय काफी प्रभावशाली माना जाता है। मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा में 40 विधायक मैतेई समुदाय से आते हैं। दूसरी ओर, मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में 33 मान्यता प्राप्त जनजातियाँ रहती हैं। नागा और कुकी जनजाति भी उनमें प्रमुख हैं। ये दोनों जनजाति मुख्य रूप से ईसाई धर्म में विश्वास करते हैं। इसके अलावा, मणिपुर की 8-8 प्रतिशत आबादी मुस्लिम और सनाही समुदायों की है। मणिपुर में, पहाड़ी जनजाति को अनुच्छेद 371 (सी) के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है। यह स्थिति मैतेई समुदाय के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, यहां भूमि सुधार अधिनियम के कारण, मैतेई के लोग पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खरीद कर नहीं ›› पेज 2 भी देखें

पारदर्शी सड़क निर्माण की अत्यधिक लागत और सीएजी रिपोर्ट पर सफाई दी

सही सूचना लिखित में नहीं देने की हुई चूक : गडकरी

- भ्रष्टाचार साबित करे तो सजा के लिए तैयार
- टीवी चैनल के कार्यक्रम में दी जानकारी
- हर स्तर पर इसकी जांच के लिए तैयार

राष्ट्रीय खबर

नयी दिल्ली: सड़क परिवजन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि द्वारका एक्सप्रेस-वे में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ और इसकी लागत को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(कैग) की रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं,वह लिखित सूचना नहीं देने की चूक के कारण हुआ है। श्री गडकरी ने एक समाचार चैनल द्वारा यहां आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय पारदर्शी और निर्धारित तरीके से सड़कों के निर्माण का काम कर रहा है और एक काम में भी कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ हो तो इसके लिए वह कोई भी सजा भुगतने को तैयार हैं। द्वारका एक्सप्रेस-वे में सीएजी की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार होने संबंधी आरोपों को खारित करते हुए उन्होंने कहा, द्वारका एक्सप्रेस-वे स्टेट आफ आर्ट प्रोजेक्स है और इसकी कुल लम्बाई 29 किलोमीटर है। लेन के हिसाब से 563 किलोमीटर है। आठ लेन की इस सड़क में छह लेन की सुरंग है और इसकी लागत 250 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 206 करोड़ रुपए थी। उन्होंने कहा कि परियोजना में हर चरण पर कम लागत आने के लिए सभी कदम उठाए हैं। परियोजना के चार चरण के लिए चार टेंडर मंगाए गये और पहला पैकेज में पांच टेंडर आए और इसमें लागत पांच प्रतिशत कम हुई। दूसरे पैकेज में चार प्रतिशत ऊंची गई और तीसरे पैकेज के टेंडर में 12 कंपनियां शामिल हुई जबकि चौथे पैकेज में आठ प्रतिभागी थे। पूरे प्रोजक्ट में 12 प्रतिशत लागत कम हुई। कैग की रिपोर्ट में लागत ज्यादा आने को लेकर सफाई देते हुए उन्होंने कहा, समस्या क्या हुई कि इसमें अंदर सुरंग है इसलिए कीमत ज्यादा ›› पेज 2 भी देखें

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे का जनवरी में निर्माण :गडकरी

श्री गडकरी ने कहा कि दिल्ली से मुंबई के लिए एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जा रहा है। इस एक्सप्रेस-वे पर काम तेजी से चल रहा है और अगले साल जनवरी या फरवरी में इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। रतलाम तक जल्द ही यातायात शुरू कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि इस एक्सप्रेस-वे के बनने से दिल्ली और मुंबई के बीच सड़क मार्ग से महज 12 घंटे में पहुंचा जा सकेगा और रास्तों के आसपास के नजारों का भी आनंद लिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में 65 हजार करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इन परियोजनाओं पर काम पूरा होने से दिल्ली से देहरादून का रास्ता दो घंटे में तय हो सकेगा जबकि दिल्ली से हरिद्वार डेढ़ घंटे में पहुंचा जाएगा। इसी तरह से दिल्ली से जयपुर दो घंटे, चंडीगढ़ ढाई घंटे, अमृतसर चार घंटे तथा कटरा की दूरी दिल्ली से छह घंटे में पूरी की जा सकेगी।

रैहानपुर के एक निजी तालाब में समंदर की मछलियां पकड़ी गई

तालाब में हिलसा मछली देखकर हैरान हैं वैज्ञानिक भी

- अभी इस मछली का मौसम चल रहा है
- यह प्रजाति सिर्फ समुद्र में पायी जाती है
- पुष्टि के लिए दो बार जाल डाला गया था

राष्ट्रीय खबर

ढाका: बांग्लादेश के समुद्री इलाकों में अभी हिलसा मछली पकड़ने का मौसम चल रहा है। वहां से मछलियों की आमद बढ़ने की वजह से इस मॉनसून में लोग हिल्सा खाने में कामयाब रहे हैं। बांग्लादेश की नदियों और समुद्रों से हिल्सा मछुआरों के जाल में फंस गई है। देदार में 1.5 से 2.5 किलोग्राम वजनी हिल्सा पायी गयी है। इतनी बड़ी मात्रा में हिल्सा पकड़े जाने के बावजूद कीमत कम नहीं हुई। परिणामस्वरूप, चाँदी की फसल दोबारा नहीं उगाई जा सकती। हालांकि, मछुआरे इतनी बड़ी कीमत पर मछली बेचकर अपनी जेबें भर रहे हैं। दरअसल अभी इसका जोरदार तरीके से निर्यात भी हो रहा है क्योंकि इसकी मांग पूरी दुनिया में है। अब पहली बार यह सूचना आयी है कि एक तालाब से लगभग 100 हिल्सा मछलियाँ पहले ही एकत्र की जा चुकी हैं। बांग्लादेश के बरगुना के पाथरघाटा उपजिला के रेहानपुर के एक बड़े तालाब में हिल्सा मछली पकड़ी गई है। हालांकि मछली का वजन 400 से 600 ग्राम के बीच है। मत्स्य पालन अधिकारी अभी भी इसकी वजह को समझ नहीं पा रहे हैं।

मत्स्य पालन विभाग से मिली खबर के मुताबिक समुद्र में हिल्सा की अधिकता देखी जा सकती है। क्योंकि जहां हिल्सा रहती है वहां के पानी में नमक है। एक अकेली माँ हिल्सा ›› पेज 2 भी देखें

क्रीमिया के ब्रिज पर हुए हमले का वीडियो अब सामने आया

यूक्रेन के ड्रोन बोट हमले को नहीं रोक पाया था रूस

राष्ट्रीय खबर

कियेब: यूक्रेन के एक समुद्री ड्रोन ने पिछले महीने क्रीमिया में एक प्रमुख पुल पर हमला किया, जिससे संरचना क्षतिग्रस्त हो गई। नया वीडियो फुटेज उस क्षण को दिखाता है जब ड्रोन वास्तव में पुल से टकराता है। यूक्रेन ने विभिन्न रूसी लक्ष्यों पर हमला करते हुए काला सागर में समुद्री ड्रोन का उपयोग बढ़ाया है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के एक नए वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे उसकी एक ड्रोन

नाव पिछले महीने रूस के किसी भी स्पष्ट प्रतिरोध का सामना किए बिना, कब्जे वाले क्रीमिया प्रायद्वीप में एक प्रमुख पुल पर हमला करने में कामयाब रही। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा या एसबीयू ने उस क्षण की विशेष फुटेज जारी की जब 17 जुलाई को सी बेबी नामक एक प्रायोगिक ड्रोन ने 1,850 पाउंड से अधिक विस्फोटकों के साथ केर्च ब्रिज पर हमला किया, जिसमें दो नागरिकों की मौत हो गई, पुल के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा। इससे यातायात को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। वीडियो में ड्रोन पर एक थर्मल कैमरे से प्रथम-व्यक्ति दृश्य ›› पेज 2 भी देखें

सात तरह के वैज्ञानिक पेलोड लेकर जाएगा आदित्य-एल1

चेन्नई : अगले कुछ दिनों में अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाला भारत का पहला सौर अन्वेषण मिशन आदित्य-एल1 उपग्रह सूर्य का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए सात वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा। खास बात यह है कि यह सभी पेलोड देश की ही विभिन्न प्रयोगशालाओं में विकसित किये गये हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र (इसरो) ने कहा कि आदित्य-एल1 मिशन सूर्य का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए सात वैज्ञानिक पेलोड का एक सूट ले जायेगा। इनमें सौर कोरोना और कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ (वीईएलसी), अल्ट्रा-वायलेट (यूवी) के निकट सौर प्रकाशमंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेने तथा यूवी के निकट सौर विकिरण भिन्नता को भी मापने के लिए सौर अल्ट्रा-वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप (एसयूआईटी) पेलोड है। जबकि सौर पवन और उनका ऊर्जा वितरण का अध्ययन करने के लिए आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट (एएसपीईएक्स) और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य (पीएपीए)पेलोड हैं। इसी तरह ऊर्जा रेंज में सूर्य से आने वाली एक्स-रे फ्लेयर्स का अध्ययन करने के लिए सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (एसओएलइएक्सउस) और हाई एनर्जी एल-1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर विस्तृत एक्स-रे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर दावेदारी का दौर जारी

एलन मस्क ने भारतवंशी रामास्वामी का समर्थन किया

राष्ट्रीय खबर

वाशिंगटन: एलोन मस्क ने एक बार फिर भारतीय-अमेरिकी अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी का समर्थन किया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि टेस्ला बॉस अमेरिका को चलाने के लिए अगले नेता के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे। 38 वर्षीय श्री रामास्वामी ने अपने राजनीतिक और विश्व दृष्टिकोण के बारे में श्री मस्क के एक्स, पूर्व में ट्विटर पर 10 बुलेट पॉइंट पोस्ट किए। कुछ बिंदुओं में

ईश्वर वास्तविक है, दो लिंग हैं, मानव विकास के लिए जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता होती है, खुली सीमा कोई सीमा नहीं है जैसी टिप्पणियाँ शामिल हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के पोस्ट को दोबारा पोस्ट करते हुए, श्री मस्क ने लिखा, वह अपनी मान्यताओं को स्पष्ट रूप से बताते हैं। इससे पहले भी, श्री मस्क ने भारतीय-अमेरिकी राजनेता को एक बहुत ही आशाजनक उम्मीदवार कहा था। हार्वर्ड और येल से स्नातक करने वाले तकनीकी-उद्यमी श्री रामास्वामी का जन्म भारतीय माता-पिता के घर हुआ था, जो केरल से अमेरिका चले गए थे। अतीत में, श्री मस्क ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रतिद्वंद्वी रॉन डेसेंटिस का समर्थन किया था, जिन्होंने राष्ट्रपति पद की दौड़ के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करने के लिए ट्विटर स्पेस इवेंट का ›› पेज 2 भी देखें

खोज पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक चुंबकीय शक्तिशाली पिंड मौजूद

नए तारों से मैग्नेटर्स के रहस्य का राज खुलेगा

- प्रथम जांच की दोबारा पुष्टि की गयी
- अब तक इसका राज खुल नहीं पाया था
- कनाडा-फ्रांस-हवाई टेलीस्कोप से खोजा गया इसे

राष्ट्रीय खबर

रांची: मैग्नेटार ब्रह्मांड में सबसे मजबूत चुंबक हैं। अति-मजबूत चुंबकीय क्षेत्र वाले ये अति-घने मृत तारे हमारी पूरी आकाशगंगा में पाए जा सकते हैं, लेकिन खगोलविदों को ठीक से पता नहीं है कि वे

कैसे बनते हैं। अब, यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला (ईएसओ) सुविधाओं सहित दुनिया भर में कई दूरबीनों का उपयोग करके, शोधकताओं ने एक जीवित तारे का पता लगाया है जिसके एक मैग्नेटर बनने की संभावना है। यह खोज एक नए प्रकार की खगोलीय वस्तु विशाल चुंबकीय हीलियम तारे की खोज का प्रतीक है और मैग्नेटर्स की उत्पत्ति पर ›› पेज 2 भी देखें

यह सितारा मेरे लिए एक जुनून बन गया है: शेनार

साइंस में आज प्रकाशित इस वस्तु पर एक अध्ययन के मुख्य लेखक और नीदरलैंड के एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय के एक खगोलशास्त्री तोमर शेनार कहते हैं, यह सितारा मेरे लिए एक जुनून बन गया है। जर्मनी में स्थित सह-लेखक और ईएसओ खगोलशास्त्री जूलिया बोडेनस्टीनर कहती हैं, तोमर और मैं एचडी 45166 को ह्यजोंबी स्टारह्न के रूप में संदर्भित करते हैं।यह केवल इसलिए नहीं है कि यह सितारा इतना अनोखा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मैंने मजाक में कहा था कि यह तोमर को एक जोंबी में बदल देता है। पहले इसी तरह के हीलियम-समृद्ध सितारों का अध्ययन करने के बाद, शेनार ने सोचा कि चुंबकीय क्षेत्र इस मामले को सुलझा सकते हैं। वास्तव में, चुंबकीय क्षेत्र तारों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए जाने जाते हैं और यह बता सकते हैं कि पारंपरिक मॉडल एचडी 45166 का वर्णन करने में विफल क्यों रहे, जो लगभग 3000 प्रकाश वर्ष दूर मोनोसेरोस तारामंडल में स्थित है। मुझे साहित्य पढ़ते समय एक यूरेका क्षण याद है। क्या होगा यदि तारा चुंबकीय है, शेनार कहते हैं, जो वर्तमान में मैड्रिड, स्पेन में सेंटर फॉर एस्ट्रोबायोलॉजी में कार्यरत हैं।

सात बच्चों की मौत के लिए एक नर्स को दोषी पाया गया

राष्ट्रीय खबर

लंदन: एक ब्रिटिश अस्पताल में एक नवजात नर्स को धोखे के एक साल के अभियान के दौरान सात बच्चों की हत्या करने और छह अन्य को मारने की कोशिश करने का शुक्रवार को दोषी पाया गया, जब उसने समय से पहले और बीमार नवजात शिशुओं के साथ-साथ उनके चिंतित माता-पिता की कमजोरियों का शिकार बनाया। 22 दिनों के विचार-विमर्श के बाद, मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट की जूरी ने 33 वर्षीय लुसी लेटबी को 2015 और 2016 के बीच उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड के काउंटेस ऑफ चेस्टर अस्पताल में नवजात इकाई में

बच्चों की हत्या का दोषी ठहराया। मुख्य अभियोजक, पास्कल जोन्स ने कहा, माता-पिता उसकी रुग्ण जिज्ञासा और उसकी नकली करुणा के संपर्क में थे।

लेटबी पर जानबूझकर नवजात शिशुओं को विभिन्न तरीकों से नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था, जिसमें उनके रक्त प्रवाह में हवा डालना और नासोगैस्ट्रिक ट्यूबों के ›› पेज 2 भी देखें

राष्ट्रीय खबर हमारी नजर राजनीति

web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

आरोप राज्य के मुख्यमंत्री मोरहाबादी मैदान में बताए

शिव सोरेन कौन हैं,हेमंत कुमार सोरेन कौन हैं,दुर्गा प्रसाद सोरेन कौन हैं:बाबूलाल

राष्ट्रीय खबर

रांचीः भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आज संकल्प यात्रा के तीसरे दिन पथरगामा पहुंचे। गोड्डा विधानसभा क्षेत्र की संकल्प सभा को संबोधित करते हुए आज श्री मरांडी ने फिर एकबार झारखंड सरकार पर बड़ा हमला बोला।श्री मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री को मोरहाबादी मैदान में सभा आयोजित कर बताना चाहिए कि जालसाजी करके,नाम बदलकर गरीब आदिवासी की जमीन हड़पने वाले ये शिव सोरेन कौन हैं,हेमंत कुमार सोरेन कौन हैं,बसंत कुमार सोरेन कौन हैं,और दुर्गा प्रसाद सोरेन कौन हैं ?उन्होंने कहा अपने आप को आदिवासियों का मसीहा बताने वाले राज्य में सत्तासीन सोरेन परिवार ने राज्य में

घूम घूम कर आदिवासियों की जमीन लूटी है। ऐसे में गरीबों आदिवासियों की जमीन कैसे बचेगी जब रखवाला ही लूटने में जुटा है।उन्होंने कहा कि अब इन्हें दंडित करने का समय आ चुका है।उन्होंने कहा कि ये तो कुछ नमूना है पता नहीं ईडी,सीबीआई जांच में और कितना उजागर होगा।कहा कि यदि मुख्यमंत्री बेदाग हैं तो ईडी की पूछताछ से क्यों भाग रहे उन्हे तो डटकर मुकाबला करना चाहिए।श्री मरांडी ने कहा राज्य में सत्ता संपोषित भ्रष्टाचार व्याप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भ्रष्टाचार मुक्त भारत का आह्वान किया है। उन्होंने जनता से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़ा होने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ने विकास को रोक रखा है। परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार के खजाने को भरने केलिए सत्ता में आती हैं। उन्होंने कहा कि झामुमो,कांग्रेस ,राजद तीनो परिवारवादी पार्टियां झारखंड को लूट रही हैं। उन्होंने कहा कि ये जबतक सत्ता में रहेंगे राज्य का विकास नहीं होगा। श्री मरांडी ने कहा कि यह सरकार राज्य के खान,खनिज का अवैध उत्खनन करा रही क्योंकि अवैध तरीकों से वसूली हेमंत सोरेन की तिजोरी भरेगी जबकि वैध खनन का पैसा सरकार के खजाने में जाता जिससे जनता की भलाई होती। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में बालू घाट आम जनता केलिए खोल दिए गए थे लेकिन आज हेमंत सरकार अवैध तरीके से बड़े बड़े ट्रक में भरकर बालू को बिहार,और अन्य प्रदेशों में भेज रही है। उन्होंने कहा कि जनता यदि खिलाफ में आवाज उठाती है तो उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। कहा कि आज पुलिस जनता की सुरक्षा में नही बल्कि उगाही में लगी है।पूछने पर पुलिस वाले बोलते हैं ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आज राज्य में अपराधी बेलगाम है। रोज हत्या,लूट ,बलात्कार की घटनाएं हो रही। गैंग वार हो रहे लेकिन पुलिस अपराधियों को नहीं सरकार के खिलाफ बोलने वालों को पकड़ती है,सरकार के खिलाफ ट्वीट करने वालों को पकड़ती है। उन्होंने कहा जिसदिन सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग पैसा लेना बंद कर देंगे किसी पदाधिकारी में हिम्मत नही जो जनता से काम के बदले पैसे मांगे। उन्होंने कहा कि यह सरकार गरीबों का अनाज भी लुटावा दे रही। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में आदिम जनजाति परिवार के बीच बांटने केलिए केंद्र से मिले चावल को दलालों ने बेच दिया लेकिन मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि मुख्यमंत्री इस प्रकार की लूट में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं सड़क , पीएम आवास,नल जल योजना का कार्य ठप्प है। उन्होंने आह्वान किया कि राज्य की ऐसी भ्रष्ट निकम्मी राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें।

सांसद जयंत सिन्हा ने मुंबई में की वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति बैठकों की अध्यक्षता

राष्ट्रीय खबर

हजारीबागः सांसद हजारीबाग सह अध्यक्ष वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति जयंत सिन्हा मुंबई में समिति के अध्ययन दौरे पर हैं। यह दौरा 17 अगस्त से 19 अगस्त 2023 तक मुंबई और 21 अगस्त 2023 में चेन्नई में दो चरणों का है। इस दौरान आयकर विभाग, विभिन्न बैंकों, बीमा कंपनियों व अन्य हितधारकों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की जा रही हैं। इन बैठकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष समेत एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशकों व मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की गयी। इस दौरान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संचालन व बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन की समीक्षा हुई। सांसद जयंत सिन्हा ने अधिकारियों को जनसुविधा को बढ़ावा देते हुए कार्य करने हेतू आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सांसद जयंत सिन्हा ने मुंबई जोन के आयकर विभाग के प्रमुख मुख्य आयुक्तों के साथ औपचारिक बैठक की। इस बैठक में आयकर विभाग के समग्र प्रदर्शन व कार्यों की समीक्षा कर निर्देश दिए गए। सांसद जयंत सिन्हा ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष के साथ पूंजी बाजार से संबंधित विनियामक मुद्दों पर भी संवाद किया।

राजीव गांधी प्रतिमा अनावरण तैयारियों की समीक्षा

राजीव गांधी आज भी प्रासंगिक हैं आने वाले समय में भी रहेंगे: डॉ रामेश्वर

राष्ट्रीय खबर

रांचीः राजीव गांधी वरिष्ठ नागरिक उद्यान परिवार के सौजन्य से राजीव गांधी प्रतिमा अनावरण तैयारियों की समीक्षा झारखण्ड सरकार के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने अपने सहयोगी प्रदेश कांग्रेस कमिटी के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दूबे,लाल किशोर नाथ शाहदेव एवं डॉ राजेश गुप्ता छोटू के साथ पार्क में पहुंचकर किया।कल 20 अगस्त को पूर्वाह्न 11.30 बजे प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा।

इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा हमारे पुराने साथी

पूर्व मंत्री हेमंत प्रताप देहाती के योगदान उनके विचार से और मूर्ति निर्माण में उनके सहयोग से उनकी स्मृति में प्रतिमा लगाया जा रहा है।एचईसी परिसर में वरिष्ठ नागरिकों के सहयोग से निर्मित पार्क में राजीव गांधी की प्रतिमा स्थापित हो रही है। वित्त मंत्री ने कहा राजीव गांधी आज के में प्रासंगिक हैं,आने वाले समय में भी रहेंगे। उन्होंने पूरे देश के हर घर और हर हाथ में मोबाइल दिया ,और आज मोबाइल के बिना देश अधूरा है।

कांग्रेस नेता आलोक कुमार दूबे ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कल पूर्वाह्न 11.30 बजे प्रतिमा का अनावरण वित्त मंत्री के कर कमलों से होगा।पद्मश्री मुकुन्द नायक मुख्य अतिथि के रुप में अपनी सांस्कृतिक टीम के साथ मौजूद रहेंगे।शहर के मुख्य चौंक चौराहों पर राजीव गांधी जी का होर्डिंग्स लगाया गया है एवं पार्क को भी सजाया जा रहा है।इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आलोक दूबे ने कहा राजीव जी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हैं,उनके योगदान को हम याद भी करते हैं,लेकिन उनकी प्रतिमा लगाने में हमने वर्षों समय लगा दिया। आलोक दूबे ने कहा आज राज्य की जनता डॉ रामेश्वर उरांव को धन्यवाद दे रही है जिनके अथक प्रयासों से राजीव जी की प्रतिमा स्थापित हो रही है।

राजनीति में महिलाओं की स्थिति अभी भी खराब : गीताश्री उरांव

राष्ट्रीय खबर

रांचीः पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने कहा की पूरे देश में देखें तो बहुत कम महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में आती हैं पर उनमें भी आदिवासी महिलाओं की स्थिति और ज्यादा खराब है। पर महिलाओं को हालात बदलना है तो उन्हें यह समझना होगा की राजनीति के क्षेत्र में भी अपना मुकाम बनाना होगा। गीताश्री उरांव ने कहा की भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है खुद को सशक्त करें। पंचायत स्तर पर महिलाओ का प्रतिनिधित्व दिखता है पर वे सिर्फ. मुखौटा होती हैं। वास्तविक काम उनके पति करते हैं। महिलाओं को चाहिए कि वे संघर्ष करें और अपना मुकाम हासिल करें। गीताश्री उरांव शनिवार को गोस्सनर कंपाउंड स्थित एचआरडीसी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थीं । कार्यक्रम का विषय था 2023 में आदिवासी महिलाएं और उनकी समस्याएं और समाधान। इस कार्यक्रम का अयोजन

सखुआ, फिमी, महिला उत्पीड़न विरोधी और विकास समिति तथा क्लिक फांउंडेशन ने किया था। कार्यक्रम में सखुआ संगठन की मोनिका मरांडी ने कहा की , मुख्यधारा की मीडिया में आदिवासी महिलाओं के विचारों को जगह नहीं मिलती ना बजट के मामले में ना ही किसी और मामले पर इसलिए महिलाओं के बीच जागरूकता होना जरूरी है ताकि वे अपनी बातों को रख सके। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मुद्दे पर मोनिका मरांडी ने कहा की ज्यादातर आदिवासी महिलाओं को घरेलू हिंसा क्या होता है इसकी जानकारी नहीं है जबकि वे इसकी शिकार होती है उन्होंने कहा कि 3 साल में महिला थाना में सिर्फ तीन आदिवासी महिलाओं ने अपने खिलाफ होने वाली घटनाओं को लेकर मामला दर्ज कराया उन्होंने कहा कि उनका संगठन 5 जिलों के 15 गांव में महिलाओं की स्थिति को लेकर सर्वे किया है अभी 10 और गांव में सर्वे किया जाना बाकी है इस सर्वे के नतीजों कै अक्तूबर में जारी किया जायेगा। सिमडेगा की अगस्तीना सोरेंग ने संविधान के पृरति जागरूकता के विषय पर अपनी बातें रखें। उन्होंने कहा की संविधान की बात करना , विधान को समझना जरूरी है । इसके बिना अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। उन्होंने कहा कि अगर हम बराबरी गरिमा स्वतंत्रता जैसी बातें को समझना चाहते हैं तो इसके लिए संविधान को समझना जरूरी है। उन्होंने कहा की महिलाएं पुरुषों के गुलाम नहीं है उनके भी अधिकार है और महिलाओं को अपने खिलाफ होने वाले किसी भी शोषण के खिलाफ बोलना सीखना होगा। आलोका ने , महिलाएं और श्रम कानून के बारे में अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि , श्रम कानून को समझना जरूरी है आदिवासी समाज और उसमें भी श्रमिक महिलाओं श्रम कानून की समझ क्या भाव में ना तो योजनाओं का लाभ ले पाती है ना ही अपने खिलाफ होने वाली हिंसा के खिलाफ आवाज उठा पाती हैं उन्होंने कहा कि एड दुर्भाग्य है की मातृत्व अवकाश 6 महीने से घटकर अब तीन माह कर दिया गया है इसके अलावा महिलाओं को भी 12 घंटे का काम करना पड़ता है उन्हें समान वेतनमान नहीं मिलता है।

झारखंड को बिचौलियों, लुटेरों को हवाले करने वाले हेमंत को भेजना होगा होटवार जेलः बाबूलाल मरांडी

राष्ट्रीय खबर

रांचीः संकल्प यात्रा के तीसरे दिन पौड़ैयाहाट विधानसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जानता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा भेजे जा रहे पैसे और अनाजों की कालाबाजारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करवा रहे हैं। केंद्र की योजनाओं को जानबूझकर लेट लतीफी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चोरी, हत्या दुष्कर्म के ग्राफ पूरे देश में सर्वाधिक है। संथाल की धरती पर बेटियों को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया जा रहा है। पुलिस अपराधियों को पकड़ना छोड़ हेमंत सोरेन के इसारे पर झूठे केस व वसूली में व्यस्त हैं। कोयला बालू पत्थर की लूट मची है। कांग्रेस, राजद और जेएमएम पार्टी पैसे और परिवार के लिए राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लुटेरों बिचौलियों के हवाले करने वाले हेमंत को होटवार जेल भेजना है और हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना है। श्री मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकि ले से कहा है कि देश का विकास करना है तो भ्रष्टाचार समाप्त करना होगा। किंतु झारखंड में भ्रष्टाचारियों की जमात है। ब्लॉक थानों में पैसे के बिना काम नहीं होता है और ये भ्रष्टाचार के पैसे मुख्यमंत्री तक जाता है। उन्होंने कहा कि साहिबगंज में लूट मुख्यमंत्री के संरक्षण में हो रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी के नाम पर राजनीति करने वाले हेमंत सोरेन और परिवार ने सबसे ज्यादा आदिवासियों को लूटा है। उन्होंने कहा कि संथल परगना में भाजपा के नेतृत्व में विकास के कई कार्य हुए हैं।

पड़ताल डुमरी विधानसभा उपचुनाव तीसरी आंख की निगरानी में होगी

373 मतदान केंद्रों में से 50 फीसदी से अधिक मतदान केंद्रों पर 4के कैमरा का इस्तेमाल

राष्ट्रीय खबर

रांचीः 5 सितंबर को होने वाला डुमरी विधानसभा उपचुनाव तीसरी आंख की निगरानी में होगी। चुनाव आयोग ने इस उपचुनाव के लिए बनाए गए 373 मतदान केंद्रों में से 50 फीसदी से अधिक मतदान केंद्रों पर 4के कैमरा का इस्तेमाल कर वेबकास्टिंग करने का निर्णय लिया है।इन कैमरों का इस्तेमाल मतदान केन्द्र के अंदर और बाहर होगा जिससे मतदान केन्द्रों पर नजर रखी जा सके। 4के कैमरा हाई रिजोल्यूशन वाला कैमरा होता है जो फुल एचडी डिस्प्ले से 4 गुना ज्यादा पिक्सल के होते हैं। स्वभाविक रुप से पिक्चर क्वालिटी के साथ साथ दूर से भी इस कैमरे के माध्यम से मतदान केन्द्रों पर चल रहे मतदान को आसानी से देखा जा सकता है। चुनाव आयोग ने इसके लिए रांची स्थित मुख्य निर्वाचन कार्यालय से लेकर जिला स्तर पर यानी गिरिडीह में भी कंट्रोल रूम बनाने का निर्णय लिया है। मतदान के दिन किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षाबलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। चुनाव आयोग के द्वारा 240 स्थानों पर बने 373 मतदान केंद्रों में से अधिकांश को क्रिटिकल बूथ

घोषित करते हुए केंद्रीय बलों के साथ-साथ राज्य पुलिस के जवानों को तैनात करने का निर्णय लिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करने के लिए चुनाव आयोग कटिबंध है। मतदान केन्द्र से लेकर पेट्रोलिंग और वज्रगृह तक ईवीएम लाने के दौरान सीआरपीएफ, सीएपीएफ और राज्य पुलिस के जवान तैनात किए जायेंगे।डुमरी विधानसभा उपचुनाव में अधिकांश मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में है जो बेहद ही संवेदनशील माना जा रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र में तीन प्रखंड आते हैं। इन तीनों प्रखंड डुमरी, नवाडीह और चंद्रपुर में 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। इन प्रखंडों में सबसे ज्यादा डुमरी में 199, नावाडीह में 129 और चंद्रपुर में 45 मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां 2 लाख 98 हजार 629 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

पेज एक का शेष

अडाणी को जमीन देना ही .. ..

बस सकते हैं। दूसरी ओर, पहाड़ों से घाटी में आने वाले आदिवासियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इन छूटों और मतभेदों को भी दो समुदायों के बीच संघर्ष का एक कारण बताया जाता है। इनमें से कुकी-चिन समुदाय कभी 13,000 एकड़ से अधिक भूमि पर अफीम की खेती करता था। नागा लगभग 2,300 एकड़ भूमि पर खेती करते हैं। शेष 35 एकड़ में अफीम की खेती दूसरे समुदाय के लोग करते हैं। भाजपा सरकार ने 2017 में इसके खिलाफ अभियान शुरू किया था। और पूंजीपति व्यापारी गौतम अडानी को सरकारी जमीन सौंपने के लिए बेदखली अभियान चलाया। अब आरोप है कि नशा मुक्त के नाम पर सरकार ने कुकी समुदाय के अफीम खेती के जमीन पूंजीपति कारोबारियों को सौंपने के लिए बेदखली अभियान शुरू कर दिया। योजना यह है कि पहले किए गए वादे के मुताबिक जमीन देश के विवादास्पद पूंजीवादी कारोबारी अडानी को सौंप दी जाए। जिसे मैतेई समुदाय का पूरा समर्थन प्राप्त है। राज्य में एनडीपीएस एक्ट के तहत 2500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। इनमें से 873 कुकी-चिन समुदाय से थे। बाकी सभी मैतेई समुदाय से हैं।

वर्तमान में कुकी इलाकों में बिना ग्राम सभा की अनुमति के कोई जमीन नहीं दी जा सकती है। इस बारे में तमिलनाडु से संसद सदस्य थोल. तिरुमावलवन ने मणिपुर दंगों के लिए अंबानी और अडानी पर आरोप लगाया। उनके मुताबिक, राज्य के कानून के मुताबिक, अंबानी और अडानी मणिपुर में जमीन नहीं खरीद सकते। इसलिए सरकार कानून में संशोधन करने के लिए दंगे करा रही है ताकि भारतीय कारोबारी मणिपुर में जमीन खरीद सकें। तेलंगाना राज्य के एक पूर्व नक्सली और कांग्रेस विधायक दानसारी सीताक्का ने ट्विटर पर लिखा, मणिपुर का घृणित वीडियो देखने के बाद भारत में हर किसी की यही भावना है, इसके पीछे मोदी और अडानी का हाथ है, वे मणिपुर में खनन करना चाहते हैं। वे संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से ऐसा नहीं कर सकते इसलिए उन्होंने यह हिंसा पैदा की ताकि हर कोई डर से भागे।

सही सूचना लिखित में नही .. .. ..

गई। ज्यादा कीमत आने की बात हमने कैग के सामने रखी और कैग लागत आने के कारणों पर सहमत था लेकिन गलती यह हुई कि लिखित में इसकी सूचना नहीं दी गई और यही चूक सामने आ गई। इस बारे में जो भी चुनौती दी जाएगी वह उसका सामना करने को तैयार हैं।

तालाब में हिलसा मछली .. ..

अंडे देने के लिए समुद्र के खारे पानी से नदी के मीठे पानी में प्रवास करती है। इस बार हिल्सा समुद्र के पास नदी के पानी में बड़ी मात्रा में पकड़ी जा रही है। लेकिन तालाब में पकड़ी गई हिल्सा फिर से बड़ी हो गई है, इसकी जानकारी मत्स्य विभाग के अधिकारियों को पहले कभी नहीं हुई। रैहानपुर तालाब में 95 हिल्सा पकड़ी गईं। यह घटना सिदाम मिया तालाब में घटी। सिदाम मिया के बेटे सुजान ने कहा, पहले 11 हिल्सा जाल में फंसे। जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। जब दोबारा जाल डाला गया तो कुल 95 हिल्सा मछलियां पकड़ी गईं। तालाब में पकड़ी गई हिल्सा का औसत वजन 400-600 ग्राम होता है और स्वाद अच्छा है। इस जानकारी पर मत्स्य विभाग थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ लेकिन उसने मामले पर गौर किया। इस घटना के बाद बरगुना जिला मत्स्य विभाग के अधिकारी बिस्वजीत कुमार देव ने कहा, मैं तालाब में हिल्सा मछली मिलने की खबर देखने गया था। ये बिल्कुल सच है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि हिल्सा मछली तालाब में होती है।

यूक्रेन के ड्रोन बोट हमले .. .. ..

शामिल है, जिसे ऑपरेटर ने देखा, साथ ही पुल पर एक सुरक्षा कैमरे से दृश्य भी शामिल है। सीसीटीवी फुटेज में एक बड़े विस्फोट को कैद किया गया है, जिसे रूस रोकने में विफल रहा, जबकि मॉस्को ने दावा किया कि उसके पास ऐसे हमलों को बाधित करने की क्षमता है। जारी वीडियो में इस ड्रोन बोट को खुले पानी में घूमते हुए देखा जा सकता है।

एलन मस्क ने भारतवंशी .. .. ..

इस्तेमाल किया था। श्री रामास्वामी, निक्की हेली और हर्ष वर्धन सिंह तीन भारतीय-अमेरिकी हैं जो जनवरी में शीर्ष पद के लिए पूर्व श्री ट्रम्प के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। करोड़पति बायोटेक उद्यमी ने हाल ही में सार्वजनिक प्रसारक पीबीएस को बताया, मुझे लगता है कि मैं हमारे अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को आगे बढ़ाने, इसे ट्रम्प से भी आगे ले जाने, बल्कि इस प्रक्रिया में देश को एकजुट करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में हूं।

नए तारों से मैग्नेटस .. .. ..

प्रकाश डालती है। 100 से अधिक वर्षों तक देखे जाने के बावजूद, स्टार एचडी 45166 की रहस्यमय प्रकृति को पारंपरिक मॉडलों द्वारा आसानी से नहीं समझाया जा सका, और इसके बारे में इस तथ्य से परे बहुत कम जानकारी थी कि यह सितारों की जोड़ी में से एक है। वे हीलियम समृद्ध हैं और हमारे सूर्य से कुछ गुना अधिक विशाल है।

एक बार अवलोकन आने के बाद, शेनार ने सह-लेखक ग्रेग वेड, जो कनाडा के रॉयल मिलिट्री कॉलेज में तारों के चुंबकीय क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, से डेटा की जांच करने के लिए कहा। वेड की प्रतिक्रिया ने शेनार के अनुमान की पुष्टि की और कहा यह निश्चित रूप से चुंबकीय है।

इसके अलावा, यह मैग्नेटार्स की उत्पत्ति का सुराग प्रदान करता है, एचडी 45166 की तुलना में कम से कम एक अरब गुना अधिक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से युक्त कॉम्पैक्ट मृत तारे। टीम की गणना से पता चलता है कि यह तारा एक मैग्नेटर के रूप में अपना जीवन समाप्त कर लेगा। जैसे ही यह अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाएगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र मजबूत हो जाएगा, और तारा अंततः लगभग 100 ट्रिलियन गॉस के चुंबकीय क्षेत्र के साथ एक बहुत कॉम्पैक्ट कोर बन जाएगा - ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली प्रकार का चुंबक।

सात बच्चों की मौत के लिए .. ..

माध्यम से उनके पेट में हवा या दूध डालना शामिल था। उन पर अंतःशिरा आहार में इंसुलिन मिलाकर और श्वास नलिकाओं में हस्तक्षेप करके शिशुओं को जहर देने का भी आरोप लगाया गया था।

पीड़ितों के परिवारों ने कहा कि वे जूरी सदस्यों के हमेशा आभारी रहेंगे जिन्हें 145 दिनों तक कठिन सबूतों से गुजरना पड़ा।

अदालत के बाहर पढ़े गए एक संयुक्त बयान में, उन्होंने परीक्षण के दौरान साक्ष्य देने आए चिकित्सा विशेषज्ञों, सलाहकारों, डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के प्रति भी अपना आभार व्यक्त किया, जिसे सुनने के लिए उन्होंने कई बार इसे बेहद कष्टदायक और परेशान करने वाला बताया। सात महिलाओं और चार पुरुषों की जूरी ने फैसले पर पहुंचने से पहले 22 दिनों तक विचार-विमर्श किया। एक जूरी सदस्य को व्यक्तिगत कारणों से विचार-विमर्श से छूट दे दी गई और बाद में न्यायाधीश ने शेष 11 जूरी सदस्यों को सर्वसम्मत निर्णय के बजाय 10 लोगों के साथ सहमति से फैसले पर पहुंचने का विकल्प दिया। लेटबी ने सभी आरोपों से इनकार किया। उसे सात हत्याओं और छह बच्चों से संबंधित हत्या के प्रयास के सात आरोपों का दोषी पाया गया। सुनवाई के दौरान, अभियोजकों ने कहा कि 2015 में अस्पताल में उन शिशुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जो बिना किसी स्पष्ट कारण के मर रहे थे या उनके स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ रही थी। कुछ को गंभीर विनाशकारी पतन का सामना करना पड़ा, लेकिन चिकित्सा कर्मचारियों की मदद के बाद वे बच गए।

उन्होंने आरोप लगाया कि लेटबी सभी मामलों में ड्यूटी पर थी और जब बच्चे गिर गए या मर गए तो उसे नवजात इकाई में निरंतर पुरुषवादी उपस्थिति के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा कि नर्स ने बच्चों को ऐसे तरीके से नुकसान पहुंचाया जिससे कोई खास निशान नहीं बचा और उन्होंने अपने सहकर्मियों को समझाया कि गिरना और मौतें सामान्य हैं।

पिता को पत्नी के साथ संबंध बनाते देख बेटे ने कर दी हत्या पत्नी

भाभी समेत 6 महिलाओं से अफेयर होने की कही बात

राष्ट्रीय खबर

मोतिहारी, पू.च. : एक 28 साल के बेटे ने 65 साल के पिता पर गड़ासे से 20 से ज्यादा वार करके हत्या कर मौके से फरार हो गया था। जिसे शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बेटे का कहना है कि उसके पिता के उसकी पत्नी, भाभी समेत अन्य छह महिलाओं के साथ अवैध संबंध था। अपनी पत्नी से आलिंगनबद्ध होते देख लिया था, तब से वो दोनों मेरी जान के पीछे पड़े थे। मैं उनको नहीं मारता तो वो मेरी हत्या करवा देते।

वारदात कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पिपराखेम पंचायत स्थित ध्रुव पकड़ी गांव की है। बेटे का यह भी कहना है कि अगर पुलिस मुझे तीन से चार दिन नहीं खोज पाती तो मैं अपनी बीवी की भी इसी तरह हत्या कर देता। बता दें कि 65 साल के लालजी पंडित की हत्या उसके मंझले बेटे ललन पंडित ने की है। पुलिस ने ललन को कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मेदन सिरसिया नहर के पास स्थित मंदिर से गिरफ्तार किया है। उसने बताया कि मेरे पिता का मेरी पत्नी, मेरी भाभी सहित छह अन्य महिलाओं के साथ अवैध संबंध था। चार महीने पहले अपनी पत्नी को अपने पिता के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था, उसके बाद पिता और पत्नी दोनों मेरी जान के पीछे पड़ गए थे। तीन महीने पहले भी मेरी पत्नी ने मेरी चाय में जहर मिलाकर मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बच गया। पिता और पत्नी मेरी हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। वो लोग मेरी हत्या कराते उससे पहले ही मैंने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। तीन से चार तीन तक पुलिस अगर मुझे नहीं पकड़ती तो अपने पत्नी की भी हत्या इसी तरह कर देता।

मां ने दर्ज कराई थी बेटे के खिलाफ प्राथमिकी मृतक की पत्नी महादेवी ने गुरुवार को थाने में आवेदन देकर अपने सगे बेटे ललन सहित तीन पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उस वक्त मां ने कहा था कि ललन पिता से अक्सर पैसे मांगता रहता था इसलिए दोनों के बीच विवाद होता था। मानसिक रूप से विक्षिप्त है एक बेटा लालजी पंड़ित की पत्नी महादेवी ने बताया कि उसके तीन बेटे और एक बेटी है। बेटी की शादी हो चुकी है। बड़ा बेटा मानसिक रूप से बीमार है। उसका इलाज चलता है। वहीं, मंझला बेटा आरोपी ललन पंड़ित है। ललन के मुताबिक बड़े बेटे की पत्नी के साथ भी पिता का अवैध संबंध था।

पितृपक्ष मेले में गया जंक्शन पर भीड़ नियंत्रण के लिए करें बेहतर उपाय: डीएम

स्टेशन परिसर पर निगरानी के लिए लगेंगे चार वॉच टावर: एसएसपी

गया से वाराणसी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग

डीएम एवं नगर आयुक्त ने स्टेशन का घूम-घूम कर किया निरीक्षण

राष्ट्रीय खबर

गया : पितृपक्ष मेला-2023 के अवसर पर देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओ, जो खासकर विभिन्न ट्रेन के माध्यम से आएंगे, उनकी सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को बेहतर तथा सुगमता बनाने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी गया डॉ० त्यागराजन एसएम तथा वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती की अध्यक्षता में रेलवे स्टेशन के सभागार में रेलवे स्टेशन के तमाम वरीय पदाधिकारियों, जीआरपी, आरपीएफ तथा जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में स्टेशन मैनेजर ने बताया कि वर्तमान समय में लगभग 84 जोड़ी ट्रेन का परिचालन है। 35 हजार से 40 हजार यात्री प्रतिदिन गया रेलवे स्टेशन से यात्रा कर रहे हैं। पितृपक्ष मेला के समय लगभग 65 हजार से 70 हजार यात्री प्रतिदिन गया जिला आते हैं। जिला पदाधिकारी ने रेलवे प्रशासन को निर्देश दिया कि भीड़ नियंत्रण को बेहतर तरीके से अनुपालन कराएंगे। सभी तीर्थ यात्रियों के साथ कुशल व्यवहार अपनाएंगे। विभिन्न जीआरपी, आरपीएफ तथा अन्य पदाधिकारियों को अच्छे तरीके से प्रतिनियुक्ति करें। जिला पदाधिकारी ने जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर तथा पुलिस उपाधीक्षक यातायात को निर्देश दिया कि आपस में निर्धारित दर को प्रदर्शित करा दें ताकि यात्री

रेलवे स्टेशन के बाहरी परिसर तथा अंदर के परिसर में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था रखें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि किसी यात्री से निर्धारित दर से अधिक राशि लेने की सूचना प्राप्त होगी तो संबंधित वाहन का परमिट रद्द कर दिया जाएगा। सीरियल नंबर के साथ स्टेशन परिसर में वाहनों को एंट्री करावे यह सुनिश्चित करें ताकि ट्रैफिक का कोई समस्या उत्पन्न ना हो। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने निर्देश दिया कि रेलवे स्टेशन के बाहरी परिसर में कम से कम 4 स्थानों पर वॉच टावर बनवाएं इसके लिए उन्होंने पुलिस उपाधीक्षक नगर को जगह चिन्हित करने का निर्देश दिए। रेलवे प्रशासन द्वारा लगाए गए सीसीटीवी का निरंतर निगरानी रखने का निर्देश दिए। बताया गया कि वर्तमान समय में 66 हाई रेजोल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं अतिरिक्त 360 डिग्री एंगल वाला रिवाल्विंग कैमरा लगा हुआ है पितृपक्ष मेला के दौरान अतिरिक्त कैमरे की आवश्यकता है। विष्णुपद के पुरोहित ने पिछले वर्ष के तर्ज पर इस वर्ष भी कुछ स्पेशल ट्रेन के परिचालन की मांग किया है जिसमें गया से जबलपुर एवं गया से इंदौर है। इसके अलावा गया से वाराणसी जाने हेतु एक स्पेशल ट्रेन की भी मांग की है। इसके उपरांत स्टेशन के बाहरी परिसर का घूम घूम कर निरीक्षण किया। उन्होंने टूटी नालियों के ढक्कन को मरम्मत कराने का निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि दीवारे काफी खराब है, वाइट वाश करवाने से खूबसूरती और बढ़ेगी। उन्होंने स्टेशन मैनेजर को निर्देश दिया कि रेलवे के एंट्री गेट एवं एग्जिट गेट पर सफाई के साथ-साथ यात्रियों के आवागमन की पूरी स्मूथ व्यवस्था रखें। बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक हिमांशु, नगर आयुक्त अभिलाषा शर्मा, डीडीसी विनोद दूहन, सहायक समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता रविन्द्र नाथ दिवाकर, राजीव कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, रेलवे के वरीय पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक नगर सहित अन्य पदाधिकारी एवं पंडा समाज के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

महा जाम से बचाना है तो सुबह निकालिए घर से

राष्ट्रीय खबर

बेतिया : महा जाम से बचना है तो सुबह घर से निकलना होगा। क्योंकि बेतिया की सड़कों पर अब पैदल चलना भी दूबर सा हो रहा है। आए दिन घंटे लोग जाम में फंस कर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। बेतिया कोई ऐसा रोड नहीं है, जहां जाम न लगता हो। हॉस्पिटल रोड में जाइए तो डॉक्टर के क्लीनिक के बाहर गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी रोड पर गाड़ी लगाकर मरीज अथवा इनके परिजन अपना इलाज करवाते दिखाई देंगे। कोतवाली चौक जाइए तो जांच घरवाले के कारण लगने वाला जाम। इसके अलावे विभिन्न गली मोहल्ले में कई डॉक्टरों के द्वारा अपना क्लीनिक चलाने के चलते गांव गिरान से आने वाले मरीजों से भरा पटा जाम मीना बाजार में जाइए तो दुकान के आगे जानबूझकर सब्जी विक्रेताओं के द्वारा अपना दुकान लगाकर रास्ता जाम करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। लेकिन, इन सभी समस्याओं को देखते हुए भी बेतिया यातायात पुलिस आंखें मूंदे बैठी हुई है। और इस दिशा में उनका कोई सकारात्मक पहल भी नजर नहीं आता। बेतिया राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज तो बन गया लेकिन आज भी यहां आने जान वालों की मूसिब्ते जाम के चलते कम नहीं हो रही है। आए दिन एंबुलेंस जान में फंस कर उसमें सवार मरीज कमी बार दम तक तोड़ देते हैं। इन सारे समस्याओं पर ना कोई जनप्रतिनिधि का ध्यान है और ना ही किसी राजनेता का वर्षों से कुंडली मारकर बैठे नेता भी इस समस्या को नजरअंदाज कर देते हैं। एक तो बेतिया का सारी सड़कें खराब हो चुकी है ।वही दूसरी तरफ आए दिन जाम की समस्या कोढ़ में खाज का काम कर रहा है।

छिनतई और ट्रेन से फेंके जाने के मामले के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी लंबे समय से छिनतई के घटना को दे रहे थे अंजाम

राष्ट्रीय खबर

मुजफ्फरपुर : जिले में बिते दिन पटना-जयनगर इंटरसिटी मे मोबाइल छिनतई के दौरान मधुबनी के छात्र को ट्रेन से फेंके जाने के मामले में रेल पुलिस ने तीन आरोपितो को गिरफ्तार किया है। जिसमे सूत्रो के मुताबिक बीबीगंज निवासी सौरभ व रईस ने घटना को अंजाम दिया था।वही,चोरी के मोबाइल खरीदने वाले कांटी के फतेहपुर निवासी प्रमोद कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। प्रमोद के

पास से 32 मोबाइल बरामद किए गए। वही, जानकारी के अनुसार छिनतई मामले मे सदर थाना पुलिस ने रईस को बीते मई महीने मे गिरफ्तार किया था। वह लगभग 2 सप्ताह पूर्व जेल से छूटा था। रईस ने 14 अगस्त को सौरभ के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था।मोबाइल छिनतई के दौरान दोनों ने छात्र को धक्का दे दिया था। गिरफ्तारी के बाद रेल डीएसपी नवीन कुमार व रेल थानेदार दिनेश कुमार साहू ने तीनों आरोपितों से पूछताछ की। बताया गया कि दोनों जंक्शन के आउटर के अलावा बीबीगंज, माड़ीपुर व रामदयालुनगर इलाकों में लंबे समय से सक्रिय था। यात्रियो से छीने गए मोबाइल प्रमोद से बेचता था। प्रत्येक मोबाइल दो से तीन हजार रुपये मे बेच देता था। प्रमोद मोबाइल का लॉक तोड़कर बेचता था। रेल पुलिस अब तक मृतक छात्र जगदीश का मोबाइल बरामद नही कर सकी है। पूछताछ के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

डेहरी से गुमशुदा युवक चिंटू का शव नासरीगंज नहर से बरामद

नासरीगंज (रोहतास) : थाना क्षेत्र के धूस स्थित सोन नहर अवर प्रमंडल कार्यालय के निकट सकला नहर से एक युवक का शव शनिवार दोपहर बाद बरामद हुआ। उक्त शव की पहचान डेहरी के तार बंगला वार्ड 38 व गली नम्बर 08 निवासी विजय सिंह के 24 वर्षीय पुत्र विपिन सिंह उर्फ चिंटू सिंह के रूप में की गई है। मृतक युवक सासाराम मुफस्सिल थान क्षेत्र के कंचनपुर के पूर्व मुखिया मिंटू सिंह का भतीजा बताया जाता है। उक्त युवक के शव को ग्रामीणों ने उक्त नहर के पानी में तैरते देख पुलिस को सूचना दिया। सूचना पर एसआई शिवम कुमार पुलिस बल के साथ उक्त स्थल पर पहुँच शव को नहर से बाहर निकलवा शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए सदर असपताल भेज दिया है। युवक का शव मिलने की खबर सुन मृतक के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गये। परिजनों ने बताया कि मृतक 16 अगस्त को छह बजे शाम में डेहरी के तार बंगला के निकट नहर के किनारे शौच करने गया था। तभी उसका पैर फिसल गया और वह नहर के गहरे पानी की चपेट में आकर डूब गया और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने उसके गुम होने को ले डेहरी नगर थाना में सनहा दर्ज कराया था। जिसमें शाम के समय नहर जाने की बात कही गई थी। थानाध्यक्ष सुधीर कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया गया है।

मधुश्रावणी में नवविवाहिताओं ने की पति के दीर्घायु होने की कामना

राष्ट्रीय खबर

संग्रामपुर : श्रावण मास के पवित्र दिवस पर नवविवाहित अपने पति की दीर्घायु जीवन की कामना को लेकर मधुश्रावणी मना रही है। गौरी-शंकर के साथ विषहरी और नागिन की भी विशेष पूजन के साथ मधुश्रावणी पर नवविवाहिता ने अपने पति की दीर्घायु जीवन के लिए माता गौरी की पूजा बासी फूल से की। प्रखंड के रतैठा गांव निवासी कन्हैया पाठक की पुत्री कृतिका पाठक ने बताया कि मधुश्रावणी के दौरान उन्हें भगवान भोलेनाथ से लेकर अहिल्या का सतीत्व भंग की जानकारी कथकई ने दी है। इसके साथ ही गौतम ऋषि द्वारा अपने पत्नी अहिल्या को श्राप दिए जाने के आलावे श्रवण कुमार द्वारा अपने अंधे माता-पिता को अपने कंधे पर लेकर चारों धाम का भ्रमण कराए की जानकारी मिली। मधु श्रावणी पूजा के दौरान महादेव से गौरी के विवाह आदि प्रसंगों की कथा सुनी गई। मान्यता है कि मां गौरी महादेव को अपने जीवन साथी के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। विवाहिता ने बताया कि प्रतिदिन के कथा वाचन में पति व पत्नी को एक दूसरे के प्रति जीवन भर के कर्तव्यनिष्ठा, पवित्रता व दांपत्य जीवन को मधुर बनाने का बोध कराया जाता है। इस दौरान कटिहार से आशीर्वाद देने पहुंचे कृतिका पाठक के ससुर विनोद झा, संग्रामपुर के पत्रकार गौतम झा अपनी भांजी को आशीर्वाद दिया। 7 जुलाई से 19 अगस्त तक मधुश्रावणी के अंतिम दिन 21 सुहागन महिलाओं को भोजन कराया गया। मिथिला परंपरा के अनुसार मधुश्रावणी में एक दिन पहले संध्या काल में पुष्प, पत्र की व्यवस्था कर ली जाती है और उसी से माता पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ तथा विषहरी नागिन की विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है। पूरे अनुष्ठान के दौरान नवविवाहित बिना नमक का भोजन ग्रहण करती हैं। मधुश्रावणी पर्व के 13 वें दिन नवविवाहिता द्वारा विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के उपरांत मां गौरी व भगवान शंकर से मंगल कामना की। पूरे 15 दिनों तक नियम व निष्ठा के साथ पति के लिए ही बिना नमक खाए व्रत की। साथ ही पति तथा ससुराल के प्रति अपने कर्तव्यनिष्ठा पर अधारित कथा सुनकर सुखमय दांपत्य जीवन जीने की प्रेरणा ली।

पत्रकार हत्या के विरुद्ध एन्युजेआई ने निकाला मौन जुलूस

मृतक के परिजनों को 25 लाख का सहयोग व सरकारी नौकरी दे सरकार : राकेश सिंह

राष्ट्रीय खबर

सारण : नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स डोंडिया (बिहार) की स्थानीय जिला इकाई द्वारा प्रत्रकार विमल कुमार यादव के हत्या पर आक्रोश व्यक्त किया गया। इस दौरान महासचिव राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में मौन जुलूस निकाल कर विरोध किया गया। तत्पश्चात, पत्रकारों का शिष्टमंडल जिला पदाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र सौंपा गया। जिसमें, पत्रकार के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल चलाने तथा आश्रितों को सरकारी नौकरी व 25 लाख रुपये देने सरकार से मांग की गई है। वहीं, प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने तथा पत्रकारों को शस्त्र लाइसेंस देने की मांग शामिल है। दरअसल, अपने भाई के हत्यारों का एकमात्र गवाह अररिया के पत्रकार विमल कुमार यादव की निर्मम हत्या से पूरे प्रदेश भर के पत्रकार आक्रोशित हैं। मौन जुलूस में शामिल संगठन के प्रदेश संयोजक रंजीत तिवारी ने कहा कि पत्रकारों पर हो रहे लगातार हमले बेहद निंदनीय है। प्रदेश में अविलंब पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं लागू किया गया तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। मौके पर राजीव रंजन, संजय कुमार, बिपन कुमार मिश्र, धनंजय सिंह, विकास कुमार, धनंजय कुमार, शशिभूषण पांडेय, पंकज कुमार, मनोरंजन पाठक, वसंत कुमार सिंह, रजनी शांडिल्य, संजय कुमार पांडेय सहित अन्य पत्रकार गण उपस्थित थे।

फलदार और छायादार पौधे लगाकर किया लोगों को जागरूक

राष्ट्रीय खबर

ह. खड़गपुर : प्रखंड के नया टोला तितपनिया और गोबड्डा स्थित डा. जोंस कनानाईकिल मध्य विद्यालय में एसएसबी 16वीं वाहिनी की एफ' समवाय की ओर से मेगा पौधरोपण अभियान 'के तहत ग्रामीणों, विद्यालय के अध्यापकगण व स्कूली छात्र-छात्राओं के साथ मिलकर पौधरोपण किया गया। एसएसबी 16वीं वाहिनी के कमांडेंट मनीष कुमार के निदेर्शानुसार 'एफ' समवाय के कंपनी कमांडर (सहायक कमांडेंट) पंकज यादव के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान में ग्रामीण व स्कूली छात्र-छात्राओं को पेड़ पौधों का मानव जीवन में महत्व के बारे में ज्ञानवर्द्धक जानकारी दी। इस मौके पर एसएसबी के सहायक कमांडेंट पंकज यादव ने कहा कि पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को काफी नुकसान पहूंच रहा है। प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन और अन्य समस्या को देखकर वर्तमान समय में सरकार के द्वारा वन संरक्षण एवं पौधरोपण के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखना जरुरी है। उन्होंने लोगों को प्रेरित करते हुए कहा कि अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनकी देखभाल करें तथा वनों का दोहन न करने के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर निरीक्षक राजेश कुमार, उप निरीक्षक मुकेश कुमार चुंडवाल, सहायक उप निरीक्षक कैलाश कुमार, संजय कुमार, हंसराज, मुख्य आरक्षी राजेंद्र कुमार चौरसिया, विजय सिंह मडावी, आरक्षी जयपाल सिंह गुर्जर, अजय कुमार, हिमांशु कौशिक, अनिल देसाई, चंपा देवी, मीनू देवी, रेनू देवी, परमेश्वर समेत छात्र-छात्रा, एसएसबी के जवान और ग्रामीण गणमान्य मौजूद थे।

अखंड भारत बनाए रखने को विघटनकारी शक्तियों से संगठित होकर लड़ने की आवश्यकता

ओजस्विनी ने अखंड भारत स्मृति दिवस पर की संगोष्ठी आयोजित

अखंड भारत,संयुक्त भारत विषय पर लोगों ने दी अपनी राय

राष्ट्रीय खबर



गया/ मानपुर : अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद की सहयोगी महिला शाखा ओजस्विनी ने ₹अखंड भारत, संयुक्त भारत₹ विषय पर एक आनलाइन संगोष्ठी का आयोजन किया। देश भर में मनाये जा रहे अखंड भारत संकल्प माह के तहत ओजस्विनी जिलाध्यक्षा डॉ कुमारी रश्मि प्रियदर्शनी के निर्देशन एवं संयोजन में आयोजित इस संगोष्ठी का शुभारंभ पावन शांति पाठ से हुआ। विषय प्रवेश करते हुए डॉ रश्मि ने कहा कि एक समय था, जब हमारे भारतवर्ष का स्वरूप अत्यंत वृहद, व्यापक, अखंडित तथा संयुक्त था। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत आदि देश भारत में ही शामिल थे। किंतु, कुछ शासकों व अधिकारियों के निकृष्ट स्वार्थ तथा सत्ता के लोभ एवं भारतीय समाज में शनैः-शनैः फैलती आपसी फूट एवं अलगाववाद के कारण हमारा देश टुकड़ों में विभाजित होता गया। सन 1947 से पहले पाकिस्तान तथा बांग्लादेश सब भारत के ही अंग थे। सन 1971 से पहले बांग्लादेश, भारत से खंडित हुए पाकिस्तान का ही एक प्रांत था, जिसे 'पूर्वी पाकिस्तान' कहा जाता था। वास्तविकता तो यह है कि 15 अगस्त, 1947 को खंडित भारत को स्वतंत्रता मिली। आर्यसमाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती, लाला लाजपतराय व सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे महान देशभक्तों की आशाओं एवं अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद के अखंड भारत के पुनर्निर्माण₹ की मांग का समर्थन करते हुए डॉ. रश्मि ने हर वर्ष 15 अगस्त को मनाये जाने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को खंडित भारत का स्वतंत्रता दिवस समारोह बतलाया। कहा कि हम भारतीयों का स्वप्न तब पूर्ण होगा, जब भारत से अलग कर दिये गये गांधार प्रदेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, श्रीलंका पुनः भारत में शामिल में हो जायेंगे। डॉ रश्मि ने स्वरचित पंक्तियों के माध्यम से कहा कि ₹हमें चाहिए वह भारत, जो व्यापक, वृहद, अखंडित हो। वह भारत, जो हो समग्र; छवि जिसकी गरिमामंडित हो। उन्होंने कहा कि भारत की गौरवमय संस्कृति, सभ्यता एवं स्वतंत्रता को अक्षुण्ण तथा विस्तृत स्वरूप को अखंडित बनाये रखने के लिए सभी देशभक्त भारतीयों को, विशेष रूप से हिन्दुओं को, विभिन्न राष्ट्र विघटनकारी गतिविधियों से संगठित होकर लड़ने की आवश्यकता है। संगोष्ठी में ओजस्विनी की जिलामंत्री अमीषा भारती, महामंत्री शिल्पा साहनी, कोषाध्यक्ष प्रतिज्ञा कुमारी, मुस्कान सिन्हा, श्रेया कुमारी, प्रगति मिश्रा, निकिता केसरी, सोनाली कुमारी, जूही कुमारी, बीना रानी दास, दिव्य प्रभा, साक्षी सिन्हा, इतिहर्ष, हर्षिता आदि अन्य प्रतिभागी ओजस्विनियों ने भी अखंड भारत, संयुक्त भारत₹पर अपने विचार रखे।

बिहार में असुरक्षित है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ : विद्यार्थी

मुंगेर : बिहार के अररिया जिले के दैनिक अखबार के एक पत्रकार विमल कुमार यादव हत्याकांड पर रोष व्यक्त करते हुए नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता रंजीत कुमार विद्यार्थी ने कहा कि बिहार में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं है। इसलिए बिहार सहित पूरे देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए। जिस प्रकार से बेखौफ अपराधियों ने घर पर चढ़कर पत्रकार विमल कुमार यादव की हत्याकांड को अंजाम दिया यह बिहार सरकार के लिए शर्म की बात है। दिवंगत पत्रकार स्वयं को लंबे समय से असुरक्षित महसूस कर रहे थे। जिसको लेकर उन्होंने कई वरीय पुलिस पदाधिकारी को सूचित किया था। बावजूद इसके उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई। उन्होंने कहा कि बिहार सहित पूरे देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए। दिवंगत पत्रकार के परिजनों को सरकारी नौकरी सहित 20 लाख रुपया मुआवजा का मांग किये।

आदिवासियों की हक मार रही है भाजपा : क्लिफ्टन डी. रोजारियो

राष्ट्रीय खबर

बगहा : प्रखंड बगहा दो के हरनाटांड स्थित भारतीय थारू कल्याण महासंघ के कार्यालय में शुक्रवार के दिन आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिति विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता भारतीय थारु कल्याण महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष दीपनारायण प्रसाद ने किया तथा संचालन शम्भु राय ने किया। मौके पर पहुंचे आदिवासी संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक क्लिफ्टन डी. रोजारियो ने कहा कि भाजपा द्वारा वन अधिकार कानून को निष्प्रभावी बना दिया गया है। वन अधिकार कानून 2006 को कमजोर करने के लिए 2011 और 2017 में संशोधन कर बिल्कुल ही निष्प्रभावी बना दिया गया है। यह सब केंद्र में बैठी मोदी सरकार द्वारा किया गया है।

आरक्षण पर बोलते हुए राष्ट्रीय संयोजक क्लिफ्टन डी. रोजारियो ने कहा कि जब देश में नौकरी बचेगी तब तो आरक्षण का फायदा किसी को होगा भाजपा सरकार तमाम पब्लिक सेक्टर को निजी हाथों में बेच रही है, इस निजीकरण के खिलाफ बोलना होगा लड़ना होगा तब हम आरक्षण का फायदा ले सकते हैं। भाकपा माले सिकटा विधानसभा क्षेत्र से विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता में परिचर्चा में भाग लेते हुए कहा कि भी सरकारें आदिवासियों को ऐसे कुछ नहीं दिया है। जो भी आरक्षण या अधिकार मिले हैं उसके लिए लंबी लड़ाई आदिवासी समाज को लड़नी पड़ी है। आज हालात यह है कि आजादी के लड़ाई के दौरान और आजादी के बाद जो भी संघर्षों द्वारा अधिकार हासिल हुआ था उन तमाम अधिकारों को केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार लगातार कटौती करते जा रही है। मौके पर आदिवासी संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष नंदकिशोर महतो, पशुराम यादव आंचल संचिव, थरुहट प्रगतिशील संस्था अध्यक्ष सुरेश प्रसाद, थारु बौद्धिक विचार मंच अध्यक्ष डा.शारदा प्रसाद, राजकुमार महतो, हेमराज पटवारी

सशक्त स्थाई समिति की बैठकों मे चर्चा और 10 करोड़ की संगठित लूट उजागर : गरिमा

पांच करोड़ के दोहरा भुगतान तथा इससे भी अधिक राशि का सरकारी खजाने को लगाई गई चपत

आयुक्त से दर्जनभर मुद्दों पर बिंदुवार स्पष्टीकरण मांगने का सशक्त स्थाई समिति ने लिया है निर्णय

राष्ट्रीय खबर

बेतिया, प. च. : चालू माह के 11, 12 और 18 तारीख को संपन्न नगर निगम के सशक्त स्थाई समिति की बैठकों में व्यापक चर्चा और विचार के बाद निगम के सरकारी खाते से बीते 11 माह में करीब पांच करोड़ के दोहरे भुगतान की सफाई एजेंसी पाथ्या से वापस कटौती का निर्णय लिया गया। इसके साथ हीं हजारी ट्रांसफर स्टेशन में पूर्ववर्ती नगर परिषद और बाद में नगर निगम द्वारा करीब दो दशक से जमा हुए हजारों मिट्रिक टन कचरे को आउट सोर्सिंग सफाई एजेंसी पाथ्या द्वारा उठाव कर-के उसका भी वजन कराके 1560 रुपए प्रति टन की दर से इसका भी भुगतान निगम से लेकर लेना करोड़ों की सरकारी राशि का लूट माना गया। तीनों दिन की बैठकों में चर्चा के दौरान सर्व सहमति यह भी स्वीकार किया गया की निगम के अपने लगभग सात दर्जन सफाई वाहन सरकारी दर से काफी कम यानी महज एक सौ रुपया प्रतिदिन के भाड़े पर वह भी सरकारी मेंटेनेंस के साथ सफाई एजेंसी को मुहैया कराने के एग्रीमेंट को भी सदस्यों ने संगठित लूट करार देते हुए स्पष्टीकरण देने का निर्णय सर्व सहमति से लिया। नगर निगम के सशक्त स्थाई समिति के द्वारा सर्व सहमति लिए गए उपरोक्त निर्णय की जानकारी देने के साथ महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने अनेक अन्य चौकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बोर्ड भंग होने के बाद चुनावी वर्ष में नगर आयुक्त के स्तर से विभागीय नियम प्रावधानों की घोर अनदेखी करके आउटसोर्सिंग वाली सफाई एजेंसी पाथ्या को वजन के आधार पर कार्य का भुगतान देना निगम के लिए बिल्कुल नया था। उस एजेंसी के साथ निगम द्वारा 11 महीने की जगह सीधे तीन साल और दो साल के लिए अर्थात एक ही बार में पांच साल का एग्रीमेंट नियमों को दरकिनार कर किया गया था। साथ ही नगर निगम के सरकारी खाते से सुनियोजित षड्यंत्र पूर्वक कुल दस करोड़ से भी ज्यादा की चपत पाथ्या नामक सफाई कंपनी द्वारा लगाए जाने का खुलासा करते हुए महापौर ने बताया एजेंसी से गीला और सूखा कचरा अलग अलग कलेक्शन करने का अनुबंध किया गया था। वहीं आउटसोर्सिंग एजेंसी को पूर्ण सफाई का कार्य देने के बाद भी निगम के पास छोड़ दिए गए वाहनों में 12 से 18 लाख प्रतिमाह तक का इंधन का बिल आया है, जिसको पाथ्या एजेंसी के बिल से समायोजन कराने की सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई है। महापौर सिकारिया ने यह भी बताया कि पूर्व से मानव बल की गणना के आधार पर आउटसोर्सिंग एजेंसी को भुगतान होता आ रहा था परंतु नगर आयुक्त शंभू कुमार द्वारा नई एजेंसी पाथ्या जो वजन के आधार पर भुगतान ले रही है, अनुपात में काफी अत्यधिक खर्चीली है। पूर्व के मानव बल के भुगतान की तुलना में अभी के कचरा तौल भुगतान से बढे वित्तीय भार का एक तुलनात्मक चार्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है। कचरे का वजन हो रहे प्राइवेट धर्म कांटे पर पूर्व के कर्मचारी को हटाकर पर्वेक्षक पदाधिकारी सहित छः कर्मचारी, दो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड एवं नाइट विजन सीसीटीवी कैमरा तत्काल प्रभाव से स्थापित किया जाए एवं एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार अपना धर्म कांटा भी तुरंत लगाया जाए। साथ ही घरदान पोखरा स्थित सामुदायिक भवन जनहित के कार्यों को छोड़कर एजेंसी द्वारा अपने कार्यालय के उपयोग में लाया जा रहा है, उसकी अभी तक की किराए का भुगतान पाथ्या एजेंसी के बिल से वसूल करने के साथ सामुदायिक भवन को जनहित के कार्यों के लिए खाली करने का निर्णय लिया गया। श्रीमती सिकारिया ने बताया कि तीन दिन की बैठक में संगठित लूट और भ्रष्टाचार पर रोक के अनेक अन्य निर्णय सर्वसहमति से किए गए हैं।

अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक की मौत

बगहा/चौतरवा : पुलिस जिला के चौतरवा मुख्य सड़क पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान बथवरिया थाना के बीबी बनकटवा निवासी छट्ठू महतो 50 वर्ष के रूप में हुई है। परिजनों ने कहा कि छट्ठू अपने घर से कुछ काम करने के लिए साइकिल से चौतरवा जा रहे थे। इसी क्रम में उन्हें किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर चौतरवा पुलिस पहुंची और छट्ठू को अस्पताल ले गई। जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद चौक-चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर घटना के समय गुजरने वाले सभी वाहनों की डिटेल निकालने में पुलिस जुटी हुई है। ताकि जिस वाहन से घटना हुई है उसका पता चल सके। स्थानीय लोगों ने कहा कि टक्कर काफी जोरदार थी। टक्कर लगने के बाद साइकिल सवार साइकिल के साथ कुछ दूर जा गीरा। जिससे सिर और पैर काफी डैमेज हो गया। घटना के बाद परिजनों का रोरोकर बुरा हाल है।

चौतरवा थाना अध्यक्ष सुरेश यादव ने कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस बल को घटनास्थल पर भेज गया जो अस्पताल लेकर गए। जहां उपस्थित चिकित्सक के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस अग्रेतर कार्रवाई में जुटी हुई है।

उपाधीक्षक की पहल- मरीजों को रात में भी मिल रही हैं दवाएं

बगहा : अनुमंडलीय अस्पताल के परिसर में अवस्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की दुकान औषधि नियंत्रण विभाग के आदेश पर बंद होने किए जाने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। अब रोज रात में चार प्राइवेट दवा दुकानें खुली रहेंगी ताकि अनुमंडलीय अस्पताल में रात में आने वाले मरीजों को दवा के अभाव में कोई समस्या नहीं हो। अस्पताल उपाधीक्षक डॉ. केबीएन सिंह ने बताया कि अस्पताल के सामने अवस्थित मनोज मेडिकल हॉल, शुक्ला मेडिकल, एकता मेडिकल तथा ब्लू मेडिक्स को रात में खोले रखने के लिए अनुरोध किया गया है। इसको स्वीकार करते हुए उपरोक्त दुकानदारों ने रात में अपनी अपनी दुकान खोले रखने की सहमति दी है। इसी के साथ ये दुकानें खुलनी शुरू भी हो गई हैं। इस बाबत पत्र लिखकर डीआई, एसडीएम बगहा एवं जिला चिकित्सा पदाधिकारी बेतिया को भी अवगत कराया जा चुका है।

अनियंत्रित कार व एक टेम्पू में जोड़दार हुई टक्कर,बाइक सवार सहित 6 लोग गंभीर रुप से घायल

राष्ट्रीय खबर

सुगौली,पू.चः छपवा-बेतिया राष्ट्रीय उच्च पथ में एक अनियंत्रित कार ने पीछे से एक टेम्पू में जोड़दार टक्कर मार दी। जिसके बाद एक बाइक सवार भी चपेट में आ गया। टक्कर के बाद टेम्पू गड्ढे में पलट गई। जिसमे बाइक सवार समेत आधा दर्जन लोग बूरी तरह से घायल हो गए। घटना शनिवार की पूर्वाहन की है। मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के फुलवरिया पंचायत के फुलवरिया गांव से सटे एनएच पर की है। एक कार बेतिया की ओर से आ रही थी।जो छपवा की ओर आ रही टेंपो में फुलवरिया नयका टोला पुल के समीप पिछे से जोड़दार टक्कर मार दिया।घटना के बाद टेंपू सडक किनारे गड्ढे में जाकर पलट गई।जिसमे टेंपू में सवार पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया थाना के माधोपुर पंचायत के आजाद नगर वार्ड 10 के आबास देवान की पत्नी मदीना खातुन,फहीम देवान की पत्नी नैमून नेशा,अमवा मझार के जोगेंद्र मांझी का पुत्र विनोद मांझी,बुधन मांझी की पत्नी सविता देवी और दुबौलिया के दिलीप पटेल की पत्नी प्रेमी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। इनमें सभी लोगों के सीर फटे है। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी थाना को दी। जिसके बाद घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सुगौली समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुचाया। जहां डाक्टरों के द्वारा उनका प्राथमिक उपचार किया गया। जिसके बाद उनकी स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी रेफर किया गया। वही टक्कर के समय फुलवरिया गांव के शीव साह का पुत्र साहेब कुमार बाइक से जा रहा था जो घटना की चपेट में आकर घायल हो गया।इस बावत थानाध्यक्ष धनंजय शर्मा ने बताया कि घायलों का इलाज कराया जा रहा है और अगली कार्रवाई की जा रही है।

दोनों पक्षों में हिंसक झड़प, दोनों ओर से एक-एक महीला हुई घायल

राष्ट्रीय खबर

सुगौली,पू.च : थाना क्षेत्र के नगर पंचायत के वार्ड नं 11 के निमूई गांव के दो परिवारों के बीच आपसी कहा-सुनी में मारपीट हो गई। जिसमे दोनों पक्षों से एक-एक महीला घायल हो गयी। मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनो पक्षों की घायल महिलाओं को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया। जहां डाक्टरों के द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार निमूई गांव के शेख रसूल और शेख शाकिर के घर की महिलाओं के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई। बात बढी और दोनो में मारपीट हो गई जिसमें शेख रसूल की पत्नी रेहाना बेगम और शेख शाकिर की पत्नी शहिदन खातुन घायल हो गई।थानाध्यक्ष धनंजय शर्मा ने बताया कि आपसी विवाद में हुए मारपीट में घायल दोनो महिलाओं का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करवाया जा रहा है। मामले को लेकर अभी तक किसी पक्ष से आवेदन नही मिला है।आवेदन मिलने पर अगली कार्रवाई की जाएंगी।

40 लीटर शराब सहित तीन तस्कर गिरफ्तार

बगहा/भैरोगंज : बगहा पुलिस जिला के भैरोगंज थाना पुलिस ने शुक्रवार की रात 40 लीटर चुलाई शराब के साथ दो धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। तथा शराब कारोबारी के निशानदेही पर शराब की धंधे का बहुत बडा नेटवर्क का खुलासा किया है। भैरोगंज थानाध्यक्ष लालबाबू प्रसाद यादव ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि मंझरिया सरेह होकर खेखरिया टोला रास्ते से शराब की एक बडा खेप निकलने वाला है। उन्होंने बताया कि सूचना के आलोक में उक्त रास्ते में पुलिस ने अपनी जाल बिछा दी, तथा वाहन जांच अभियान शुरू कर दी। तभी बाईक से आ रहे लोगों की तलाशी शुरू कर दी। बाईक तलाशी के दौरान डिक्की से 40 लीटर देशी चुलाई शराब बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार धंधेबाज प्रतापपुर गांव के रिंकू ठाकुर है। तथा धंधे में प्रयुक्त बाईक को जब्त किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार धंधेबाज की निशानदेही पर थाना क्षेत्र के खेखरिया गांव के भूट्टी मुखिया व नगीना मुसहर को गिरफ्तार किया गया, तथा उनकी बाईक जब्त की गई। उन्होंने बताया कि धंधेबाज शराब की खेप खेखरिया टोला गांव के भूट्टी मुखिया को पहुंचाता था। तथा वह शराब को बेचता था। गिरफ्तार तीनों धंधेबाजों के विरूद्ध बिहार उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए शनिवार को न्यायिक हिरासत में बगहा भेजा गया।

जनता दरबार में सुनवाई के दौरान एक मामले का समाधान

राष्ट्रीय खबर

सुगौली, पू.च : राजस्व विभाग के द्वारा मामले को लेकर शनिवार को थाना में लगे जनता दरबार में सुनवाई के लिए आए एक मात्र मामले का समाधान कर दिया गया। इसकी जानकारी देते हुए राजस्व पदाधिकारी सह प्रभारी अंचलाधिकारी नेहा कुमारी ने बताया कि थाना में लगे जनता दरबार में सुनवाई के लिए सुगौली निवासी साहेब राय और मुस्कान खातुन के बीच का मामला आया। जिसमे दोनो पक्षों से मामले के बारे में जानकारी ली गई। जिसमे स्पष्ट हुआ कि दोनो के बीच का विवाद है जो कोर्ट में चल रहा है। जिसको लेकर दोनों पक्षों को न्यालय में ही अपना पक्ष रखने की सलाह दी गई और मामले की सुनवाई बंद कर दी गई। उन्होंने बताया कि जनता दरबार में सुनवाई के दौरान थानाध्यक्ष धनंजय शर्मा मौजूद रहे।

दलित बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सर्वोच्च पद पर आसीन हो देश की सेवा करें : पारसनाथ

राष्ट्रीय खबर

मोतिहारी, पू.च. : मानव अधिकार आयोग के संरक्षक पारसनाथ अंबेडकर ने चकिया प्रखण्ड क्षेत्र के हरदियाबाद गांव में आयोजित राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान एवं राष्ट्रीय दलित न्याय आंदोलन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक दिवसीय बाल अधिकार संरक्षण कार्यशाला को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि दलितों में ही भगवान बसते हैं। पीड़ित, शोषित व दलित वर्ग के बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर देश के सर्वोच्च पदों पर होकर देश की सेवा करे। क्योंकि पीड़ित शोषित व दलितों के बच्चों में अपार प्रतिभा छुपी हुई है, जरूरत है उन्हें प्रोत्साहित कर उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने की। इस दौरान शिक्षा के महत्व पर सरल भाषा में प्रकाश डाला गया और अभिभावकों को अपने अपने बच्चों को प्रोत्साहित कर नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करने की बात कही गई। इस क्रम में परशुराम, अकलू राम, विश्वनाथ राम, शिवपूजन राम, कंगल राम, प्रयाग राम, हरेंद्र राम, तेज नारायण कुमार राम, रामबाबू राम, भुतनाथ राम के साथ स्कूली छात्र छात्राएं एवं अन्य लोग उपस्थित थे।

पत्रकार विमल यादव की हत्या लोकतंत्र की हत्या के समान : डॉ प्रेम

राष्ट्रीय खबर

गया : पूर्व कृषि मंत्री सह नगर विधायक डॉ प्रेम कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अररिया में एक हिंदी दैनिक अखबार के पत्रकार विमल कुमार यादव की हत्या किये जाने की तीव्र निंदा करते हुए कहा कि बिहार में अपराधियों का खौफनाक तांडव चल रहा है। बिहार के महागठबंधन सरकार प्रधानमंत्री बनने में मशगूल हैं। वहीं दूसरी घर पर ठेकेदार,बअस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी, सड़कों पर आम नागरिक और तो और जिनके जिम्मे जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है उस थानेदार की भी हत्या हो रही है। अति तो तब हो गया जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या सवेरे-सवेरे घर में घुसकर कर दी गई। हत्यारे ने घिनौना हरकत किया है जो घोर निंदनिय अपराध है। विमल यादव की हत्या लोकतंत्र की हत्या के समान है। जिस राज्य में पुलिस की हत्या हो, पत्रकार की हत्या हो वहां लोकतंत्र पर बात करने वाली बिहार सरकार को लज्जा आनी चाहिए। बिहार में सुशासन कहां है। दैनिक जागरण के जिस पत्रकार की हत्या आज हुई वे अपने भाई की हत्या के इकलौते गवाह थे। पूर्व कृषि मंत्री ने राज्य सरकार से पत्रकार हत्याकांड की निष्पक्ष जांच कर कर दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

रिहायशी क्षेत्र में पहुंचे मगरमच्छ का सफल रेस्क्यू

राष्ट्रीय खबर

बगहा : वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मदनपुर वन क्षेत्र अंतर्गत रिहायशी क्षेत्र में पहुंचे मगरमच्छ को वन कर्मियों की टीम ने रेस्क्यू कर गंडक नदी में छोड़ दिया। शनिवार की शुबह मदनपुर के समीप पटेसरा गांव के कुछ लोगों ने मगरमच्छ को देखा तो उनकी दिग्घी बंध गई। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना मदनपुर वन कार्यालय को दिया सुचना पर मदनपुर वन क्षेत्र के वनरक्षी संटू कुमार के नेतृत्व में पहुंची वन कर्मियों की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू करते हुए गंडक नदी में ले जाकर छोड़ दिया। संटु कुमार ने बताया कि भोजन की तलाश में मगरमच्छ भटक कर रिहायशी क्षेत्र में पहुंच गया था। जिसको सुरक्षित रेस्क्यू कर गंडक नदी में छोड़ दिया गया।

जिला खेल पदाधिकारी ने किया विद्यालय का औचक निरिक्षण

राष्ट्रीय खबर

भितहा : जिला खेल पदाधिकारी विजय कुमार पंडित द्वारा राजकीय +2उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अजय नगर रेणडहा का औचक निरिक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में विभिन्न खेल सामग्रियों एवं जिम खाना आदि का निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान आगामी खेल कार्यक्रम का आयोजन के आलोक में विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही साथ विद्यालय के खिलाड़ियों द्वारा भी अपना खेल प्रदर्शन किया गया। जिस दौरान तकनीकी बिंदुओं पर आवश्यक मार्गदर्शन तकनीकी दल द्वारा दिया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक अश्वनी सहाय एवं जिला खेल पदाधिकारी के साथ आए प्रशिक्षक एवं तकनीकी दल के सदस्य संदीप कुमार राय, फखरुद्दीन, प्रवीण कुमार एवं मंजय प्रसाद उपस्थित होकर खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया। वही खेल प्रशिक्षण के क्रम में विद्यालय के खिलाड़ियों द्वारा कबड्डी ध्रो,बालीवाल , बैडमिंटन,लम्बी कुद, उची कुद, आदि खेलों का प्रदर्शन किया गया। जिसमें विद्यालय के सभी शिक्षक और छात्र उपस्थित रहे। वही खेल पदाधिकारी श्री पंडित के द्वारा बताया गया कि उक्त विद्यालय के बच्चों मे खेल के प्रति काफी अभिरुचि है जिसके बढ़ावा के लिए जिला प्रशासन द्वारा बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जिससे बच्चे खेल में और आगे कुछ कर सके।

महाविरी झंण्डा को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न

राष्ट्रीय खबर

बगहा : पुलिस जिला के लौकरिया व नौरंगिया थाना परिसर में शनिवार को महाविरी झंण्डा पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। दोनों थाना परिसरों में आयोजित इस बैठक में थाना क्षेत्र के दर्जनों जनप्रतिनिधियों सहित समाजसेवी मौजूद रहे। लौकरिया थाना में थानाध्यक्ष अभय कुमार तथा नौरंगिया थाना परिसर में बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष राजेश झा ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए दोनों थानाध्यक्षों ने महाविरी झंण्डा पर्व को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने की अपील की। महाविरी झंण्डा पर्व को आपसी भेदभाव भुला कर सहयोग के साथ मनाने के साथ ही हिन्दू-मुस्लिम एकता की मिशाल कायम करने की बात बैठक में उपस्थित लोगों से कहीं गई। किसी भी प्रकार की गडबडी पैदा करने वाले लोगों को चिन्हित कर, थाना को जानकारी देने की बात कही।

डालमिया बाजार ने चेरकी में खोला पांचवा फ्रेंचाइजी शोरूम, हर उम्र के मिलेंगे कपड़े

10 हजार की खरीदारी पर मिलेगा चांदी का सिक्का

राष्ट्रीय खबर

बोधगया : गया शहर में कपड़ों के लब्ध प्रतिष्ठित ब्रांड डालमिया बाजार ने शनिवार को अपना पांचवा फ्रेंचाइजी शोरूम चेरकी बाजार स्थित मेन रोड पर खोला है। जिसका शुभारंभ डालमिया बाजार के प्रबंध निदेशक सह समाजसेवी शिव कैलाश डालमिया उर्फ मुन्ना बाबू डालमिया एवं प्रोपराइटर शब्बीर अहमद ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच संयुक्त रूप से फीता काटकर तथा दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर डायरेक्टर अभिषेक डालमिया ने बताया कि शहरी क्षेत्र के बाद ग्रामीण इलाकों में ग्राहकों को सस्ते दर पर रेडीमेड कपड़े उपलब्ध कराने के लिए चेरकी बाजार में फ्रेंचाइजी खोला गया है। जहां एक छत के नीचे सभी उम्र के लोगों को देश के ब्रांडेड कंपनियों में रेमंड, मोंटी कार्लो, अरविंद शूटिंग, आदया, सुभाष, लक्ष्मीपति सहित अन्य नामी-गिरामी मिलों के कपड़ों का विशाल संग्रह है। यहां शूटिंग शर्टिंग्स, फैंसी साड़ियां, फैंसी रेडीमेड कपड़े, वैवाहिक संग्रह की साड़ियां, कोट-पेंट शेरवानी, लहंगा- चुन्नी सहित सभी हर उम्र के लिए उचित मूल्य पर कपड़े उपलब्ध रहेंगे।वही 10 हजार की खरीदारी पर ग्राहकों को एक चांदी का सिक्का भेंट किया जाएगा। इस मौक पर इरफान अहमद, रिजवान अहमद, शिल्पा केसरी, विनय जैन सहित बाजार के कर्मचारी उपस्थित थे। पहले दिन ग्राहकों की अपार भीड़ देखी गई, बचपन से लेकर पचपन तक के कपड़ों का रेंज उपलब्ध है।

अंग्रेजी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार

चौतरवा : बगहा पुलिस जिला अंतर्गत चौतरवा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के मझौवा में की गई छापेमारी में अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए चौतरवा थानाध्यक्ष सुरेश कुमार यादव ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति झोला में शराब लेकर बिक्री कर रहा है। जिसकी सूचना मिलते ही थाना के एएसआई वाल्मीकि प्रसाद के साथ पुलिस बल ने मौके पर पहुँच कर शराब तस्कर को धर दबोचा है। जिसके पास से झोला में रखे अंग्रेजी शराब 8 पीएम 42 पीस जप्त करते हुए शराब तस्कर चौतरवा थाना क्षेत्र के सर्किल मझौवा गांव निवासी मनोज प्रसाद केशरी के पुत्र राजा कुमार को गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

राष्ट्रीय खबर हमारी नजर झारखंड
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

शहर ›› अपडेट

बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन

गुमला : आज गुमला के वृद्धा आश्रम, सीलम में राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गुमला के सिविल सर्जन और अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, साथ ही मानसिक रोग चिकित्सक डॉक्टर शारिब जैसे प्रशिक्षित चिकित्सक शामिल हुए। इस अवसर पर हर बुजुर्ग के बीच विशेष मेडिसिन किट और ताजे मौसमी फलों का वितरण किया गया।

शॉर्ट न्यूज अपडेट्स ››

कांवरियों का जत्था बोल बम के लिए रवाना

तेनुघाट : बोल बम हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा तेनुघाट जब कांवरियों का जत्था तेनुघाट से बाबा धाम की ओर रवाना हुआ । तेनुघाट से कांवरियों का जत्था बोल बम के लिए रवाना होने से पहले तेनुघाट पहाड़ी मंदिर, बड़ा चौक मंदिर के दर्शन कर गाड़ी पर बैठकर सुल्तानगंज के लिए निकले । जहां से गंगाजल लेकर देवघर के लिए रवाना होंगे । कांवरियों का जत्था में मिकी विश्वनाथन, सज्जू सुजीत, गोपाल राम, माखन अग्रवाल, सुमन कुमार, पप्पू मेहता, अशोक साव शामिल थे।

विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

पाकुड़ : झालसा रांची के निदेर्शानुसार 19 अगस्त 2023 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बालकृष्ण तिवारी के निर्देश पर सचिव शिल्पा मुर्मू के मार्गदर्शन में लिटरेसी क्लब समेत विधिक सहायता केंद्र प्रखंड परिसर पाकुड़ में जागरूकता अभियान चलाया गया। उक्त कार्यक्रम जिदातो गर्ल्स हाई स्कूल में पीएलवी कमला राय गांगुली ने किशोर समस्या से संबन्धित कई महत्वपूर्ण विधिक जानकारी दी। मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानकारी दी।

संक्षिप्त ›› अपडेट्स

एनसीओआरडी समिति की जिला स्तरीय बैठक

गुमला : आज शनिवार को उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी), समिति की बैठक की आहूत की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक, डॉ एहतेशाम वकारिब ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत अपराधियों की हाल की गिरफ्तारियों और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी। उपायुक्त ने पुलिस, चिकित्सा, शिक्षा और समाज कल्याण आदि जैसे संबंधित विभागों के बीच समन्वित तरीके से गहन जागरूकता/संवेदीकरण शिविर और निरीक्षण अभियान चलाने के साथ-साथ नशीली दवाओं के तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करने पर जोर दिया। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को दवा दुकानों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया , एवं अवैध रूप से संचालित दवा दुकानों एवं बिना प्रिस्क्रिप्शन के नशीले दवाओं की बिक्री करने वाले दुकानदारों पर कड़ी कारवाई करने की बात कही। उपायुक्त ने संभावी क्षेत्रों जहां अफीम एवं गांजा की खेती की जा सकती है वैसे चिन्हित स्थानों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वैसे लोग जो नशीले पदार्थों के सेवन के आदी हो चुके हैं वैसे व्यक्तियों का काउंसलिंग करें एवं आवश्यक पड़ने पर उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करें। इसके अलावा उन्होंने जिले में नव निर्मित नशा मुक्ति केंद्र में सभी आवश्यक सुविधाओं को दुरुस्त रखने का भी निर्देश दिया। इस दौरान बैठक में मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक , एसडीओ सदर, डीएसपी गुमला, सिविल सर्जन , जिला परिवहन पदाधिकारी , ड्रग इंस्पेक्टर सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे।

लोकल सेल पूर्व मंत्री से की स्वांग लोकल सेल में अवैध वसूली की शिकायत

अवैध वसूली के मामले में बेरमो के एसडीपीओ को लिखा पत्र

राष्ट्रीय खबर

बेरमो : सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र के स्वांग क्षेत्र के विस्थापित और बेरोजगार युवाओं ने स्वांग लोकल सेल में कमेटी द्वारा की जा रही अवैध वसूली का आरोप लगाया है। युवकों ने इस संबंध में एक हस्ताक्षरित आवेदन पूर्व मंत्री माधव लाल सिंह को सौंपा है। इसके अलावा बेरमो के एसडीपीओ के नाम भी पत्र लिखा गया है। हजारी गांव के अवधेश प्रसाद के नेतृत्व में दर्जनों बेरोजगारों ने पत्र सौपते हुए सिंह से शिकायत की है कि स्वांग लोकल सेल में अवैध वसूल की जा रही है।

बताया कि सीसीएल कथारा क्षेत्र के स्वांग गोविन्दपुर में गोविन्दपुर और स्वांग में कांटा घर है. दोनों ही जगहों पर लोकल सेल के माध्यम से कोयले की बिक्री होती है। इस बिक्री में डीओ होल्डर, ट्रक ऑनर, विस्थापित और स्थानीय मजदूरों की भूमिका रहती है। लेकिन इन दिनों कुछ दबंग किस्म के लोग स्वांग लोकल सेल में अवैध वसूली कर रहे हैं।

पूर्व में विस्थापितों और स्थानीय बेरोगार मजदूरों को लदनी सिस्टम से एक गाडी कोयला मिलता था जिसे बाहर के मंडियों में बेचकर जो आमदनी होती थी, उसे ये लोग आपस में बांटते थे। लेकिन पिछले वर्ष से विस्थापितों को इस स्कीम से हटा दिया गया है और तथाकथित कमेटी के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है।

लदनी की वसूली में होता है बंदरबांट-

पत्र में आरोप है कि लदनी के एवज में प्रति ट्रक 45 सौ रुपए वसूल किया जाता है, जिसमें 450 रुपए आन्दोलनकारी विस्थापित, स्थानीय और महिला मजदूरों को दिया जाता है। शेष राशि में उपरी कमेटी के नाम पर रखकर कुछ लोग आपस में बंदरबांट करते हैं। विस्थापितों ने श्री सिंह को हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की मांग की है। पत्र सौपने के दौरान प्रदीप पासवान, बद्री प्रसाद, राजेन्द्र रजक, सुन्दर लाल राम, रोहित यादव, राजकुमार यादव, आदित्य पांडेय, पप्पू पाठक, धीरन प्रसाद, धर्मनाथ, शशि प्रसाद, नंदलाल यादव, बिनोद राम सहित दर्जनों लोग शामिल थे।

अवध सिनेमा फुसरो के समीप एक बंद आवास से पुलिस ने एक महिला की सड़ी गली लाश को किया बरामद

बेरमो : बेरमो थाना क्षेत्र अंतर्गत अवध सिनेमा हॉल के समीप एक आवास में एक महिला का सड़ा गला शव पुलिस ने आज बरामद किया। शव लगभग 3 से 4 दिन पुराना प्रतीत होता है। शव की पहचान रेखा देवी 42 वर्ष के रूप में हुई। घटना के सूचना मिलते ही बेरमो थाना प्रभारी सुभाष पासवान, महिला थाना प्रभारी ज्योति कुमारी सहित पुलिस के जवान घटना स्थल पर पहुचे। घटना के संबध में मृतका के ससुर रामेश्वर भुइयां और सास शांति देवी ने पुलिस को बताया कि रेखा देवी परिवार से अलग रहती थी, स्वयं कमाती खाती थी, वह हम लोगों के साथ नहीं रहती थी। कहां की वह अधिक मात्रा में शराब का सेवन भी किया करती थी। उसके तीन बच्चे हैं वह भी उसके साथ नहीं रहते थे। सब स्वयं कमाते और खाते हुए अलग रहती थी। वहीं उनके पति कोलकाता में रहकर काम करते हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद मृतका की बड़ी बेटी रोशनी कुमारी अपने ससुराल जारंगडीह से यहां पहुंची। उन्होंने बताया कि लगभग एक डेढ़ सप्ताह पहले वह मां से मिलकर गई थी। तब वह ठीक थी। उन्होंने घटना को लेकर कोई शक संदेश नहीं जताया है ।पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

चारदीवारी निर्माण का किया शिलान्यास

गोला : गोला प्रखंड के औंराडीह उत्क्रमित मध्य विद्यालय में रामगढ़ विधायक सुनीता चौधरी ने चारदीवारी निर्माण के लिए शिलान्यास किया। विधिवत पूजा कर एवं नारियल फोड़ कर शिलान्यास का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर गोला प्रमुख गीता देवी, समाजसेवी सरिता देवी, मुखिया जीतलाल टुडू,आजसू नेता रणधीर कुमार,प्रभात कुमार,गौतम महतो, प्रदीप महतो, रमेश मुर्मू,गणेश मांझी, बहादुर तांती, भोला मांझी, गंभीर बेदिया,बसंत बेदिया,महालाल टुडू सहित सैकड़ों लोग शामिल थे।

सीटू ने सीसीएल स्वांग वाशरी के पीओ को सौंपा मांग पत्र

राष्ट्रीय खबर

बेरमो : एनसीओईए (सीटू) स्वांग वाशरी शाखा का प्रतिनिधिमंडल ने सीसीएल के कथारा क्षेत्र अंतर्गत स्वांग वाशरी के नवनियुक्त परियोजना पदाधिकारी ए.के श्रीवास्तव से मिलकर 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यूनियन के कथारा क्षेत्रीय सचिव सह सीसीएल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य प्रदीप कुमार विश्वास ने किया। इस मांग पत्र में स्वांग वाशरी के सभी प्लांट में इमरजेंसी लाइट या डीजी की व्यवस्था करने, मजदूरों को जूता, टोपी टॉर्च, गमबूट आदि सुरक्षा उपकरण देने, अस्पताल में स्थाई रूप से डॉक्टर, नर्स चिकित्सा कर्मी की व्यवस्था करने आदि की 12 सूत्री मांगें शामिल हैं। प्रतिनिधि मंडल में यूनियन के राकेश कुमार, राजकुमार मल्लाह, मोहम्मद इसराइल, सोबिया देवी, अब्दुल लतीफ, मोहनलाल कुमार आदि शामिल शामिल थे।

ब्रह्माकुमारी सेवाकेंद्र में

मीडियाकर्मियों को ईश्वरीय रक्षासूत्र बांध राखी का दिया संदेश

राष्ट्रीय खबर

पतरातू : पतरातू प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग मेडिटेशन सेवाकेंद्र पतरातू में सात दिवसीय कार्यक्रम दिनांक 18 से 24 अगस्त तक मनाई जाने वाली दिव्य ईश्वरीय रक्षाबंधन एवं राजयोग मेडिटेशन कार्यक्रम के द्वारा मीडिया भाईयों को ब्रह्माकुमारी सेवाकेंद्र में ईश्वरीय रक्षासूत्र बांध कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के प्रथम दिवस पर पतरातू सेवाकेंद्र संचालिका ब्रह्माकुमारी रोशनी बहन ने कहा कि पवित्र माह सावन में सभी मीडिया भाईयों के लिए लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन जीने की परमात्मा शिव से शुभ कामना करती हुं। उनके द्वारा ईश्वर से भाई एवं बहनों के सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना की गई। अपने सम्बोधन के दौरान रौशनी बहन के द्वारा कहा गया कि ईश्वरीय रक्षासूत्र बांधाकर परमात्मा शिव से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान ब्रह्माकुमारी रीना बहन ने सभी उपस्थित मीडियाकर्मियों को आत्म- स्मृति का तिलक लगा कर कहा कि तिलक हमारी आत्मा का यादगार है। परमात्मा शिवबाबा कहते है की अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा शिव को याद अर्थात मेडिटेशन करो तो तुम्हारे आत्मा के सब पाप भस्म होंगे। कार्यक्रम के दौरान संस्था के आयोजनकर्ता बीके रामदेव के द्वारा कहा गया कि पतरातू क्षेत्र में सरकारी , गैर सरकारी परिसरों में एवं क्षेत्र के विशेष गण्य मान्य लोगों को पवित्र माह सावन में ब्रह्माकुमारी बहनें ईश्वरीय रक्षासूत्र बांध परमात्मा शिव का सत्य परिचय दिया जाने का लक्ष्य संस्था के द्वारा रखा गया है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित मीडियाकर्मियों के अलावा ब्रह्माकुमारी संस्था से ऊषा जी ,रवि टोप्पो एवं लक्ष्मी देवी मुख्य रूप से उपस्थित थी।

रामेश्वर फौजी ने सीसीएल अधिकारियों के साथ की वार्ता

राष्ट्रीय खबर

गिद्दी : जीएम ऑफिस सिरका स्थित भूली क्वार्टर निवासी भूतपूर्व कर्मी खिरवा भुईयां को सेवानिवृत्ति के 11 वर्षों के बाद से पेंशन नहीं मिल रहा है। इसकी खबर मिलते हीं कोलियरी मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री रामेश्वर सिंह फौजी पीड़ित कामगार खिरवा भुईयां से मिले। साथ ही जल्द प्रबंधन के अधिकारियों से मिलकर पेंशन चालू करवाने का आश्वासन दिलाया। इसके अलावे यूनियन सदस्यों ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी की। मजदूर नेता रामेश्वर सिंह फौजी के नेतृत्व में यूनियन सदस्यों ने अरगड्डा एसओपी से मुलाकात कर पीड़ित मजदूर के 2012 सेवानिवृत काल से एरियर का कुल भुगतान समेत पेंशन चालू करने की बातें रखी। फौजी ने बताया कि भ्रष्टाचार के कारण पीड़ित कामगार परिवार का मेडिकल कार्ड भी नहीं बना है। सेवानिवृत मजदूर की पत्नी ने बताया कि पेंशन चालू करने के नाम पर पचास हजार की मांग की जाती है।

जबकि पूर्व सीसीएल कर्मी अभाव के कारण लाचार एवं असहाय होकर भीख मांगने पर भी मजबूर है। इसके अलावे लकवा रोग से ग्रसित होकर जिंदगी गुजार रहे हैं। मौके पर यूनियन के आरएन सिंह, संजय बक्शी, संजय कुमार, रेखा राय, रामा शंकर राम, एहसान अंसारी, मनोज कुमार, ललन राम आदि उपस्थित थे।

स्वास्थ्य विभाग ने लगाया स्वास्थ्य जांच शिविर

राष्ट्रीय खबर

देवघर: स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के निर्देशनुसार प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को बुजुर्ग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ रंजन सिन्हा के निर्देशनुसार राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन देवघर के अंतर्गत देवघर और मधुपुर शहर में संचालित शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों में बुजुर्गों के लिए तीसरे शनिवार को मासिक बुजुर्ग देखभाल दिवस का आयोजन किया गया, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कल्याणपुर,करनीबाग,पुराना सदर अस्पताल, रामपुर पुनसिया ,मधुपुर, अटल मोहल्ला क्लिनिक कोरियासा, थाड़ीदुलामपुर, रोहिणी ,चांदपुर सिमरिया, सलोनाताड़, कल्याणपुर, माथाबांध, पुराना बस स्टैंड, अर्बन हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर गांधीनगर ,बरियारबांधी, चंदाजोरी, लालगढ़, चांदमारी में मासिक बुजुर्ग दिवस का आयोजित किया गया। बुजुर्ग देखभाल दिवस की जानकारी देते हुए जिला शहरी स्वास्थ्य प्रबंधक सुनील मणि त्रिपाठी द्वारा बताया गया की इस स्वास्थ्य जाँच शिविर में बुजुर्ग मरीजो का मधुमेह, रक्तचाप, बहरापन, दृष्टीदोष की जाँच की सुविधा उपलब्ध करायी गयी, जिसमें शुगर, बी पी, हीमोग्लोबिन, आदि की जांच किया गया तथा दवा वितरण किया गया और सभी को स्वस्थ रहने के लिए परामर्श दिया गया,उनका आभा आईडी बनाया गया।

आयुष्मान योजना रांची स्थित लाइफ केयर हॉस्पिटल में हुआ हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी

सामाजिक कार्यकर्ता विकास गुप्ता एवं डॉ अनुज के पहल पर चंदुलु को मिली नई जिंदगी

राष्ट्रीय खबर

बेरमो: सामाजिक कार्यकर्ता विकास कुमार गुप्ता एवं झारखंड के प्रसिद्ध डॉक्टर अनुज कुमार के पहल पर गोमिया के रहने वाले 62 वर्षीय चंदलू रविदास को नई जिंदगी मिली है। चंदलू रविदास 3 महीने से बिस्तर पर इलाज एवं पैसे के अभाव में पड़े हुए थे चंदलू रविदास की बहू ज्योति कुमारी ने सामाजिक कार्यकर्ता विकास कुमार गुप्ता से किसी तरह संपर्क करके मदद की गुहार लगाई । सामाजिक कार्यकर्ता विकास कुमार गुप्ता ने मामले को संज्ञान में लेते हुए चंदलू रविदास के वास्तविक स्थिति से झारखंड के प्रसिद्ध डॉक्टर अनुज कुमार को अवगत कराया डॉ अनुज कुमार ने मामले को संज्ञान में लेते हुए चंदलू के परिजनों से बात करके समस्या से अवगत हुए। डॉ अनुज कुमार ने चंदलू रविदास का इलाज रांची स्थित लाइफ केयर हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत करवा दिया । तथा परिजनों को यथासंभव मदद किए साथ ही इलाज होने तक परिजनों के संपर्क में रहें।

बताते चले की चंदलू रविदास का हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी होना था इनकी बहू ज्योति कुमारी ने प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाए जहां पर लाखों का खर्चा बताया गया आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ज्योति अपने ससुर को वापस अपने घर ले आई इसके बाद चंदलू रविदास इलाज के अभाव में 2 महीने तक बिस्तर में ही पड़े रहे किसी तरह उनकी बहू ज्योति कुमारी ने सामाजिक कार्यकर्ता विकास कुमार गुप्ता से संपर्क कर मदद की गुहार लगाई थी जिसके बाद विकास गुप्ता ने मामले को लेकर डॉ अनुज कुमार को अवगत करवाया डॉ अनुज कुमार ने बिना देरी करते हुए मरीज को रांची स्थित लाइफ केयर हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत इलाज करवा दिया तथा यथासंभव मदद भी किया। सर्जरी पूरी होने के बाद परिजनों ने डॉक्टर अनुज कुमार एवं सामाजिक कार्यकर्ता विकास कुमार गुप्ता को धन्यवाद देते हुए कहा कि ऐसे लोग समाज में बहुत कम मिलते हैं मेरे ससुर को नए जीवन प्रदान करने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करती हूं।

झारखंड इंटर कॉलेज में ग्रामीणों की हुई बैठक

राष्ट्रीय खबर

गिद्दी : झारखंड इंटर महाविद्यालय होसिर में बुद्धिजीवियों और ग्रामीणों की एक बैठक जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष कुमेश्वर महतो की अध्यक्षता में आयोजित की गई।बैठक में सर्वसम्मति से सत्र 2023-2027 में नामांकन डिग्री कॉलेज के लिए करने का निर्णय लिया गया।आगामी बैठक में इसके लिए पूर्ण रूप से निर्णय लिया जाएगा।इस महाविद्यालय में शिक्षा को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।बैठक में कुमेश्वर महतो,चुकेंद्र महतो, दिनेश्वर महतो, गणेश महतो, केतर मुंडा,सुजीत कुमार महतो, सुनील कुमार महतो, डमरलाल महतो आदि लोग उपस्थित थे।

राष्ट्रीय ख़बर हमारी नज़र अभिव्यक्ति

web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

रजत कुमार गुप्ता

लोग सही कहते हैं कि समय खराब होता है तो रस्सी भी सांप बन जाता है। अभी भारतीय राजनीति में कुछ ऐसा ही चल रहा है। जिन मुद्दों को मुर्दा बताकर दबाया गया था, वे गाहे बगाहे कहीं न कहीं से फन काढ़कर खड़े हो रहे हैं। अब देखिये अडाणी मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाला गया था तो उस कंपनी के ऑडिटरों के लगातार भाग जाने का मसला खड़ा हो गया। दूसरी तरफ सीएजी ने लगातार कई रिपोर्ट जारी कर इस मोदी सरकार के काम काज पर सवाल खड़े कर दिये। यह सब कुछ उस हवाई चुंबन के रिफ्लेक्ट होकर कहीं जा टकराने के बाद से हो रहा है।

चुम्मा वह भी हवाई पर बम जैसा फट गया है

चुम्मा वह भी हवाई यानी अंग्रेजी में फ्लाइंग किस ने अचानक से सुस्त पड़ी यूपी की राजनीति को गरमा दिया। हर बार राहुल गांधी पर जोरदार आरोप लगाने वाली स्मृति ईरानी इस बार खुद ही इस चुम्मा बम से घायल हो गयीं। अब बदलते समीकरणों में उन्हें इसका चुनावी लाभ मिलेगा या नुकसान होगा, यह देखने लायक बात होगी। फिर भी अनेक वैज्ञानिक यह समझने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल अगर वाकई राहुल ने फ्लाईंग किस किया भी था तो वह स्मृति ईरानी की तरफ नहीं था। आसन पर बैठे ओम बिड़ला की तरफ यह इशारा था।

राहुल पर कैमरा फोकस नहीं रखने के अदृश्य निर्देश की वजह से टीवी पर इस कार्यवाही को देखने वाले साफ साफ कुछ नहीं देख पाये। बाद में लोकसभा टीवी की तरफ से साफ किया गया कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। फिर भी मेरे जैसे कई शक्की लोग यह मानते हैं कि शायद इस घटना में हवाई चुंबन का परावर्तन हो सकता है। हमलोगों ने विज्ञान में पढ़ा था कि प्रकाश किरणों का परावर्तन कैसे होता है। किसी सतह से टकराने के बाद प्रकाश किरणें जिस तरीके से परावर्तित होकर समान कोण पर आगे बढ़ती है, तो क्या सामने बैठे लोकसभा अध्यक्ष ने टकराकर यह हवाई चुंबन दूसरी तरफ खड़ी स्मृति ईरानी की तरफ नहीं जा सकता है। गनीमत है कि लिखित शिकायत के तुरंत बाद ही भाजपा वाले इस मुद्दे पर हंगामा करने से पीछे हट गये क्योंकि असली मुद्दा तो मणिपुर था।

लोग सही कहते हैं कि समय खराब होता है तो रस्सी भी सांप बन जाता है। अभी भारतीय राजनीति में कुछ ऐसा ही चल रहा है। जिन मुद्दों को मुर्दा बताकर दबाया गया था, वे गाहे बगाहे कहीं न कहीं से फन काढ़कर खड़े हो रहे हैं। अब देखिये अडाणी मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाला गया था तो उस कंपनी के ऑडिटरों के लगातार भाग जाने का मसला खड़ा हो गया। दूसरी तरफ सीएजी ने लगातार कई रिपोर्ट जारी कर इस मोदी सरकार के काम काज पर सवाल खड़े कर दिये। यह सब कुछ उस हवाई चुंबन के रिफ्लेक्ट होकर कहीं जा टकराने के बाद से हो रहा है।

इसी बात पर हिंदी फिल्म हम का यह गीत याद आने लगा है। इस गीत को लिखा था आनंद बक्षी ने और संगीत में ढाला था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसे खुद फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन ने अपना स्वर दिया था। गीत के बोल कुछ इस तरह हैं

जुम्मा, जुम्मा, जुम्मा, जुम्मा, जुम्मा
जुम्मा, जुम्मा जुम्मा जुम्मा जुम्मा जुम्मा
अरे ओ जुम्मा, मेरी जानेमन, बाहर निकल
आज जुम्मा है, आज का वादा है
देख मैं आ गया, तू भी जली आ
मुझे मत और तड़पा
अरे तू बोली थी पिछले जुम्मे को
चुम्मा दूंगी अगले जुम्मे को
आज जुम्मा है तो आजा आजा
जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा
जुम्मे के दिन किया चुम्मे का वादा
जुम्मे को तोड़ दिया चुम्मे का वादा
ले आ गया रे फिर जुम्मा-चुम्मा ...
जुम्मे के बदले में, क्या दोगे बोलो तो
लेना क्या, देना क्या, लेना क्या, देना क्या
लेना क्या लेना क्या, चुम्मा दो ...
मैं कुछ न दूंगा इससे ज्यादा चुम्मा
चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा ...
कर तो न चुम्मे जवर जुम्मा
चुम्मा न दे, जुम्मा चुम्मा न दे चुम्मा
जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा
मैं तेरा जी भर दूँ सोचा था हाँ कर दूँ
फिर काहे फिर काहे ना कर दी, ना कर दी
फिर काहे ना कर दी
मैं सद के जान कर दूँ
मैं ने बदल दिया इरादा जुम्मा
चुम्मा न दे, जुम्मा चुम्मा ना दे चुम्मा ...

इसलिए लोकसभा चुनाव के पहले हो रही खेमाबंदी में इस किस्म के शह मात का खेल तो अभी और तेज होता ही चला जाएगा। लेकिन यह बात माना जाना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा ने देश में राहुल गांधी की राजनीतिक छवि को बदलकर रख दिया है। राहुल गांधी के शब्दों में उन्हें नकारा साबित करने के पीछे भाजपा ने जो हजारों करोड़ रुपये खर्च किये थे, वह पूरा का पूरा पानी में चला गया है। अब खुद भाजपा अपनी ही बोयी फसल काटने में अपने ही हाथों को घायल कर रही है।

ईडी का बड़ा सहारा था लेकिन लगता है अब भाई लोग ईडी से भी डरना छोड़ चुके हैं और अब इसी एजेंसी को चुनौती देने लगे हैं। एक तरफ अभिषेक बनर्जी और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन, इंडिया गठबंधन के दो युवा नेताओं ने ऐसा कर दिखाया है। ईडी के अंदर भी शायद इस पर माथापच्ची चल रही है कि वर्तमान निदेशक का कार्यकाल अगले माह की पंद्रह तारीख को समाप्त होने के बाद क्या होगा। वैसे भी इन एजेंसियों में भी शीर्ष पदों पर कोई कम घमासान नहीं होता है। चुनाव में जनता किसका सर चुमेगी, यही असली टेंशन है।

खूबसूरती में हैं मां से चार कदम आगे, लोग बोले- अगली मिस इंडिया

पूनम ढिल्लों की 27 साल बेटी को देख थम गई फैंस की सांसें

पूनम ढिल्लों अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस रह चुकी हैं। पूनम 1978 में मिस इंडिया का खिताब भी जीत चुकी हैं। पूनम ढिल्लों ने अपनी बेमिसाल खूबसूरती से फैन्स के दिलों पर राज किया था। भले ही अब पूनम ने फिल्मों से दूरी बना ली हो, पर उनकी अदाकारी और खूबसूरती का गुणगान लोग आज भी करते हैं। पूनम ढिल्लों सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव देखी जाती हैं और यहां पोस्ट साझा कर अपने फैन्स के साथ जुड़ी भी रहती हैं। आपको पता है पूनम ढिल्लों की एक बेहद खूबसूरत बेटी भी हैं, जिनका नाम पलोमा ढिल्लों है।

पलोमा ढिल्लों की इंस्टाग्राम पर ढेरों तस्वीरें मौजूद हैं, जिसे देखने के बाद आप भी उनकी खूबसूरती के कायल हो जाएंगे। 27 साल की पलोमा ढिल्लों का इंस्टाग्राम अकाउंट वैसे तो स्टाइलिश तस्वीरों से भरा है, लेकिन इस समय जो तस्वीर उनकी सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है, उसमें वे शीशे में देखकर पोज देती नजर आ रही हैं। इस तस्वीर में पूनम ढिल्लों की बेटी पलोमा बहुत ही ग्लैमरस लग रही हैं। ब्लैक ट्यूब टॉप, उसके ऊपर शर्ट, खुले बाल के साथ हैट में पलोमा का लुक देखते ही बन रहा है। उनकी इस फोटो को लोगों द्वारा पसंद भी खूब किया जा रहा है। इस तस्वीर पर लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। गौरतलब है कि पूनम ढिल्लों त्रिशूल (1978), काला पत्थर (1979), नूरी (1979) जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं। एक्ट्रेस ने



1988 में फिल्म प्रोड्यूसर अशोक ठकेरिया से शादी की थी। हालांकि, दोनों की यह शादी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई थी और 1997 में इनका तलाक हो गया था। इस कपल के अनमोल और पलोमा नाम के दो बच्चे हैं। फिटनेस क्वीन और कमाल की डांसर हैं पूनम ढिल्लों की बेटी, सनी देओल के छोटे बेटे संग करेंगी डेब्यू। 27 साल की पालोमा ढिल्लों अपनी निजी जिंदगी को काफी प्राइवेट रखती हैं। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी प्राइवेट है। हालांकि सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों की कोई कमी नहीं है। अब पालोमा बॉलीवुड में अपना हाथ आजमाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि अभी तक पालोमा की डेब्यू फिल्म का नाम अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन वह जल्द ही सूरज बड़जात्या के बेटे अविनाश बड़जात्या की फिल्म में नजर आएंगी। इस फिल्म से सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर देओल भी फिल्मी दुनिया में कदम रखेंगे। बता दें, पालोमा को बचपन से खेल-कूद में ज्यादा इंट्रस्ट रहा है। वह फुटबॉल खेला करती थीं। एक वक्त पर वह प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना चाहती थीं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।धीरे-धीरे पालोमा का मन डांस और मॉडलिंग की ओर खिचने लगा। जिसके बाद उन्होंने खुद को इन कलाओं को में बेहतर बनाना शुरू कर दिया। खबरों की मानें तो पलोमा ढिल्लों नेफेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में भी भाग लिया था और इसे जीता भी था। पूनम की लाडली ने मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल से पढ़ाई की है।

चिंता करो, सुख से जियो

››व्यंग्य ››अनूप कुमार शुक्ला

हमने दोस्त के यहां फोन किया। उसके बच्चे ने उठाया। मैंने पूछा -पापा कहां हैं।

वो बोला- पापा चिंता कर रहे हैं।

क्यों, क्या हुआ? कोई समस्या है क्या? -मैं चिंतित हो गया।

नहीं, नहीं अंकल कोई परेशानी नहीं। पापा तो आजकल रोज चिंता करते हैं। कहते हैं इससे तबियत ठीक रहती है। बच्चा शांत आवाज में बता कम समझा ज्यादा रहा था। हमारा मित्र रोज चिंता कर रहा है, माने कि दुखी है। उसके दुख में दुखी न हुए तो वो दुख हमारे पास पातक बनकर आएग। भारी वाला। विलोकेगा। लफड़ा होगा। आफत है। हमने सोचा मित्र के दुख में दुखी हो आते हैं। अपना पातक बचा लेते हैं। सावधानी सटा के , दुर्घटना घटा लें।

पांच मिनट में हम दुख जाहिर करने के लिए दौड़े। पहुंचे दोस्त-द्वारे। सोचा पूछेंगे- क्या हाल हैं प्यारे। क्या हुआ अब हम इतने गैर हो गए कि बताते भी नहीं और अकेले-अकेले दुखी हो लेते हो। कम से कम हमारा तो सोचते क्या होगा! ये तो कहो हमने फोन कर लिया वर्ना हम तुम्हारे दुख में दुखी न हो पाते और हमें तो बड़ा दुख पकड़ लेता। तुम इतने खुदगर्ज निकलोगे, सोचा भी न था। तुमसे ऐसी आशा तो न थी।

लेकिन हम कुछ पूछें इससे पहले ही दोस्त ढीले नाड़े वाला पायजामा संभालते हुए बोला- आओ, आओ। बैठो। इतनी सुबह। सब खैरियत तो है। बेटा मून्नू देखो अंकल आए हैं। चाय-पानी लाओ। मम्मी को बुलाओ। देखते आओ सूरज किधर निकला है। कौन कहता है दुनिया में साधुवाद युग का श्राद्ध हो गया। ये तो हमींअस्तो, हमीअस्तो वाला सीन है। हमने पूछना शुरू किया-

सुना है आजकल तुम रोज चिंता करते हो!

हाँ यार तुमको बताना भूल गया। आजकल रोज नियम से चिंतित हो लेता हूँ। जब से चिंतित होना शुरू किया है बहुत फायदा है। वजन कंट्रोल में हैं। टाइम बचता है। घर बैठे सेहत चकाचक। दोस्त के चेहरे पर हमको मूढ़मति मानने वाली दिव्य मुस्कान विराज रही थी।

चिंतित होने से फायदा! ये क्या पहेलियां बुझा रहे हो? सबेरे से कोई मिला नहीं क्या? -हम पानी पीते हुए बोले। हाँ भाई, सच कहता हूँ। चिंतित होने से बहुत फायदा होता है। दिखता नहीं तुमको कि मेरा वजन कितना कम हो गया। -दोस्त उवाचा। हां सो तो देख रहा हूं पहले से आधे हो गए। ऐसा कैसे हुआ? हम जिज्ञासु बन गए।

ये इसी 'चिंता थेरेपी' से हुआ। हम रोज नियमित एक घंटा चिंतित हो लेते हैं। जब से चिंतित होना शुरू किया शान से खाते हैं, शान से सोते हैं। मार्निंग वाक, एवनिंग वाक को अपने रूटीन से डिलीट कर दिया। हम तो कहते हैं कि जिसको अपने स्वास्थ्य की रत्ती भर भी चिंता है उसे चिंता करना शुरू कर देना चाहिए। -दोस्त सूचना मोड से प्रवचन मोड में आ रहा था।

आदमी नियमित चिंता करता रहे तो उसका वजन घटता रहता है। चाहे जो खाए नियंत्रण में रहता है। हमारे यहाँ पहले बहुत से लोग बता गए हैं चिंता से आदमी दुबला होता है। इसीलिए ये देखो हमने अपने घर की दीवारों पर चिंता थेरेपी वाले पोस्टर लगा रखे हैं- चिंता करो, सुख से जियो। चिंता सरोवर में डुबकी लगायें, अपना वजन मनचाहा घटायें। बढ़ते वजन से परेशान, नियमित चिंता से तुरंत आराम। चिंतित होते ही वजन की चर्बी गायब।

लेकिन हमने तो देखा है लोग खूब चिंतित रहते हैं फिर भी दुबले नहीं होते। कैसे तुम्हारी बात सच मान लें। -हमने प्रतिवाद किया।

अच्छा तुम ही बताओ भला अमेरिकन राष्ट्रपति की स्लिमनेस का राज- हमने सवाल किया।

वह एक देश में लोकतंत्र बहाल करने के लिए इतना चिंतित होता है कि उस देश को तहस-नहस कर देता है। एक अपराधी को पकड़ने की चिंता में पूरी दुनिया को जहां शक होता है रौंद देता है। दुनिया भर में शांति बहाल करने के लिए इतना चिंतित रहता है कि हर जगह अपने हथियार तैनात कर देता है। अपने पास हजारों बम होते हुए भी दूसरे देश के परमाणु परीक्षण को दुनिया भर के लिए खतरा मानकर चिंतित होता रहता है। इसी तरह के तमाम चिंता? के कारण ही वह दुबला-पतला, स्लिम-ट्रिम, स्मार्ट-छैला बाबू टाइप बना रहता है। कुल मिलाकर यह कि वह चिंतित रहता है।

चिंता करना आजकल स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। भाई अगर आप बुरा न मानें तो मुझे तो आपका यह दोस्त सिरफिरा लगता है।-युवा साथी ने राय दी! सोनिया गांधी, मेनका गांधी दोनों की उस समय शादियाँ हुईं नहीं थी लिहाजा उनके आजादी दिलाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर कहाँ से गांधीजी आजादी के समय आ गए। जबकि आपका दोस्त बताता है कि गांधीजी ने देश को आजाद कराने में योगदान दिया। आपके जिस दोस्त की इतिहास की समझ इस हद दर्जे की माशाअल्लाह है उसकी किसी भी बात पर गौर करने के पहले से मैं हजार बार विचार करूंगा। मुझे तो चिंता होने लगी है कि कैसी-कैसी समझ वाले लोग आपके दोस्त हैं। अपने नौजवान दोस्त की बात सुनकर मैं भी चिंतित होने लगा।

आपके क्या हाल हैं? आपने चिंतित होना शुरू किया कि नहीं!

अक्षय ऊर्जा को अपनाना समय की जरूरत

योगेश कुमार गोयल

पूरी दुनिया में पारम्परिक ऊर्जा के मुकाबले अक्षय ऊर्जा की मांग लगातार तेजी से बढ़ रही है। दरअसल वर्तमान में पूरी दुनिया पर्यावरण संबंधी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है और पारम्परिक ऊर्जा स्रोत इस समस्या को और ज्यादा विकराल बनाने में सहभागी बन रहे हैं जबकि अक्षय ऊर्जा इन गंभीर चुनौतियों से निपटने में कारगर साबित हो सकती है। यही कारण है कि भारत में भी अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि का उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़ी-बड़ी परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। विभिन्न अवसरों पर प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा को श्योर, प्योर और सिक्योरबताते हुए अक्षय ऊर्जा के महत्व को स्पष्ट रेखांकित कर चुके हैं। अक्षय ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत की यह बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है कि भारत दुनियाभर में अक्षय ऊर्जा उत्पादन में चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। देश में अक्षय ऊर्जा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ही वर्ष 2004 से प्रतिवर्ष 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है।

प्रदूषणकारी और सीमित मात्रा में उपलब्ध पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के बजाय अक्षय ऊर्जा से ही ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए अब देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं से उत्पादित होने वाली बिजली के कारण वातावरण में प्रतिवर्ष लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। अक्षय ऊर्जा उत्पादन के मामले में यह संतोषजनक स्थिति ही है कि भारत इस मामले में दुनिया का चौथा देश है और नई-नई अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के साथ तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। कर्नाटक के पावगाड़ा में दो हजार मेगावाट से अधिक क्षमता के सोलर पार्क सहित देश में रीवा से भी ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहे कुछ और सोलर पार्क भी देश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

अक्षय ऊर्जा दिवस (20 अगस्त) पर विशेष

बहरहाल, अक्षय ऊर्जा को लेकर यह जानना बहुत जरूरी है कि अक्षय ऊर्जा आखिर है क्या और इसके स्रोत कौनसे हैं? इस संबंध में प्रदूषण मुक्त सांसें पुस्तक में विस्तार से बताया गया है कि अक्षय ऊर्जा वह ऊर्जा है, जो असीमित और प्रदूषणरहित है या जिसका नवीकरण होता रहता है। ऊर्जा के ऐसे प्राकृतिक स्रोत, जिनका क्षय नहीं होता, अक्षय ऊर्जा के स्रोत कहे जाते हैं। अक्षय ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोतों में सूर्य, जल, पवन, ज्वार-भाटा, भूताप इत्यादि प्रमुख हैं। उदाहरण के रूप में सौर ऊर्जा को ही लें। सूर्य सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जिसकी रोशनी स्वतः ही पृथ्वी पर पहुंचती रहती है। यदि हम सूर्य की इस रोशनी को सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं भी करते हैं, तब भी यह रोशनी तो पृथ्वी पर आती ही रहेगी लेकिन चूंकि सूर्य से प्राप्त होने वाली इस असीमित ऊर्जा के उपयोग से न तो यह ऊर्जा घटती है और न ही इससे पर्यावरण को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है, इसीलिए सूर्य से प्राप्त होने वाली इस ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा कहा जाता है।

ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन से बचाव के दृष्टिगत ही आज अक्षय ऊर्जा को अपनाना समय की सबसे बड़ी मांग है। दरअसल पूरी दुनिया इस समय पृथ्वी के बढ़ते तापमान और ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं को लेकर बेहद चिंतित है, इसीलिए कोयला, गैस, पैट्रोलियम पदार्थों जैसे ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों के बजाय अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। भारत सहित कई प्रमुख देशों में अब थर्मल पावर प्लांटों में कोयले के इस्तेमाल को कम करते हुए सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोतों का उपयोग किया जाने लगा है। दरअसल आज स्वच्छ वातावरण के लिए कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांटों के बजाय क्लीन और ग्रीन एनर्जी की पूरी दुनिया को जरूरत है और इन्हीं जरूरतों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिडकी बात करते हुए इस ओर पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कई गुना बढ़ चुकी है। इसके अलावा करीब साढ़े तीन दशक पूर्व पवन ऊर्जा से ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की शुरू की गई पहल के बाद से देश की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता भी काफी बढ़ चुकी है। चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद भारत अब पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में भी चौथे स्थान पर है।

फिलहाल जिस प्रकार देश में शुद्ध, सुरक्षित और भरोसेमंद ऊर्जा की ओर तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं, उससे लगता है कि अगले कुछ दशकों में देश की कोयला, गैस इत्यादि प्रदूषण पैदा करने वाले स्रोतों से ऊर्जा पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक भारत की अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता को 500 गीगावॉट तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है और 2030 तक देश के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करने, दशक के अंत तक देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से कम करने तथा वर्ष 2070 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है। बहरहाल, आने वाले वर्षों में अक्षय ऊर्जा क्षमता को तेजी से बढ़ाने के लिए इस दिशा में काफी कार्य करना होगा क्योंकि माना जा रहा है कि डेढ़ दशक बाद भारत में सौर ऊर्जा की मांग सात गुना तक बढ़ सकती है। आज न केवल भारत बल्कि समूची दुनिया के समक्ष बिजली जैसी ऊर्जा की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधन हैं, साथ ही पर्यावरण असंतुलन और विस्थापन जैसी गंभीर चुनौतियां भी हैं। इन गंभीर समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए अक्षय ऊर्जा ही ऐसा बेहतरीन विकल्प है, जो पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के साथ-साथ ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में भी कारगर साबित होगी।

स्वस्तिक मीडिया वेंचर्स प्रा. लिमिटेड के लिए मुद्रक और प्रकाशक रजत कुमार गुप्ता द्वारा वृंदा मीडिया पब्लिकेशन्स प्रा.लि., चिरौंदी, बोड़ेया रोड, रांची से मुद्रित और एचआई 254, हरमू बाईपास रोड, हरमू हाउसिंग कालोनी, रांची से प्रकाशित। सम्पादक - रजत कुमार गुप्ता
RNI No- JHAHIN/ 2008/ 26373, email-rastriyakhabarhn@gmail.com, www.rashtriyakhabar.com, Phone No. 0651-2244605, 2244505

शहर ›› अपडेट

गरिमा राखी की आठवी पुण्यतिथि मनाई

पीरटांड : पालगंज स्थित बंशीधर मंदिर में शनिवार को पत्रकार शरत कुमार भक्त की सुपुत्री गरिमा राखी की आठवी पुण्यतिथि मनायी गयी। इस अवसर पर सामुहिक संगीत मय हनुमान चालिसा एवं सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। जिसमें गिरिडीह के मशहूर गायक हरिश जागरण ग्रुप के कलाकारों ने भाग लिया।

सिटी अपडेट्स ››

यूनियन बैंक ने बांटे कृषि ऋण

कुडू : यूनियन बैंक ने कुडू के बहुउद्देशीय भवन में शनिवार को कृषि ऋण वितरण शिविर लगाकर 140 किसानों और एसएचजी ग्रुप समूह के बीच नया खाता खोल लगभग डेढ़ करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृति दी। इसके अलावे कुडू के एक व्यवसायी को कमर्शियल गाड़ी के लिए 53 लाख की ऋण स्वीकृत किया गया। शिविर का उदघाटन यूनियन बैंक के क्षेत्र प्रमुख सोनालिका, बीडीओ मनोरंजन कुमार, कुडू बैंक मैनेजर अमित मिंज, लोहरदगा मैनेजर नवनीत कुमार होरो , मुखिया सुषमा देवी , कृषक मित्र अखिलेश सिंह ने सामूहिक रूप से दीप जलाकर किया। शिविर को संबोधित करते हुए बीडीओ मनोरंजन कुमार ने कहा कि कृषि पर ही हमारी अर्थव्यवस्था टिका हुआ है। कृषि कार्य के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। यैसे समय मे किसानों को ऋण की आवश्यकता होती है। केसीसी लेते है तो कृषि कार्य मे पैसे का सदुपयोग कर समय पर ऋण वापस करे। और पुनः नया ऋण लेकर आगे बढ़े। किसान वर्तमान समय मे व्यावसायिक खेती करें और स्वरोजगार से जुड़कर आगे बढ़े। बैंक के क्षेत्र प्रमुख सोनालिका ने कहा कि यूनियन बैंक हमेशा लोगो के सहयोग के लिए खडा है।

संक्षिप्त ›› अपडेट्स

संवेदनशील होकर कार्य करें बैंक : मंजूनाथ भजन्त्री

जमशेदपुर : समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति एवं रूडसेटी सलाहकार समिति की बैठक जिला दण्डाधिकारी-सह- उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई। माननीय सांसद, जमशेदपुर श्री विद्युत वरण महतो इस बैठक में शामिल हुए । वित्तीय वर्ष 2023- 2024 की प्रथम तिमाही का वित्तीय लेखा जोखा अग्रणी जिला प्रबंधक ने प्रस्तुत किया। गतवर्ष की समतुल्य अवधि से बैंको की 30 नई शाखाएं, 43 नए अळट और 300 नए बैंक कॉरेस्पोन्डेंट की नियुक्ति की गई है। वार्षिक शाख योजना में बैंको द्वारा साल दर साल 36.75% के विरुद्ध 50.85% की लक्ष्य प्राप्ति की। समीक्षा में पाया गया कि सरकार केंद्रित योजनाओं के अनुपालन में भी जिले के बैंको ने अच्छा काम किया है ।प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुरक्षा बीमा योजना एवम अटल पेंशन योजना में जिले का अनुपात बेहतर हुआ है। मुद्रा योजना में 47% की वृद्धि दर्ज की गई। योजनाओं में भी समतुल्य अवधि में अच्छी प्रगति हुई है। जिला दण्डाधकारी-सह- उपायुक्ने बैंक अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हालांकि बैंको का कार्य संतोषजनक हैं, लेकिन गरीब और पिछड़े वर्गो के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने ऋण सुविधा उपलब्ध कराने तथा सरकारी योजनाओं के आवेदन का यथाशीघ्र निष्पादन करने की बात कही। उन्होंने बैंको को संवेदनशील होकर समाज के अंतिम छोर पर बैठे लोगों के लिए काम करने का संदेश दिया। अग्रणी जिला प्रबंधक को अनुमंडल स्तर पर सरकार केंद्रित योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता सह ऋण वितरण कैंप आयोजित करने का सुझाव दिया हैं।

निर्देश

उपायुक्त ने जांच कमिटी गठित कर 15 दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश

खासमहल जमीन पर अतिक्रमण व अवैध निर्माण मामले में जिला प्रशासन गंभीर

● भूमि पर अवैध कब्जा अथवा अवैध निर्माण को रोके जाने के निर्देश

● गैर लीजधारियों द्वारा भूमि पर अवैध निर्माण किये जाने की जानकारी निरंतर प्राप्त हो रही है

राष्ट्रीय खबर

हजारीबाग : हजारीबाग जिलान्तर्गत खास महल भूमि से संबंधित लीज भूमि का नवीकरण, नामान्तरण, हस्तानान्तरण आदि कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है। इसके साथ-साथ खास महाल पुनग्रहित सरकारी भूमि का संरक्षण पर भी प्रशासन गंभीर है। उपायुक्त नैंसी सहाय ने आदेश जारी कर निर्देश देते हुए कहा है कि उपरोक्त विषय पर जनता दरबार एवं विभिन्न श्रोतों द्वारा ज्यादातर मामलें खास महाल जमीन पर अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण किये जाने की सूचना जिला प्रशासन को प्राप्त हो रही है। साथ ही कुछ मामलों में लीजधारियों अथवा पूर्व लीजधारियों की अनुपस्थिति में वैध दस्तावेज के नहीं रहने के बावजूद भी गैर लीजधारियों द्वारा भूमि पर अवैध निर्माण किये जाने की जानकारी निरंतर प्राप्त हो रही है। उक्त परिप्रेक्ष्य में खास महाल पुनग्रहित सरकारी भूमि का संरक्षण तथा लीज पर धारित भूमि पर अवैध कब्जा अथवा अवैध निर्माण को रोके जाने के निर्देश उपायुक्त ने दिए है। उन्होंने हजारीबाग जिलान्तर्गत खास महाल भूमि पर अतिक्रमण, अवैध कब्जा, अवैध निर्माण आदि की जांच हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर हजारीबाग की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया है। इस गठित टीम को भूमि से संबंधित उक्त प्रकार के मामले की जांच कर जाँच प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर उपायुक्त को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी, सदर हजारीबाग को गठित कमिटि द्वारा किये जाने वाले कार्यों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए है।

नशीले पदार्थ की खरीद बिक्री के मामले में दो गिरफ्तार

राष्ट्रीय खबर

हजारीबाग: हजारीबाग पुलिस अधीक्षक हजारीबाग गुप्त सुचना मिली की बड़ा बाजार ओपी अंतर्गत न्यु बस स्टैण्ड हजारीबाग के पास मे एक सफेद रंग के स्विफ्ट डिजायर कार जिसका पंजीयन सं0 डी एल 9 सी आर 8916 से कुछ लोग मादक पदार्थ का खरीद बिक्री करने के लिए आ रहे था। त्वरित कार्रवाई करने पकड़े जा सकते है। पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय राजीव कुमार के नेतृत्व मे एक छापामारी दल का गठन किया गया। गठित छापामारी दल द्वारा हजारीबाग न्यु बस स्टैण्ड के आस पास उक्त वाहन का खोजबीन करना प्रारम्भ किया उसी समय मे रामनारायण पथ के पास उक्त वाहन दिखा जिसे सर्च करने के उपरांत दो व्यक्ति मिले जिसे सख्ती से नाम पता पूछने पर अपना नाम दीपक कुमार उम्र 26 वर्ष पिता केशो दांगी ग्राम-ढोटवा थाना कटकमसांडी जिला हजारीबाग एंव बुधराम मुण्डा उम्र 27 वर्ष करीब पिता स्व० लेभो मुण्डा गबरैया टोला किताबेरा थाना दशमफॉल जिला रांची बताये वाहन के तालाशी के क्रम मे उनके पास से कुल 2,85,860 रुपये 2.50(दो किलो पाँच सौ ग्राम) अफीम, कुल 06 मोबाईल, एक स्वीफ्ट डिजाइन कार जिसका पंजीयन सा०- सं0-डी एल 9 सी आर-8916, एक मोटरसाईकिल जिसका पंजीयन सं0-जे एच 01सी यू 5450 जप्त किया गया।

आरोग्यम अस्पताल में हड्डी एवं नस रोग का मेगा कैंप कल

शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मिलेगी सुविधा : हर्ष अजमेरा

राष्ट्रीय खबर

हजारीबाग : हजारीबाग शहर में पिछले 7 वर्षों से अपनी सेवा प्रदान कर रही आरोग्यम अस्पताल हर वक्त और हर समय शहर तथा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान रख रही है इसी दृष्टिकोण से आगामी 21 अगस्त दिन सोमवार को आरोग्यम अस्पताल के परिसर में निशुल्क मेगा हड्डी एवं नस रोग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें शहर के प्रसिद्ध चिकित्सकों मे डॉ सुनील कुमार एवं डॉक्टर मयंक प्रताप सिंह अपनी सेवा प्रदान करेंगे।

इस कैंप में जोड़ों का दर्द सुजान गठिया, कमार पीठ घुटना व कंधे का दर्द, रीड की हड्डी की तकलीफ, घुटने बदलने या घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी जैसे हड्डी एवं नस से संबंधित इलाज किए जाएंगे।

साथ ही कैंप में मुफ्त जांच जैसे बीएमडी, ब्लड शुगर, बीपी पल्स का जांच किया जाएगा। कैंप सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए 7319942219,7319942220,7319942210 पर संपर्क कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आरोग्यम अस्पताल के निर्देशक हर्ष अजमेरा ने कहा कि अस्पताल प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मेगा हड्डी एवं नस रोग कैंप का आयोजन कर रही है।शहर तथा ग्रामीण क्षेत्र की आम जनता कुशल रहे इसी दृष्टिकोण से कैंप आयोजित किया जा रहा है।

सरकार किसानहित में चला रही कई योजना: उपायुक्त

राष्ट्रीय खबर

जमशेदपुर : समाहरणालय सभागार में जिला दण्डाधिकारी-सह- उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के अध्यक्षता में आत्मा शासकीय निकाय एवं जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि किसान हित में सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण से जोड़े साथ ही वैज्ञानिक तरीके से खेती के लिए भी प्रोत्साहित करें। उपायुक्त द्वारा बटन मशरूम का उत्पादन सखी मंडल की महिलाओं के द्वारा करवाते हुए आय वृद्धि करने का निर्देश दिया गया। साथ ही एक जिला एक फसल के तहत चयनित टमाटर से संबंधित मूल्यवर्द्धित उत्पाद का प्रसंस्करण ईकाई की स्थापना के लिए किसानों को तैयार करने का निर्देश दिया जिसमें नाबार्ड एवं बैंक के पदाधिकारी को सहयोग करने का निर्देश दिया गया। मोटा अनाज के तहत मडुवा, ज्वार, कोदो, सांवा की खेती जो आज के समय में सभी लोग भूल गये है जो पौष्टिकता से भरपूर है इसीलिए इन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया। अंतर्राजकीय, राज्य के अंदर, अंतर जिला, जिला स्तरीय किसान परिभ्रमण को मिली स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में आत्मा, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के तहत किये जाने वाले कृषक गतिविधियों के बारे में चर्चा किया गया। इस वर्ष आत्मा, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजनान्तर्गत जिला प्रसार कार्य योजना हेतु कुल 224.44413 लाख रू. स्वीकृत है जिसके अनुसार कृषक गतिविधियों जैसे 1 ईकाई अन्तर्राजकीय प्रशिक्षण, 1 ईकाई राज्य स्तरीय प्रशिक्षण, 8 ईकाई जिला स्तरीय कृषकों का प्रशिक्षण, 1 ईकाई अन्तर्राजकीय परिभ्रमण, 1 ईकाई राज्य के अंदर परिभ्रमण, 6 ईकाई कृषकों का जिला स्तरीय परिभ्रमण, 28 ईकाई रबी में मटर की उन्नत प्रभेद की खेती, सभी प्रखण्डों में 1-1 कुल 11 ईकाई कृषक पाठशाला, 2 ईकाई महिला समूहों का क्षमता विकास, 11 ईकाई कृषक गोष्ठी एवं 1 ईकाई जिला स्तरीय कृषि मेला आदि गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। जिला दण्डाधिकारी-सह- उपायुक्त द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन प्रत्यक्षण योजना एवं न्युट्री सीरियल के अन्तर्गत प्रत्यक्षण, कृषि यंत्र वितरण, उपादान का वितरण के तहत वास्तविक किसान का चयन कर कार्य करने का निर्देश दिया गया।

जम्मू कश्मीर के यात्रा में निकले बजरंग दल कार्यकर्ता

राष्ट्रीय खबर

हजारीबाग : हजारीबाग बड़ा अखाड़ा से राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता अमरनाथ चट्टानी जम्मू कश्मीर बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए गाजे बजे के साथ नगर भ्रमण करते हुए बुढ़वा महादेव पहुंचे बुढ़वा महादेव से गाड़ी में कोडरमा पहुंचेंगे कोडरमा से ट्रेन के द्वारा जम्मू कश्मीर की यात्रा करेंगे हजारीबाग जिले से दीपक शंकर, अशोक कुमार साहू साव, अनिल कुमार, कन्हैया कुमार, उमेश कुमार, पिंटू कुमार, बच्चों साव, श्याम प्रसाद, रामेश्वर साव, रणधीर सिंह, साकेत प्रधान, सोनू वर्मा, विजय अग्रवाल, गौरव मद्धेशिया, अशोक कुमार सिन्हा, ज्योति अंशु, आज बूढ़ा अमरनाथ के यात्रा में जा रहे हैं यात्रा का नेतृत्व राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विभागीय अध्यक्ष दीपक शंकर के द्वारा किया जा रहा है कार्यक्रम सफल बनाने में झारखंड प्रांत के प्रदेश मंत्री दिलीप कुमार, राष्ट्रीय बजरंग दल विभाग अध्यक्ष गौरव, जिला अध्यक्ष पंकज, सांसद स्वास्थ्य विभाग प्रतिनिधि ज्योति सिंह, बड़ा अखाड़ा के महंत विद्यानंद दास का सराहनीय योगदान है।

आयोजन

डेंटल कॉलेज में एंटी रैगिंग जागरूकता सप्ताह पर आयोजित

रैगिंग मुक्त वातावरण बनाने के लिए किया प्रेरित: डॉ प्रवीण

▶▶प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी प्रशस्ति के साथ हुए सम्मानित

राष्ट्रीय खबर

हजारीबाग: हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज एंड हॉस्पिटल में सार्वजनिक स्वास्थ्य दंत चिकित्सा विभाग द्वारा आयोजित एंटी रैगिंग सप्ताह जागरूकता कार्यक्रम का समापन हुआ। सप्ताह भर कई प्रकार का जागरूकता कार्यक्रम की कई प्रतियोगिता आयोजित हुई। जिसमें लोगो डिजाइनिंग प्रतियोगिता, स्लोगन लेखन प्रतियोगिता, पोस्टर डिजाइनिंग प्रतियोगिता एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विधार्थियो ने काफी उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रैगिंग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना था। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने बहुत ही सुंदर एवं खूबसूरती से अपने विचारों एवं कौशल प्रस्तुत किया। पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान कुद्रिया एम्बर, द्वितीय स्थान श्रुति राजेश एवं तृतीय स्थान विनीत राज ने होने का गौरव प्राप्त किया। लोगो डिजाइनिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अंशिका श्रीवास्तव, द्वितीय स्थान सोनाली मंडल एवं तृतीय स्थान सैफ खान ने होने का गौरव प्राप्त किया। स्लोगन लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सदफ ज़िया, द्वितीय स्थान सृष्टि कुमारी एवं तृतीय स्थान सिदरा अहरार ने होने का गौरव प्राप्त किया। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान नितु कुमारी, द्वितीय स्थान तन्वी कुमारी एवं तृतीय स्थान इंशा उमैर ने होने का गौरव प्राप्त किया। इस मौके पर सचिव डॉ प्रवीण श्रीनिवास ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान लाने वाले प्रतिभागियों को ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने छात्रों को रैगिंग की समस्या के बारे में विस्तार से बताया और छात्रों को किसी भी प्रकार की रैगिंग में भाग न लेने की सलाह दी। कॉलेज परिसर में एक सुरक्षित और रैगिंग मुक्त वातावरण बनाने के लिए कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। एंटी-रैगिंग जागरूकता सप्ताह को प्रभावी ढंग से आयोजित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य दंत चिकित्सा विभाग के प्रयासों की भी सराहना की। प्राचार्य डॉ. के श्रीकृष्णा ने रैगिंग की रोकथाम और निषेध पर जोर दिया। साथ ही प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित किया। उप प्राचार्य डॉ. अंकुर भार्गव ने आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान एवं तृतीय स्थान लाने वाले प्रतिभागियों के बीच प्रमाण पत्र वितरित कर सम्मानित किया। अन्य प्रतिभागियों की भागीदारी को भी हौसला अफजाई की। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न में सार्वजनिक स्वास्थ्य दंत चिकित्सा विभाग के डॉ. निशाद गवली एवं डॉ. सौम्या राज ने अपना सरहानीय योगदान दिया।

न्यूज फटाफट

झामुमो कार्यकर्ताओं की बैठक

इचाक: इचाक झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड संयोजक मंडली की बैठक प्रखंड बीस सूत्री कार्यालय इचाक में जेएमएम के मुख्य संयोजक सह 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष मनोहर राम के अध्यक्षता में की गई। बैठक में मुख्य रूप से सभी19 पंचायत गठन करने पर विचार किया गया। सभी 19 पंचायत की बैठक 23 अगस्त बुधवार को अंबेडकर भवन परियोजना स्कूल के बगल में रखी गई है। इस बैठक में सभी 19 पंचायत के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में जिले के प्रखंड प्रभारी भी शामिल रहेंगे बैठक में मुख्य रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुनील शर्मा, प्रखंड संयोजक मंडली के सदस्य इंद्रदेव मेहता, गंगेश्वर मेहता, प्रखंड 20 सूत्री सदस्य रामप्रवेश सिंह, दिगम्बर कुमार मेहता, दिनेश मेहता, प्रयाग मेहता, बाबुन हासदा, उमेश मेहता, उमेश गुप्ता, प्यारी देवी समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए।

अविनाश बने पीजी डिप्लोमा इन योगा के टॉपर

हजारीबाग : हजारीबाग पीजी डिप्लोमा इन योगा का रिजल्ट शनिवार को प्रकाशित किया गया । जिसमें सत्र 2022-2023 में अविनाश प्रियदर्शी टॉपर बने हैं। अविनाश ने 800 में से 652 अंक लाकर प्रथम श्रेणी से पास हुए, अविनाश को विभिन्न विषयों में से क्रियात्मक आसन में 80 अंक मिले और प्रायोगिक सत्कर्म में 84 अंक प्राप्त किए हैं,योग विभाग के निदेशक डॉ अमित कुमार सिंह ने अविनाश को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया एवं उज्जवल भविष्य की कामना की साथ ही द्वितीय स्थान पर प्रियंका को मिला,पीजी डिप्लोमा की फाइनल परीक्षा में कुल 32 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी इसमें से 23 परीक्षार्थियों ने प्रथम श्रेणी से परीक्षा पास की, विभाग के निदेशक ने कहा कि विभाग में नामांकन जारी है 31 अगस्त तक पीजी डिप्लोमा इन योगा में नामांकन की प्रक्रिया चलती रहेगी।

दारू बक्शीडीह से निकली कांवरियों की टोली

दारू : दारू प्रखंड क्षेत्र से लगातार कावरियों की टोली बाबा धाम के लिए प्रत्येक दिन निकल रही है। शनिवार को दारू बक्शीडीह के कांवरियों की टोली बाबा भोलेनाथ को जलाअर्पण के लिए रवाना हुई। बाबा के भक्त सर्वप्रथम पुराना दुर्गा मंडप में सभी कांवरियों ने मत्था टेककर मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर बाबा नगरी रवाना हुए। इस मौके पर राजकुमार सिन्हा ने बताया कि पिछले 15 वर्षो से लगातार बाबा के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। प्रभाकर सिन्हा ने बताया कि 22 वर्षो से प्रत्येक वर्ष बाबा के दर्शन और जल चढ़ाने के लिये सुल्तानगंज से जल उठा कर बाबा बासुकीनाथ और बैजनाथ धाम पहुँचता हूँ । बाबा के दर्शन करने से बहुत ही सकून प्राप्त होता है। इस बीच कई बार कई बार सावन महीने में मुसीबते भी आई लेकिन बाबा का दर्शन करना नही छोड़ा। इस मौके पर कांवरिया राजकुमार सिन्हा, सुमन कुमार सिन्हा सचिन कुमार गुप्ता, संतोष कुमार गुप्ता, भैया नीतीश कुमार सिन्हा, अभिषेक शर्मा, प्रभाकर सिन्हा सामिल है।

महानता, एकता एवं समृद्धि के लिए सदैव अग्रसर रहना चाहिए : गोविन्द हांसदा

गुवा: गोविन्द हांसदा बैंक ऑफ इंडिया गुवा वरीय प्रबंधक के अनुसार तिरंगा भारत देश के गौरव का प्रतीक है। भारत देश के शान के लिए सदैव मर मिटने को तैयार रहना चाहिए। भारत देश की महानता, एकता एवं समृद्धि के लिए सदैव अग्रसर रहना चाहिए। भारत देश का गौरव का प्रतीक तिरंगा के केसरिया रंगझ्र यह साहस, बल और बलिदान का प्रतीक है। सफेद सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। हरा झ्र यह समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। गहरा नीला झ्र ध्वज के ठीक बीच में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करता है ।राष्ट्र के उत्थान का प्रतीक तिरंगा से प्रेरणा लेना चाहिए एवं जीवन को सदैव गतिशील बना अपने मेहनत से लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए।

एक सप्ताह में दो तरह का आदेश पर उठ रहे सवाल

हजारीबाग: हजारीबाग असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी हजारीबाग ने 4 अगस्त को सीएचसी भ्रमण के दौरान पाया था कि परिवार कल्याण कार्यकर्ता क्षेत्र में कार्य न कर सीएचसी में भंडार के कार्य संभाल रहे है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के अनुशंसा पर 5 अगस्त को सीएस ने ज्ञापांक 1774 के तहत कार्यालय आदेश दिया कि विशाल सिंह परिवार कल्याण कार्यकर्ता को भंडार कार्य से कार्यमुक्त करते हुए भंडार का संपूर्ण प्रभार लिपिक सोनी रविदास को दिया जाय। वहीं एक सप्ताह बाद 12 अगस्त को अपने ही आदेश को स्थगित करते हुए सोनी रविदास को भंडार कार्य से हटाते हुए विशाल सिंह को संपूर्ण प्रभार देने के लिए आदेश पत्र जारी किया गया। मामले को लेकर सिविल सर्जन से बात की तो उन्होंने कहा कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सीएचसी के द्वारा जानकारी मिली की लिपिक श्री सोनी कंप्यूटर में दक्ष नही है,उन्हें कम्प्यूटर में प्रशिक्षित कर पुनः भंडार का कार्य दिया जायेगा। उन्हें कंप्यूटर चलाने में परेशानी होती है। इसलिए पहले आदेश को स्थगित करना पड़ा। जबकि बताया गया कि सोनी रविदास अनुमंडलीय अस्पताल में भंडार के कार्य का सफलतापूर्वक दायित्व निभा चुके है। एक सप्ताह के अंदर दो तरह के आदेश से लोगो के बीच सवाल उठ रहे है जिसकी चर्चा जोरों पर है।

राष्ट्रीय खबर हमारी नजर प्रदेश
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

प्रदेश >> अपडेट

नदी में बहते महिला को लोगों ने बचाया

बेरमो / चन्द्रपुरा : थाना क्षेत्र के कल्याणी मे आज दामोदर नदी मे एक महिला को लोगो ने बहते हुए देखा। जिसे स्थानीय लोगो ने जान पर खेल कर नदी से बाहर निकाला जिससे उसकी जान बच गई। मामला चन्द्रपुरा थाना क्षेत्र कल्याणी मोदी धौडा के समीप का बताया जाता है। लोगो ने इस बात की जानकारी चंद्रपुरा थाना प्रभारी कार्तिक महतो को दिया। कार्तिक महतो ने पूरे दलबल के साथ वहां पहुंचकर मामले को संज्ञान में लिया और बेरमो महिला थाना को सूचित किया। बेरमो महिला थाना से अनिता किस्पोटा मौके पर पहुंचकर महिला को अपने साथ बेरमो महिला थाना ले गई।

शॉर्ट न्यूज अपडेट्स >>

धूमधाम से मनायी गई शीतला माता की वार्षिक पूजा

बेरमो कार्यालय,
बेरमो /दक्षिण भारतीय समाज द्वारा बोकारो जिला के हद में बेरमो प्रखंड के जारंगडीह स्थित शीतला मंदिर में वार्षिकोत्सव मनाया जाता है। जिसमें दक्षिण भारतीय समाज के अलावा समाज के सभी वर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यहां पिछले सत्तर वर्षो से अधिक समय से श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ करते रहे हैं ।प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 18 अगस्त को जारंगडीह 12 नंबर स्थित शीतला माता मंदिर में श्रद्धालु भक्तजनों द्वारा विधिवत संपन्न की गई वार्षिक शीतला माता की पूजा। पूजा के अवसर पर सैकड़ो की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ कर प्रसाद ग्रहण किया ।बताया जाता है कि यह पूजा विगत लगभग 70 वर्षो से यहां होने की परंपरा चलती आ रही है, जिसमें विशेष रूप से वादक एवं संगीतज्ञ दक्षिण भारत के तमिलनाडु से आया करते हैं। उसी के तहत इस वर्ष भी वादक एवं संगीतज्ञ मौके पर पधारे एवं शीतला मां की पूजा में अपने संगीत ध्वनि से आसपास के क्षेत्र को संगीतमय बना दिया।
इस अवसर पर दर्जनों श्रद्धालुओं ने स्थानीय दामोदर नदी तट से कलश में जल भरकर एवं मां शीतला को सजाकर कमेटी के कोषाध्यक्ष रवि कुमार एवं अन्य साथी गणों के साथ गाजे-बाजे के साथ मां शीतला मंदिर प्रांगण पहुंचे।

संक्षिप्त >> अपडेट्स

खेल से होता है बच्चों का विकास :राजू लोहरा

भरनो : खेल से बच्चों का विकास होता है पढ़ाई के साथ-साथ खेलना भी बहुत जरूरी है। यह बातें अभिभावक राजू लोहरा ने शैलपुत्री फाउंडेशन में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि शैलपुत्री फाउंडेशन का प्रयास सराहनीय है और शैलपुत्री फाउंडेशन पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों को समय-समय पर खेल कूद का आयोजन कर उनके अंदर छिपी प्रतिभा को निखारने का काम करती है। शैलपुत्री फाउंडेशन में जूनियर सेक्शन बेबी प्ले के बच्चों के बीच आयोजित मेंढक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व क्लास की शिक्षिका स्वाति तिर्की ने किया। स्वाति तिर्की ने कहा कि शैलपुत्री फाउंडेशन के बच्चों के बीच समय-समय पर हम लोग प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। इस तरह का प्रतियोगिता का आयोजन करने से बच्चों में पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी बढ़ती है। स्कूल के निदेशक विनय कुमार केसरी ने कहा कि शैलपुत्री फाउंडेशन हमेशा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत है। उन्होंने यह भी कहा कि शैलपुत्री फाउंडेशन में पढ़ने वाले बच्चों को समय-समय पर पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद और कंपटीशन का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर वेद कुमार केसरी, रितु राव, रॉकी दास, नैना कुमारी, राशि, कुमारी सुभाष चुतृषा कुमारी, सौरव अनु कुमारी रोहिदास, राजमहल मांझी, अभय लाल विश्वास, राज लाल कृष्ण राम कुमार सहित अन्य छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया।

निर्देश > खनन एवं सड़क सुरक्षा से संबंधित हुई संयुक्त समीक्षात्मक बैठक

उपायुक्त ने लंबित कार्यों को अविलंब पूर्ण करने का दिया निर्देश

राष्ट्रीय खबर

गुमला: आज शनिवार को उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में कारा प्रबंधन, खनन एवं सड़क सुरक्षा से संबंधित एक संयुक्त समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक में उपायुक्त ने सभी विषयों पर बिंदुवार समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया।

कारा अंतर्गत मूलभूत सुविधाओं को रखे दुरुस्त: उपायुक्त

कारा प्रबंधन की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने कारा अंतर्गत दिए जाने वाले सुविधाओं एवं कारा अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी ली। कारा अधीक्षक ने बताया कि कारा परिसर अंतर्गत एक अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है जिसका कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। जिसका कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। उपायुक्त ने लंबित कार्यों को अविलंब पूर्ण करते हुए अस्पताल का संचालन प्रारंभ करने का निर्देश दिया। वहीं इसके अलावा कारा अंतर्गत इनक्लोजर वॉल, पेरीमीटर वॉल, वॉच टावर आदि की मरम्मती व निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसका कार्य भी भवन निर्माण विभाग द्वारा ही किया जा रहा है। कारा अधीक्षक ने कार्य पूर्ण करने में लगातार विलम्ब होने की स्थिति से उपायुक्त को अवगत करवाया जिसपर उपायुक्त ने सम्बन्धित विभाग के सहायक अभियंता पर नाराजगी व्यक्त की साथ ही लंबित कार्यों को ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। कारा अधीक्षक द्वारा वहां के टूटे हुए बाथरूम एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए उपायुक्त से अनुरोध किया। जिसपर उपायुक्त ने सहमति व्यक्त की । इसके अलावा कारा की सुरक्षा व्यवस्था , कैमरे की स्थिति , इंटरनेट एवं कॉल करने हेतु नेटवर्क की स्पीड आदि की भी समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कारा अंतर्गत मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त रखने की भी बात कही।

अवैध तस्करी पर जिला प्रशासन की कड़ी नजर

माइनिंग से संबंधित समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने बालू तस्करी एवं पत्थरों की तस्करी करने वालो पर कड़ी नजर रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से जंगल के रास्ते से बालू, पत्थर अथवा लकड़ी आदि की तस्करी करने वाले के पकड़े जाने पर फॉरेस्ट एक्ट भी लगाएं जाएंगे एवं उसपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने ईंट भट्ठों , बंगला भट्ठों आदि पर पर औचक जांच करते हुए अवैध भट्ठों को सील करने का निर्देश दिया वहीं जिन बंगला भट्ठों में बाल मजदूरी कराई जाती है वैसे भट्ठों को भी सील करते हुए उनपर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। खनन विभाग में नए होम गार्ड नियुक्त करने का निर्देश। वहीं बड़े गाड़ियों की चेकिंग नियमित रूप से करने की बात कही।

सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिले के सभी विद्यालयों में नियमित जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्देश

सड़क सुरक्षा की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स की जानकारी ली। जिसपर जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 8 ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया गया था , जहां सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई आवश्यक बदलाव किए गए हैं जिसके उपरांत उक्त क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है। जिसपर उपायुक्त ने उक्त सभी ब्लैक स्पॉट क्षेत्रों में तुलनात्मक सड़क दुघटनाओं की संख्या का विश्लेषित रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया।
सड़क दुर्घटना के दौरान सहायता करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने का निर्देश दिया गया साथ ही उनके द्वारा किए गए व्यय राशि भी देने की बात कही।
जिले भर के विद्यालयों में सड़क सुरक्षा के प्रति नियमित जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा उपायुक्त द्वारा अन्य कई विषयों पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

इनकी रही उपस्थिति

इस दौरान बैठक में जिला वन प्रमंडल अधिकारी , पुलिस अधीक्षक गुमला ,एसडीओ सदर, जिला परिवहन पदाधिकारी , जिला खनन पदाधिकारी , कारा अधीक्षक, संबंधित विभागों के कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहें।

रक्तदान कर 32 वर्षीय महिला की बचाई जान

राष्ट्रीय खबर

पाकुड़:रक्तदान जीवन का महादान है। इसलिए हर स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान जैसे पुनीत काम में सहभागी बनना चाहिए और मौका देना चाहिए अपने खून को किसी के रगों में बहने देने का। यही संकल्प लेकर आज संग्रामपुर पंचायत के पूर्व मुखिया जुलहास मंडल का बेटा आसिफ मुज्तवा ने बिक्रमपुर निवासी 32 वर्षीय गुलशन बीवी के लिए रक्तदान किया। सदर अस्पताल पाकुड़ में इलाजरत बिक्रमपुर निवासी गुलशन बीवी जो गर्भवती है। शरीर में रक्त की कमी होने के कारण डॉक्टर द्वारा बताया गया की इनको एक यूनिट ओ पॉजिटिव रक्त चढ़ाना होगा।तभी मरीज के पति ने रक्तदाता खोजना शुरू किया लेकिन बहुत देर तक कोई रक्तदाता नहीं मिला। फिर मरीज के पति ने लाइफ सेवियर्स समूह के मीडिया प्रभारी साहबाज आलम से संपर्क।और उसके कुछ ही देर बाद साहबाज आलम ने रक्तदाता आसिफ मुज्तवा को पाकुड़ रक्त अधिकोष ले जाकर रक्तदान कराया।तभी जाके महिला का इलाज संभव हो पाया। रक्तदाता आसिफ मुज्तवा ने कहा कि यह मेरी जीवन में पहली दफा रक्तदान है। और आज मुझे बहुत सुकून मिल रहा है रक्तदान करके। और मैं जबतक स्वस्थ रहूंगा, रक्तदान करते रहूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हर स्वस्थ इंसान को जरूर रक्तदान करना चाहिए और मरीज के परिजनों ने आसिफ के साथ साथ लाइफ सेवियर्स समूह का आभार प्रकट किया।मौके पर समूह के मीडिया प्रभारी साहबाज आलम और रक्त अधिकोष के कर्मचारी पियूष जी मौजूद रहे।

खनन टास्क फोर्स की बैठक में उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल ने कहा

अवैध खनन व परिवहन कार्य में संलिप्त लोगों के खिलाफ हो त्वरित कार्रवाई : डीसी

राष्ट्रीय खबर

पाकुड़: उपायुक्त ने सभी चेकनाका में खराब सीसीटीवी को 24 घंटे के अंदर ठीक कर सक्रिय करने का निर्देश दिया। जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक उपायुक्त श्री मृत्युंजय कुमार बरणवाल रंजन व पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। उपायुक्त ने अवैध कोयला, अवैध पत्थर, अवैध बालू उठाव, अवैध खनन, अवैध भंडारण के रोकथाम के लिए पूर्व के बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन की बिन्दुवार समीक्षा करतें हुए जिला खनन पदाधिकारी द्वारा की गयी कार्रवाई का ब्यौरा लिया। साथ ही जिला खनन पदाधिकारी को अवैध खनन करने वालो पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि चेकपोस्ट पर प्रतिनियुक्त कर्मियों को सख्त निर्देश दिया जाए कि कोई भी अवैध माइनिंग, परिवहन हुआ तो प्रतिनियुक्त कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने जिला खनन टास्क फोर्स के पदाधिकारी व सदस्यों को क्षेत्रों का भ्रमण कर औचक निरीक्षण करने को कहा। अवैध खनन व परिवहन कार्य में कोई भी लोग संलिप्त पाए जाते हैं तो उसके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने को कहा। उपायुक्त ने कहा कि जो लोग अवैध रूप से चेकपोस्ट पर गाड़ी पास करा रहे हैं, उनलोगों पर भी सख्त कार्रवाई करें। उपायुक्त ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक दिन विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण के साथ छापेमारी अभियान चलाएं। बैठक के दौरान उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक, जिला खनन पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं सभी थाना प्रभारी को निदेशित किया कि सभी आपसी समन्व्य स्थापित कर अवैध खनन, गाड़ियों द्वारा अवैध ढुलाई पर अंकुश लगाने हेतु टीम वर्क के रूप में कार्य करें, ताकि त्वरित व उचित धाराओं के साथ कानूनी कार्रवाई की जा सके। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक एचपी जनार्दनन, अपर समाहर्ता मंजू रानी स्वांसी, अनुमंडल पदाधिकारी हरिवंश पंडित, मुख्यालय डीएसपी वैद्यनाथ प्रसाद, महेशपुर एसडीपीओ नवनीत हेंब्रम, जिला खनन पदाधिकारी प्रदीप साह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ चंदन, माइनिंग इंस्पेक्टर पिन्टु कुमार, सभी अंचलाधिकारी, एसएमपीओ पवन कुमार, सभी थाना प्रभारी समेत अन्य उपस्थित थे।

छापेमारी > मालपहाड़ी थाना पुलिस ने चेंगाडंगा गांव में छापेमारी कर

घर से 80 हजार पीस एटीएम लॉटरी के साथ एक व्यक्ति की हुई गिरफ्तारी

राष्ट्रीय खबर

पाकुड़: मालपहाड़ी ओपी क्षेत्र के चेंगाडंगा गांव से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मिठू शेख के घर पर छापेमारी करते हुए घर से 80 हजार पीस एटीएम लॉटरी के साथ मिठु शेख को हिरासत में लिया है, मिठू शेख चेंगाडांगा निवासी रिमोन शेख के लॉटरी सप्लाई का काम किया करता है, रिमोन शेख का पूरे मालपहाड़ी थाना क्षेत्र में अवैध एटीएम लॉटरी संचालन में बादशाहत कायम थी,हालांकि पुलिस के छापेमारी में रिमोन शेख के खास आदमी को पकड़ने में सफलता पाई है लेकिन मुख्य संचालन कर्ता पुलिस के करवाई के बाद से ही फरार है। वही इस बाबत शनिवार को नगर थाना में प्रेस वार्ता करते हुए सर्किल के इस्पेक्टर मनोज कुमार और मालपहाड़ी थाना के प्रभारी आशीष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली थी और इसी के आधार पर चेंगाडंगा गांव में छापेमारी किया गया और छापेमारी के दौरान मिठू शेख के घर से 80 हजार पीस एटीएम लॉटरी जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख होगी जप्त किया गया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए मिट्ठू शेख से पूछताछ किया गया है कुछ और लोगों का भी नाम इसमें आया है और इसको लेकर छानबीन किया जा रहा है और जल्द ही कुछ और लोगों को भी? गिरफ्तार किया जाएगा। थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया कि मुख्यतः पश्चिम बंगाल से एटीएम लॉटरी लाकर इसकी सप्लाई ग्रामीण और नगर क्षेत्र में किया जाता है।बाइट मनोज कुमार पुलिस निरीक्षक सह थानाप्रभारी पाकुड़।
मालपहाड़ी पुलिस ने अवैध लॉटरी संचालन करने वाले पर बड़ा प्रहार किया है,कुछ इसी तरह नगरनवीं निवासी संजू जिसको एटीएम लॉटरी सप्लाई में महारत हासिल है इस संजू के सिस्टम को पुलिस अभी तक समझ नहीं पाई।

न्यूज फटाफट

सामाजिक कार्यकताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किया याद

हरिहरगंज : महान राष्ट्र भक्त स्वतंत्रता सेनानी सह आजाद हिन्द फौज के प्रणेता नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की पुण्य तिथि पर कई राजनीतिक दलों के नेताओं और सामाजिक कार्यकताओं ने व्हाट्स ग्रुपों के माध्यम से श्रद्धांजली अर्पित की और उन्हें स्मरण किया। बता दें कि जय हिन्द ,तुम मु खून दो ,मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि के मौके पर भी नेताओं को श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि देने का फुर्सत नहीं रहा। हालांकि व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से नेता जी को श्रद्धांजलि देने में वे पीछे नहीं रहे। बता दें कि वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी और सबसे बड़े नेता तो थे ही भारत के युवा राष्ट्र भक्तों के लिए प्रेरणास्रोत भी थे। बाबजूद इसके इन महापुरुषों की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का राजनीतिज्ञों को समय न निकाल पाना चिंताजनक है। इस बाबत कई प्रबुद्ध लोगों ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस महान राष्ट्रभक्त स्वतंत्रता सेनानी थे। जिनकी जीवनी से राजनीतिज्ञों और सामाजिक कार्यकताओं को प्रेरणा लेनी चाहिए।

मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

पलामू : शहरी क्षेत्र के सतगावां स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शनिवार को मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतियोगिता में कल 26 प्रतिभागी बहनों ने भाग लिया। वैसे तो सभी प्रतिभागियों ने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। प्रधानाचार्य विजयेंद्र प्रसाद ने बताया कि प्रथम स्थान पर सप्तम वर्ग की बहन अंशु कुमारी , द्वितीय स्थान पर नवम वर्ग की बहन तनीषा कुमारी एवं तृतीय स्थान पर अष्टम वर्ग की बहन निशु कुमारी का चयन किया गया। जबकि चौथे स्थान पर चतुर्थ कक्षा की रागिनी का चयन किया गया। इस दौरान विद्यालय परिवार की ओर से सभी चयनित प्रतिभागियों को प्रधानाचार्य के द्वारा पुरस्कृत किया गया। शेष बहनों को विद्या भारती की पत्रिका, उत्सर्ग देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संपन्न कराने में नीलिमा मेहता, खुशबू कुमारी, प्रिया कुमारी, सुनीता कुमारी, काजल कुमारी, अमृता कुमारी, मोनिका कुमारी का अहम योगदान रहा।

डीएवी के बच्चों ने जरूरतमंदों के बीच बांटी राहत सामग्री

पाकुड़ :राइज अगेंस्ट हंगर इंडिया के बैनर तले स्थानीय डी ए वी पब्लिक स्कूल गोकुलपुर पाकुड़ के बच्चों ने लिट्टीपाड़ा के जमकुंदर एवं पीपरा पंचायत के जरूरतमंदों के बीच शनिवार को राहत सामग्री का वितरण किया। राइज अगेंस्ट हंगर इंडिया भोजन पैकेजिंग संगठन ने शुक्रवार को विद्यालय परिसर में बच्चों को फूड पैकेजिंग का प्रशिक्षण दिया एवं 500 से भी ज्यादा फूड पैकेट तैयार किया। इसी कड़ी में शनिवार को विद्यालय के बच्चों द्वारा एकत्रित राहत सामग्री एवं फूड पैकेट्स को भूख से लड़ते बच्चों, बीमार वृद्ध एवं महिलाएं एवं जरूरतमंदों के बीच वितरण किया गया। वितरित राहत सामग्री में हॉर्लिक्स, फूड पैकेट्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, मिल्क पाउडर, साबुन, शैंपू, हैंडवाश, टूथपेस्ट, दवाई, नैपकिन एवं अन्य रोजमर्रा की जरूरतमंद सामान थे। वहीं विद्यालय जाने वाले बच्चों के बीच लेखन सामग्री का वितरण किया गया। विद्यालय के छात्राओं के द्वारा ग्रामीण बच्चों को राखी बांध कर उन्हे उपहार भेंट किया गया। इस पुण्य कार्य हेतु विद्यालय प्राचार्य डॉ विश्वदीप चक्रवर्ती ने सभी बच्चों का धन्यवाद ज्ञापन किया एवं बताया कि ऐसे कार्य से बच्चों में मदद की भावना बढ़ती है। प्राचार्य डॉ चक्रवर्ती के निदेर्शानुसार विद्यालय के जन संपर्क पदाधिकारी श्री संजय कुमार यादव एवं शिक्षिका श्रीमती अनिंदिता तिवारी के नेतृत्व में बच्चों का एक समूह सुबह ही विद्यालय के बस से एकत्रित जरूरतमंद सामान के साथ लिट्टीपाड़ा के जमुकुंदर एवं पीपरा पंचायत पहुंचकर राहत सामग्री का वितरण किया। प्राचार्य डॉ चक्रवर्ती ने बताया की अगले चरण में दूसरे जरूरतमंद गांव का चयन किया जाएगा एवं वहां भी राहत सामग्री का वितरण किया जाएगा। उन्होंने समाज के सभी समृद्ध लोगों से विनती की कि वे भी ऐसे नेक काम के लिए आगे आएं एवं एक नए भारत का निर्माण में सहयोग दें।

डीसी ने की सड़क सुरक्षा समिति की बैठक

पाकुड़ : समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल ने शनिवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की। बैठक में हुए सड़क दुर्घटनाओं एवं उनके कारणों की विस्तृत समीक्षा की। डीसी ने सड़क दुर्घटनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने का निर्देश दिया। जिला में देखा जा रहा है कि हेलमेट एवं सीट बेल्ट का उपयोग वाहन चालक नहीं कर रहे हैं जिससे सड़क दुर्घटनाओं में आए दिन इजाफा हो रहा है और मृत्यु दर भी बढ़ रही है तथा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा बाईक एवं अन्य वाहन के विरुद्ध जांच अभियान तेजी से चलाने हेतु पुलिस एवं परिवहन विभाग को सख्त निर्देश दिया गया। इसके साथ शिक्षा विभाग एवं परिवहन विभाग दोनों आपस में समन्वय स्थापित कर सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के बीच जागरूकता अभियान चलाएंगे और 18 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों को मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित सभी जानकारी देकर जागरूक करेंगे। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया कि सड़क दुर्घटना होने के पश्चात पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखने में हो रही देरी का निवारण तुरंत करें ऐसा नहीं करने पर कार्यवाही की जाएगी तथा सभी आमजनों के गुड समेरीटरनं पॉलिसी के प्रति जागरूकता फैलाने पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

शहर ›› अपडेट

मधुमक्खियों ने किया एक को घायल

कोडरमा: जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचगावां में शनिवार को मधुमक्खी के हमले से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान पंचगावां निवासी रामेश्वर मेहता (उम्र 45 वर्ष,) के रूप में हुई है। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे परिजनों ने बताया कि रामेश्वर मेहता शनिवार को पंचगावां जंगल में दातुन लाने गए थे। इसी दौरान मधुमक्खी के झुंड ने उन पर अचानक हमला कर दिया। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

सिटी अपडेट्स ››

चोरी मामले में एक गिरफ्तार

मरकच्चो: थाना क्षेत्र स्थित पावर सब स्टेशन मरकच्चो में कुछ माह पूर्व ट्रांसफॉरमर के क्वाइल की चोरी की घटना हुई थी। जिसे लेकर मरकच्चो थाना मे 115/22 मामला दर्ज किया गया था। थाना प्रभारी लव कुमार ने इस चोरी की घटना के अप्राथमिकी अभियुक्त पवन कुमार वर्मा पिता केदार वर्मा साकिन मुरपा थाना मांडू ओपी जिला रामगढ़ को गिफ्तार कर शनिवार को कोडरमा जेल भेज दिया है।

संक्षिप्त ›› अपडेट्स

फरार अभियुक्त गिरफ्तार

सतगावां: थाना क्षेत्र के फरार अभियुक्त को सतगावां पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में थाना प्रभारी आंनद कुमार शाह ने बताया कि भरण पोषण वाद संख्या 114/21 के वारंटी अभियुक्त सुधीर प्रसाद ग्राम मननपुर, पंचायत मीरगंज थाना सतगावां को गिरफ्तार कर कोडरमा जेल भेजा गया।

माता का भव्य जगराता

पेटरवार : पेटरवार प्रखंड के पेटरवार पंचायत अंतर्गत रजक टोला में मां मनसा पूजा के मौके पर शुक्रवार की रात्रि भव्य माता जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोमिया विधायक डॉ लंबोदर महतो ने जागरण कार्यक्रम का उद्घाटन फीता काट कर किया। जागरण कार्यक्रम के दौरान पेटरवार ओर कसमार के कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक भक्ति गीत प्रस्तुत किया। भक्तों ने भक्ति गीतों में रात भर झूमते रहे। मौके पर पेटरवार पंचायत के मुखिया दिनेश कुमार गुप्ता, समाज सेवी मनोज शर्मा, राजेश कुमार शर्मा, मुकेश शर्मा ,संटू कुमार सिंह, नरेश कुमार महतो, पंकज कुमार सिन्हा, पूजा कमिटी के सभी सदस्य मौजूद रहे।

मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण की हुई समीक्षा

मरकच्चो: प्रखण्ड कार्यालय परिसर स्थित सभागार में शनिवार को उप निर्वाचक पदाधिकारी कोडरमा हीरा कुमार कोडरमा व पर्यवेक्षक डीटीओ बिजय कुमार सोनी ने मुखिया, सुपरवाइजर व बीएलओ के साथ बैठक कर मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 का समीक्षा किया। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी हीरा कुमार व पर्यवेक्षक बिजय कुमार सोनी ने बताया कि इस बार 75 प्रतिशत वोटिंग का लक्ष्य है इसे लेकर जोर शोर से तैयारी में जुड़ जाना है। इसके लिए सभी सुपरवाइजर अपने बीएलओ के माध्यम से डोर टू डोर जाकर प्राथमिकता के साथ कार्य करें। साथ ही सभी घरों के दरवाजे में मतदाता स्टीकर चिपकाने का निर्देश दिया। वहीं मतदाता के नामों में संशोधन एवं जोड़ना व हटाना समेत जो भी कार्य है उसे समय रहते पूर्ण करने को कहा। दोनों पदाधिकारियों ने तेलोडीह पंचायत के ग्राम पड़रिया पहुंच कर मतदाता सूची का वेरिफिकेशन कर उपस्थित बीएलओ को बताया। मौके पर सीओ रामसुमन प्रसाद, मुखिया रणजीत सिंह, केदार यादव, सुनील यादव, सुरेन्द्र यादव, रविशंकर सिंह रिंकु, राजेश पासवान, दशरथ यादव, सुभाष यादव, टीपन पांसी, टोकन , श्याम सुंदर प्रसाद, सियाराम सिंह समेत सभी बीएलओ उपस्थित थे।

खुलासा एसआईटी की टीम ने एक सप्ताह के अंदर हत्याकांड का उद्भेदन कर दिया

राजेन्द्र साहू की हत्या का खुलासा

- मोटी रकम के लेनदेन का मामला आया सामने
- टीएसपीसी के नजर में एक इंसान की किमत सींफ पचास हजार

राष्ट्रीय खबर

बालूमाथ : लातेहार पुर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष सह भाजपा नेता राजेंद्र साहू हत्याकांड का खुलासा शनिवार को पुलिस ने कर दी। पैसे के लेनदेन को लेकर उग्रवादी संगठन टीएसपीसी से जुड़े उग्रवादियों ने राजेंद्र साहू की हत्या की थी। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल दोनों शूटर तथा हत्याकांड की योजना बनाने में संलिप्त दो अन्य उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल हथियार भी बरामद कर लिए हैं। 12 अगस्त को भाजपा नेता राजेंद्र साहू को टीएसपीसी के उग्रवादियों ने गोली मार दी थी। इलाज के दौरान 14 अगस्त को रांची में स्थित मेडिका हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया था। हत्याकांड के बाद एसपी अंजनी अंजन के आदेश पर बालूमाथ एसडीपीओ अजीत कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर मामले की छानबीन आरंभ करवाई थी। एसआईटी की टीम ने 1 सप्ताह के अंदर हत्याकांड का उद्वेदन कर दिया और घटना को अंजाम देने वाले शूटर जितेंद्र विश्वकर्मा, शिवपूजन सिंह के अलावे हत्याकांड की योजना में संलिप्त अश्विनी कुमार सिंह और कुलदीप गंझु को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उक्त उग्रवादियो के पास से चार पिस्तौल 30 जिंदा गोली समेत कई अन्य सामग्री भी बरामद कर ली।इधर इस संबंध में प्रेस वार्ता करते हुए एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि हत्याकांड के छानबीन के दौरान पुलिस को सुराग मिला कि नक्सली संगठन टीएसपीसी के साथ पैसे के लेनदेन को लेकर राजेंद्र साहू का पूर्व से ही कुछ भी बात चल रहा था। टीएसपीसी के जोनल कमांडर आक्रमण के द्वारा पूर्व में भी राजेंद्र साहू पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया था। मामले की छानबीन के दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जब पूछताछ आरंभ की तो पता चला कि जोनल कमांडर आक्रमण के कहने पर ही राजेंद्र साहू की रेकी की जा रही थी। इसके बाद पुलिस ने अभियान चलाकर घटना को अंजाम देने वाले शूटर जितेंद्र विश्वकर्मा और शिवपूजन सिंह को गढ़वा से गिरफ्तार कर लिया। वही गढ़वा निवासी अश्विनी कुमार सिंह भी इस घटनाक्रम को अंजाम देने में सहयोग दे रहा था। उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया वही बालूमाथ निवासी कुलदीप को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपियों ने अपने जुर्म को पुलिस के समक्ष कबूल किया।टीएसपीसी के जोनल कमांडर आक्रमण के निर्देश पर गढ़वा के शूटर गत एक सप्ताह से बालूमाथ में ही कुलदीप गंझु के घर में रहकर राजेंद्र साहू पर नजर रखे हुए थे। हालांकि राजेंद्र साहू पर हमला करने की उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। 12 अगस्त को जब वे लोग राजेंद्र साहू की रेकी कर रहे थे तो राजेंद्र साहू उनका पीछा करने लगे। इसी दौरान मौका मिलने पर अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। अपराधियों को इसके लिए आक्रमण से 50 हजार रुपए भी मिले थे।हत्याकांड के उद्वेदन में बालूमाथ एसडीपीओ अजीत कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर शशि रंजन कुमार ,थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद, थाना प्रभारी हेरहंज थाना प्रभारी शुभम कुमार, मनिका थाना प्रभारी राणा भानु प्रताप सिंह ,बरवाडीह थाना प्रभारी श्रीनिवास सिंह, सब इंस्पेक्टर नीतीश कुमार, कुबेर साव ,धीरज कुमार ,कैलाश बाड़ा, चंदवा थाना धर्मेंद्र कुमार महतो, राजकुमार तिग्गा समेत अन्य पुलिस अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

तीन जुआरी गिरफ्तार

राष्ट्रीय खबर

कोडरमा: पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कोडरमा थाना प्रभारी के नेतृत्व मे थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 06 जलवाबाद स्थिति आंगनबाड़ी केंद्र में जुआ खेलते तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों के पास से पुलिस ने 71 सौ रुपए नगद एवं एक बुलेट मोटरसाइकिल बरामद किया है। गिरफ्तार लोगों में जलवाबाद निवासी मोहन भगत (उम्र 43 वर्ष), नगरखारा निवासी मोहम्मद इलियास (उम्र 41 वर्ष,) एवं बहेरवाटांड़ निवासी अब्बास अंसारी (उम्र 42 वर्ष) शामिल हैं। मामले को लेकर कांड संख्या 152/23 में प्राथमिकी दर्ज करते हुए गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

स्वास्थ्य कर्मियों को मिला सम्मान

राष्ट्रीय खबर

सतगावां: प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को कार्यक्रम आयोजित कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ सत्यनारायण भक्त ने कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों व सहिया दीदी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ सत्यनारायण भकत ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मी स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है। लोगों के लिए बेहतर सेवा दी जाती है। स्वास्थ्य विभाग के सभी सदस्य टीम के रूप में कार्य करते हैं और सभी का हर गतिविधि में भरपूर सहयोग मिलता है। वहीं राज्य स्तर व जिला स्तर से कई बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में सम्मान के साथ साथ प्रशस्ति पत्र दिया गया। इस उपलब्धि के लिए सभी सदस्यों को बधाई दी। मौके पर बीपीएम मनोज राम सहित दर्जनों स्वास्थ्य कर्मी व सहिया दीदी मौजूद थे।

डीडीसी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न

राष्ट्रीय खबर

कोडरमा: भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल शक्ति अभियान एप्प तैयार किया गया है। जिसमें जल संबंधित जल संरचना का जियो टैगिंग एप्प के माध्यम से किया जाना है। इसी को लेकर उप विकास आयुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में प्रशिक्षण सह जल शक्ति से संबंधित बैठक डीआरडीए सभागार में संपन्न हुआ। जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी के द्वारा भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय और एन.आई.सी के द्वारा विकसित जल शक्ति अभियान एप्प की विस्तृत जानकारी दी गई। जिसमे जल संबंधित जियो टैगिंग की जाएगी। जिला अभियंता जिला परिषद्, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण पदाधिकारी, कनीय अभियंता नगर परिषद झुमरी तिलैया, कनीय अभियंता नगर पंचायत कोडरमा/डोमचांच, प्रखंड स्तरीय सभी नोडल पदाधिकारी जल शक्ति केंद्र, तकनीकी विशेषज्ञ को प्रशिक्षण दिया गया। उप विकास आयुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को जल से संबंधित जल संरचना का जियो टैगिंग एप्प के माध्यम करना सुनिश्चित करेंगे। जितने भी अमृत सरोवर के तहत तालाब को निर्माण पूरा हो चुका है, उसे जियो टैगिंग करते हुए एप्प में अपलोड करने का निर्देश दिया गया।

मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण

राष्ट्रीय खबर

कोडरमा: मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 अंतर्गत उप निर्वाचन पदाधिकारी हीरा कुमार द्वारा मरकच्चो प्रखंड, गोपनीय प्रभारी जयपाल सोय द्वारा कोडरमा प्रखंड, कार्यपालक दंडाधिकारी ओम बड़ाइक द्वारा नगर पंचायत कोडरमा और कार्यपालक दंडाधिकारी सना उस्मानी द्वारा नगर पंचायत डोमचांच अंतर्गत विभिन्न मतदान केंद्रो का निरीक्षण किया गया। इस क्रम में उन्होंने मतदान केंद्रो का भौतिक सत्यापन किया और फार्म 06 और 08 के साथ साथ पन्ना सत्यापन की स्थिति का जांच किया गया। उनके द्वारा सभी कार्यों को ससमय निस्तारण करने का निर्देश दिया गया। मौके पर मतदान केंद्रों से संबंधित सुपरवाइजर और बीएलओ मौजूद रहे।

आयोजन श्री राणी सती मंदिर में हरियाली तीज का आयोजन

दादी जी ने तुमको हाथों में थाम लिया है...

राष्ट्रीय खबर

झुमरीतिलैया: सावन में हरी चुनरी पहन प्राकृतिक को देख महिलाओं के मन में श्रद्धा उठता है। शनिवार को महिलाओं ने आस्था, प्रेम व सौंदर्य का पर्व हरियाली तीज और सिंधारा उत्सव भक्ति भाव के साथ मनाया। इस अवसर पर महिलाओं ने 16 श्रृंगार किया। शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी आयु की कामना भी की। इधर महाराणा प्रताप चौक स्थित श्री राणी सती मंदिर में श्री राणी सती महिला मंडल के तत्वधान में दादी जी का सिंधारा और झूलनउत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर दादी जी का भव्य दरबार सजाया गया एवं 56 भोग अर्पित किया गया। दादी जी को मेहंदी का रस्म प्रक्रिया ममता नरेर्डी के द्वारा संपन्न कराई गई। कार्यक्रम की परियोजना निदेशक शालू चौधरी , शेलजा केडिया ने बताया कि सिंधारा उत्सव मारवाड़ी समाज की महिलाएं पति के दीघार्यु के लिए मनाती है। सावन सिंधारा उत्सव हमारी संस्कृति और धरोहर है। सावन माह यूं तो हरियाली का माह होता है, मगर महिलाएं इस माह जहां बाबा भोले शंकर की पूजा अर्चना करती है। वहीं 16 श्रृंगार भी किया जाता है। मौके पर गायक नवीन पांड्या के द्वारा चालो-चालो दादी जी का सिंधारा करसां.. सजा जो मंदिर गुलशन सा मेरे गणराज आए हैं..आज सिधारो मनड़ो मुनकायो.. तथा झूलन उत्सव की शुभ घड़ी आई जैसे भजनों से खूब झुमाया। इस अवसर पर सीमा सहल ने मेहंदी ओ मेहंदी इतना बता दे कौन सा काम किया है.. दादी जी ने तुमको हाथों में थाम लिया है .. रंगीलो सावन आयो रे.. सुरंगों सावन आयो.. आयो आयो तीज त्यौहार.. की प्रस्तुति पर खूब तालियां बटोरी। उपस्थित महिलाओं ने झूला झूले, झूला रही दादी मंगलम .. दादी नाम मंगलम .. मोटी सेठानी थाने... तथा नाही खाईब खोवा मेवा जैसे भजनों पर श्रद्धालु ने भक्ति से सागर में गोता लगाते रहे ।

इस अवसर पर अंजुला खाटूवाला, पिंकी खेतान, सुमन सर्राफ, अंजना केडिया, माला दारुका, सारिका केडिया, अनिता चौधरी, आशा बजाज, सुमन कंदोई, कविता पिलानियां, रेखा कंदोई , नीतू बगड़िया, ज्योति परसरामपुरिया, प्रीति केडिया, दीपाली भदानी, कविता महेशवरी, संगीता केडिया, सुधा महेशवरी, वीणा केडिया, मीता केडिया, आशा राज आदि आदि उपस्थित थे। साज पर विशाल कपसीमे, बब्लू पांडेय, मिलन चक्रवर्ती व शशि राज ने संगत दी।

न्यूज फटाफट

कहा जान देंगे पर जमीन नहीं

चतरा: फील्ड फायरिंग रेंज के विरोध में जिले के कान्हाचट्टी के सायल बगीचा में हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंच विरोध जताया है। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि जान देंगे पर जमीन नहीं देगें। यह विरोध प्रदर्शन जिला परिषद उपाध्यक्ष ब्रजकिशोर तिवारी सहित अन्य प्रखंड व पंचायत प्रतिनिधियों के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान जीप उपाध्यक्ष ब्रजकिशोर तिवारी ने सम्बोधित करते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में फील्ड फायरिंग रेंज यहां नहीं बनना चाहिए। चतरा जिला का यह क्षेत्र गरीबी व भुखमरी का शिकार है। साथ ही अगामी 22अगस्त को प्रखंड सह अंचल कार्यालय का घेराव किया जायेगा। मौके पर काफी की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

बनेगा सांस्कृतिक सह सभा कक्ष: सत्यानंद भोक्ता

चतरा: प्रखंड मुख्यालय के प्लस टू गंगा स्मारक उच्च विद्यालय परिसर में डीएमएफटी मद से सांस्कृतिक सह सभाकक्ष भवन का निर्माण कराया जाएगा। ताकि छात्र छात्राओं को कभी भी किसी प्रकार की कार्यक्रम करने में कोई परेशानी का सामना ना उठाना पड़े। युक्त घोषणा झारखंड सरकार के श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने प्रखंड मुख्यालय के प्लस टू गंगा स्मारक उच्च विद्यालय में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए किया। भोक्ता समारोह को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने आगे कहा बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करें सरकार छात्रवृत्ति के साथ-साथ कई सुविधा प्रदान कर रही है। उपस्थित छात्र-छात्राओं से पढ़ाई में विशेष ध्यान रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसी हथियार है। जो मरते दम तक काम करता है। शिक्षा के बगैर समाज का उत्थान होना संभव नहीं है। कार्यक्रम में उपस्थित अभिभावकों से अपने अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का भी आह्वान किया। इसके पूर्व विद्यालय पहुंचने पर मंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया

हस्तशिल्प मेला का किया उद्घाटन

चतरा: शहर के थाना मैदान में लगे हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के बाद लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लगातार हो रहे बारिश के बावजूद मेले के प्रति लोगों का उत्साह चरम पर है। लोग अपने मित्रों व परिजनों के साथ मेले पहुंचकर समय बीता रहे है। साथ ही अपने पसंद व जरूरत के अनुसार सामान की खरीदारी कर रहे है। मेले के व्यवस्थापक हितेश पाठक ने बताया कि प्रतिवर्ष यहां मेले का आयोजन करते आ रहे है। इस बार भी बड़ी भीड़ मेले में देखी जा रही है। मेले में 60 से भी अधिक अलग-अलग प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं। जहां सभी वर्ग के लोगों के पसंद का ख्याल कर सामग्री लाई गई है। किफायती दर पर सामान मिलने से लोग आराम से खरीदारी कर रहे है। उन्होंने बताया कि बच्चों के मनोरंजन के अलावे खाने-पीने के भी स्टॉल है। वहीं उत्तर प्रदेश मेरठ के खादी के कपड़े, पानीपत का पर्दा, किचन वैयर, कोलकाता हैंडलूम के कपड़े, बनारसी साड़ी, भागलपुर सूट ड्रेस मैटेरियल, राजस्थानी अचार, उत्तर प्रदेश भदोई का कारपेट, डॉर्मेट, कालीन, लेडीज पर्स, लुधियाना कॉटन सॉक्स ज्वाला खादी ग्रामोद्योग की दवाईयां, खुर्जा की क्रॉकरी ब्रांडेड पेंट-शर्ट, बॉम्बे बाजार की लेडीज चप्पल, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां, जयपुर माउथ फ्रेशनर, बच्चों के लिए अनेक प्रकार के खिलोने, महिलाओं के लिए सौन्दर्य प्रसाधन के सामान आदि घरेलू उपयोग में आने वाले सामान का संग्रह है।

हत्या के साक्ष्य छुपाने के आरोप में गिद्धौर थाना में अज्ञात लोगों पर किया प्राथमिकी दर्ज

चतरा: हत्या के साक्ष्य छुपाने के आरोप में गिद्धौर थाना में अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया। जिसका थाना कांड संख्या 58/23 है। थाना प्रभारी कन्हैया कुमार यादव ने बताया कि हत्या के साक्ष्य छुपाने को ले धारा 302 व 201 के तहत अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही पुलिस अनुसंधान के लिए घटनास्थल पर पहुंच मामले की उद्भेदन करने में जुटी है। साथ ही थाना प्रभारी ने बताया कि हत्या के आरोपी जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में होगा। वमालूम हो कि बीते 15 अगस्त को गिद्धौर थाना क्षेत्र के गांगपुर के बनखेता जंगल के गढ़े से खोदकर पुलिस एक महिला का शव बरामद किया था। महिला मसूरिया गांव के स्वर्गीय रोहन भुइंयां की पत्नी विनीता देवी के रूप में पहचान हुई थी। जिसे ले पुलिस ने हत्या के साक्ष्य छुपाने को ले अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की उद्भेदन में जुट गई है।

बालू माफियाओं में हड़कंप

कोडरमा: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद भी सतगावां प्रखंड के विभिन्न नदियों से बालू खनन कर बडे.पैमाने पर की जा रही तस्करी की शिकायत पर जिला खनन पदाधिकारी दरोगा राय ने शनिवार को प्रखंड के टेहरो, मीरगंज, दुमदुम्मा, मरचोई, समलडीह, शिवपुर, माधोपुर आदि बालू घाटों का निरीक्षण किया जिससे बालू माफियाओं में हड़कंप मचा है। ज्ञात हो कि जिला उपायुक्त मेघा भारद्वाज के निर्देश पर विभिन्न बालू घाटों का निरीक्षण किया गया। एक दिन पूर्व समलडीह घाट से अवैध बालू लदे एक ट्रैक्टर को जप्त कर पुलिस ने थाना लाई थी। इधर काफी दिनों से सतगावां थाना क्षेत्र के बालू के अवैध उत्खनन और उठाव की शिकायत मिल रही थी और खनन विभाग पर सवाल उठाया जा रहा था। इसी आधार पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी आनंद कुमार साह अपने दलबल के साथ मौजूद थे।

सेक्रेड हार्ट स्कूल में इंटर हाउस कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन

कोडरमा: सेक्रेड हार्ट स्कूल में सीसीए के तहत शनिवार को इंटर हाउस कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में पानी, पावन, धरती और आकाश हाउस के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता बालक वर्ग के लिए आयोजित था। प्रतियोगिता पीटीआई राकेश पांडेय और कुंदन कुमार राणा की देखरेख में हुई। प्राचार्य नवीन कुमार ने खिलाड़ियों से हाथ मिला कर उनका हौसला बढ़ाया। प्रतियोगिता का फाइनल मैच पानी और पवन हाउस के बीच हुआ, जिसमें पवन हाउस विजेता और पानी हाउस उपविजेता बना। प्राचार्य नवीन कुमार ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में हार और जीत दोनों से शिक्षा मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस मौके पर शिक्षक शंकर कुमार, विक्रम कुमार, प्रमोद कुमार सिंह के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। प्रतियोगिता में रोबिन कुमार, अनिकेत कुमार, आनंद कुमार, अभिषेक कुमार, सौरभ कश्यप, रौनक भारती, ऋषभ कुमार, सुधांशु कुमार, अभिषेक कुमार, सौरभ कुमार, सक्षम कुमार, गुलशन कुमार, प्रियांशु कुमार, आदित्य कुमार, आनंद कुमार, करण यादव, विशाल चौधरी, शौर्य राज, विशाल कुमार, अभिनव शर्मा, शिवम सिंह, निखिल कुमार, विपिन कुमार, अंकित कुमार, शिवम कुमार, संस्कार राणा, लव कुमार, रितेश कुमार, सुमित कुमार, कृष्ण मुरारी, केशव कुमार, आलोक ठाकुर, तेजस कुमार, वंशम सिंह, आशीष यादव, सोमेश कुमार, आयुष कुमार साव, अमन कुमार, सचिन यादव, अंशु यादव, दीपक कुमार, अभिज्ञान कुमार, सुजीत कुमार पंडित, शिवम रजक ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया।

न्यूज फटाफट

कुवैत-बहरीन में आईसीसी विश्व कप ट्रॉफी का गर्मजोशी से इस्तकबाल

कुवैत : मध्य पूर्वी देश कुवैत और बहरीन में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 ट्रॉफी टूर का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। दौरे के पहले दिन अल-हाशमी-क में एक विशेष आमंत्रण कार्यक्रम के दौरान विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण कुवैत क्रिकेट क्लब (केसीसी) के अध्यक्ष हैदर फरमान और आईसीसी के उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा समेत विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। अनावरण के बाद फोटो शूट का अवसर दिया गया। ट्राफी को कुवैत के प्रतिष्ठित स्थानों जैसे कुवैत टावर्स, संसद, अल हमरा टावर ले जाया गया। कुवैत में ट्राफी टूर का समापन सुलैबिया क्रिकेट ग्राउंड में हुआ जहां लगभग 10 हजार प्रशंसक शामिल हुए। बाद में ट्रॉफी ने बहरीन खाड़ी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और किंग फहद कॉजवे का दौरा किया। शुक्रवार शाम एक प्रतिष्ठित अनावरण कार्यक्रम में शेख खालिद बिन हमद अल खलीफा के साथ-साथ आईसीसी के इमरान ख्वाजा और इकबाल सिकंदर जैसे क्रिकेटर शामिल हुये।

श्रेयस अय्यर को एशिया कप टीम में नहीं मिलेगी जगह? ,21 अगस्त को बीसीसीआई करेगी टीम इंडिया का एलान

नई दिल्ली : सोमवार को बीसीसीआई एशिया कप के लिए भारतीय टीम के खिलाड़ियों के नामों का एलान करेगी। लेकिन क्या इस टीम में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को जगह मिलेगी? एशिया कप 2023 का आयोजन 30 अगस्त से होना है। वहीं, भारतीय टीम अपने अभियान की शुरूआत पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 2 सितंबर को खेला जाएगा। सोमवार को भारतीय टीम का एलान होना है। इस टीम में केएल राहुल की वापसी तकरीबन तय है, लेकिन क्या श्रेयस अय्यर भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा होंगे? बहरहाल, अय्यर पर संस्पेस बना हुआ है। एशिया कप टूनार्मेंट में अय्यर का खेलना तय नहीं है। अगर श्रेयस अय्यर फिट नहीं हुए तो... लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर श्रेयस अय्यर एशिया कप टीम का हिस्सा नहीं होंगे तो किस खिलाड़ी को चुना जाएगा? एशिया कप में श्रेयस अय्यर की जगह किस-किस खिलाड़ी पर दांव खेला जा सकता है? ऐसा माना जा रहा है कि अगर श्रेयस अय्यर फिट नहीं होंगे तो तिलक वर्मा को मौका मिल सकता है।

क्रिकेट एसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने ही 19 जुलाई को एशिया कप के कार्यक्रम की घोषणा की थी

एशिया कप 2023 देखने पाकिस्तान जाएंगे जय शाह ? पीबीसी ने भेजा न्यौता

पाकिस्तान में इस दौरान चार और श्रीलंका में नौ मुकाबले खेले जाने है

एजेंसियां

नई दिल्ली: एशिया कप का आयोजन इस वर्ष पाकिस्तान में होने जा रहा है। इसी बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई सचिव और एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष जय शाह को एशिया कप का उद्घाटन मैच देखने के लिए न्यौता भेजा है। एशिया कप का पहला मुकाबला 30 अगस्त को खेला जाएगा।एशिया कप का पहला मुकाबला पाकिस्तान और नेपाल के बीच मुल्तान में होना है। पीसीबी ने इस मुकाबले को देखने के लिए सिर्फ जय शाह को ही न्यौता नहीं भेजा है बल्कि एशिया कप में हिस्सा लेने वाली टीमों के अन्य बोर्डों के प्रमुख को भी मैच देखने का निमंत्रण दिया है। पीसीबी के एक सूत्र ने कहा कि शाह को निमंत्रण भेजा गया है लेकिन उनके पाकिस्तान आने की संभावना काफी कम है।

सूत्र ने कहा, पीसीबी के अध्यक्ष जाका अशरफ ने आईसीसी की बैठक के दौरान डरबन में जय शाह को मौखिक रूप से निमंत्रण दिया था। बोर्ड ने अब औपचारिक निमंत्रण भेजा है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक शाह ने पीसीबी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, लेकिन बीसीसीआई सचिव ने इस दावे का खंडन किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा संबंधों से वाकिफ सूत्र ने कहा कि पीसीबी शाह को निमंत्रण देकर यह दिखाना चाहता है कि वह खेल को राजनीति के साथ नहीं जोड़ता है। एशिया कप 30 अगस्त से 17 सितंबर तक पाकिस्तान और श्रीलंका के स्थलों पर आयोजित किया जाएगा।

इस दिन होगा भारत और पाकिस्तान का मैच

एसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने ही 19 जुलाई को एशिया कप के कार्यक्रम की घोषणा की थी। इस वर्ष 30 अगस्त से टूनार्मेंट शुरू होने वाला है। पाकिस्तान में इस दौरान चार और श्रीलंका में नौ मुकाबले खेले जाने है। भारत इस टूनार्मेंट की शुरूआत दो सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। टूनार्मेंट में भारत पाकिस्तान और नेपाल के साथ ग्रुप ए का हिस्सा है। वहीं बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें ग्रुप बी का हिस्सा हैं। दोनों ही टीमों की शीर्ष दो टीमों सुपर 4 राउंड में पहुंचेंगी। सुपर 4 में जीत हासिल करने वाली टीमों को फाइनल खेलने को मिलेगा।

खेल जगत अपडेट्स

जसप्रीत बुमराह की दमदार वापसी से पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा खुश

नई दिल्ली : जसप्रीत बुमराह के लंबे समय बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी और उनके दमदार प्रदर्शन को देखकर आकश चोपड़ा खुद को तेज गेंदबाज की तारीफ करने से नहीं रोका पाए। बुमराह ने मैच में दो विकेट चटकाए।भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में वापसी करते हुए जर्बदस्त प्रदर्शन किया। आयरलैंड के खिलाफ डबलिन में खेले गए मुकाबले के दौरान बुमराह ने शुरूआत में धीमी गति से गेंदबाज की लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने अपनी लय हासिल की और 140 किमी/घंटा की स्पीड से भी आगे निकल गए। बुमराह की गेंदबाजी की क्रिकेट एक्सपर्स से लेकर फैंस तक ने तारीफ की।

ऑस्ट्रेलिया को हराकर स्वीडन ने जीता महिला विश्व कप में कांस्य

ब्रिस्बेन : फ्रिडोलिना रोल्फो और कोसोवरे असलानी के गोलों की बदौलत स्वीडन ने शनिवार को यहां ऑस्ट्रेलिया पर 2-0 से जीत के साथ महिला विश्व कप में तीसरा स्थान हासिल किया। कोसोवरे असलानी की दूसरे हाफ में की गई शानदार स्ट्राइक के साथ स्वीडन ने चौथी बार सेमीफाइनल में हारने के बावजूद तीसरे स्थान के प्ले ऑफ मुकाबले में जीत दर्ज की। टूर्नामेंट का फाइनल रविवार को यूरोपीय चैंपियन इंग्लैंड और स्पेन के बीच खेला जाएगा। मैच में माहौल शुरुआती मिनट में ही सेट हो गया था, जब स्वीडन ने लीड-फुटेड ऑस्ट्रेलिया डिफेंस को भेदते हुए स्टिना ब्लैकस्टेनियस को दाहिने पैर से शॉट लगाने के लिए उकसाया, जिससे मैकेंज़ी अर्नोल्ड को एक उत्कृष्ट बचाव करना पड़ा। मैच में मिली हार से निराश ऑस्ट्रेलिया के कोच टोनी गुस्तावसन ने कहा, '' हम आहत हैं, हम प्रशंसकों और इस देश के लिए पदक लाना चाहते थे। अब यह दूसरा टूर्नामेंट है जिसमें हम पदक के लिए खेले और चूक गए।

एशिया कप और विश्व कप में दिखेगा दम

जसप्रीत बुमराह की शानदार वापसी से टीम इंडिया को मिली बड़ी राहत

एजेंसियां

नई दिल्ली: जसप्रीत बुमराह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार वापसी की है। स्टार गेंदबाज ने भारत को पहले टी 20 आई में आयरलैंड पर दो रन से करीबी जीत दिलाई। 11 महीने के इंजरी ब्रेक के बाद बुमराह ने पहली बार कोई इंटरनेशनल मैच खेला था। स्टार पेसर टी 20 कप्तानी की शुरूआत में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बन गए। लेकिन भारत और आयरलैंड के बीच पहले टी20 मैच के बाद जिस बात की लोगों में सबसे ज्यादा खुशी है वह बुमराह की शानदार वापसी है। एशिया कप और विश्व कप को लेकर भारत के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। बुमराह के रन और डिलीवरी स्ट्राइड में कोई बदलाव नहीं हुआ। तेज गेंदबाज ने हमेशा की तरह क्रीज पर जॉगिंग की और अपनी अपरंपरागत गेंदबाजी रिलीज के साथ गेंदें डालीं। बुमराह ने गेंद डालने की गति धीमी शुरू की लेकिन चार ओवर के अपने कोटे में आते ही गेंद की गति में तेजी आ गई। भारतीय स्टार ने मैच की अपनी दूसरी गेंद पर एक विकेट लिया, जो सिर्फ 129 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई थी। हालाँकि, उनके एंगल, सीम और स्विंग ने एंडी बालबर्नी को मात दे दी। इसके बाद बुमराह ने लोर्कन टकर को एक प्रयास में रैंप पर फंसाया, जिससे एक पंख लगा और ओवर में अपना दूसरा विकेट लेने के लिए संजू सैमसन के हाथों में चला गया।

वॉलीबॉल वैगनर मेमोरियल में स्लोवेनिया ने पोलैंड को हराया

वारसॉ : स्लोवेनिया की वॉलीबॉल टीम ने शुक्रवार को 'बूर्ट वैगनर मेमोरियल के उद्घाटन मैच में पोलैंड पर सीधे सेटों में 25-21, 25-18, 25-21 से जीत हासिल की। पोलैंड के क्राको में खेली जा रही प्रतियोगिता में स्लोवेनिया के क्लेमेन सेबुलज और रोक मोजिक ने अपनी टीम के लिये 17-17 अंक जुटाये जबकि लुकाज कैक्जमरेक ने पोलैंड के लिए 10 अंक हासिल किये। मेहमान टीम ने खेल में बेहतरीन शुरुआत की और स्कोरबोर्ड पर 9-5 की बढ़त बना ली। निकोला ग्रबिक के नेतृत्व वाली टीम ने अंतर को कम करके 17-16 कर दिया, लेकिन सेबुलज ने प्रभावी ढंग से स्पाइक किया और मोजिक ने एक ऐस देकर स्कोर 25-21 कर दिया। थोड़े से ब्रेक के बाद भी स्लोवेनिया ने खेल पर नियंत्रण कर लिया और तेज़ पलटवार को अंकों में बदल दिया। ग्रेगर रोप्रेट ने 25-18 के साथ दूसरा सेट समाप्त किया। तीसरे सेट में पोलैंड अच्छा जवाब नहीं दे सका।

हॉकी इंडिया ने गठित किया पुरुष सब-जूनियर कोर ग्रुप

एजेंसियां

नई दिल्ली : देश में पुरुष हॉकी के भविष्य को मजबूत करने की दिशा में हॉकी इंडिया ने राष्ट्रीय कोचिंग शिविर के लिए 40 सदस्यीय पुरुष सब-जूनियर कोर ग्रुप की शुरुआत की है। कोर ग्रुप में विशेष रूप से पूर्व भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह शिविर के लिए सलाहकार और कोच के रूप में काम करेंगे। 21 अगस्त को राउरकेला के विश्व स्तरीय बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में शुरू होने वाला राष्ट्रीय कोचिग शिविर देश भर से सबसे होनहार और कुशल युवा खिलाड़ियों को इकट्ठा करने के केंद्र के रूप में काम करेगा। खिलाड़ियों का चयन हॉकी इंडिया सब-जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में उनके हालिया प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। शिविर के बाद यूरोप में अंतरराष्ट्रीय मैच होंगे जहां खिलाड़ियों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने और अपनी क्षमता का परीक्षण करने का अवसर मिलेगा। नेशनल कोचिग कैंप के कोर ग्रुप में गोलकीपर राहुल भारद्वाज, आतिफ खान, अभिमन्यु गौड़ा और डिफेंडर सुखमनप्रीत सिंह, मिथलेश सिंह, नितिन, सोहिल अली, समी रिजवान, प्रदीप मंडल, रोहित कुल्लू, विशाल पांडे, आशु मौर्य, उज्जवल पाल शामिल हैं। शिविर में मिडफील्डरों में नीरज, रोहित टिर्की, घूरन लोहरा, रोहित प्रधान, सुरेश शर्मा, प्रभजोत सिंह, मनमीत सिंह राय, अरुण जे, राहुल राजभर, राहुल यादव, अफरीदी, बिजय शॉ और फॉरवर्ड की सूची में गुरप्रीत सिंह, सृजन यादव, हैप्पी, सुनील, रितेंद्र प्रताप सिंह, आशिर आदिल खान, देवनाथ नानवार, दीपक प्रधान, योजिन मिंज, हर्षदीप सिंह, केतन कुशवाह, रोहित इरेंगबाम सिंह, अजीत यादव, सुंदरजीत एम, और मोहम्मद जैद शामिल हैं।

भारत में फुटबॉल की केंद्रीय अकादमी को आकार देंगे आर्सेन वेंगर

एजेंसियां

नई दिल्ली : महान कोच और वर्तमान में फीफा के वैश्विक फुटबॉल विकास प्रमुख आर्सेन वेंगर अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआईएफएफ) के साथ संयुक्त रूप से भारत में एक केंद्रीय अकादमी की स्थापना को अंतिम रूप देने के लिए अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में यहां आयेंगे। फेडरेशन के अध्यक्ष कल्याण चौबे महासचिव डॉ. शाजी प्रभाकरन ने शनिवार को सिडनी में वेंगर समेत फीफा के अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद चौबे ने कहा, ''मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हम फीफा के साथ मिलकर भारत में एक अत्याधुनिक केंद्रीकृत अकादमी स्थापित करने की कगार पर हैं, जिसमें आर्सेन वेंगर मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। मुझे यकीन है कि उनके अनुभव और हमारी मेहनत के साथ हम भारत के लिए भविष्य के सितारे तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि वेंगर सितंबर में एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी आधिकारिक घोषणा करेंगे।'' डॉ. प्रभाकरन ने कहा, '' हम इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए आर्सेन वेंगर का भारत में स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में विशिष्ट खिलाड़ियों के विकास पर उनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। वह एक प्रेरक व्यक्ति हैं, और उनकी भागीदारी के साथ हम लाखों युवाओं को उत्साहित कर सकते हैं जैसा पहले कभी नहीं हुआ।''

निखिल सिद्धार्थ की फिल्म स्वयंभू का पोस्टर रिलीज

एजेंसियां

मुंबई : दक्षिण भारतीय अभिनेता निखिल सिद्धार्थ की आने वाली फिल्म फिल्म स्वयंभू का पोस्टर रिलीज हो गया है। निखिल सिद्धार्थ की फिल्म स्वयंभू का निर्देशन भरत कृष्णमाचारी कर रहे हैं। इस फिल्म को भुवन और श्रीकर पिक्सेल स्टूडियो के तहत बनाया जा रहा है। जिसे टैगोर मधु प्रस्तुत करेंगे। इस फिल्म का पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। इस पोस्टर में निखिल एक क्रूर योद्धा के रूप में नजर आ रहे हैं। फिल्म स्वयंभू में निखिल के साथ संयुक्ता मेनन मुख्य भूमिका में हैं।फिल्म स्वयंभू का संगीत बसरुर ने दिया है।

दुर्गा पूजा पर रिलीज होगी खेसारी लाल यादव की फिल्म संघर्ष 2

एजेंसियां

मुंबई : भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म संघर्ष 2, 20 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के अवसर पर रिलीज होगी। निर्माता रत्नाकर कुमार और खेसारी लाल यादव की फिल्म संघर्ष 2 पहले इसी महीने 25 अगस्त को रिलीज होने वाली थी। संघर्ष 2, 25 अगस्त की जगह अब 20 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के अवसर पर रिलीज होने वाली है। निर्माता रत्नाकर कुमार ने बताया कि हम दर्शकों को एक अलग तरह का अनुभव देना चाहते हैं। जिससे जब दर्शक सिनेमाघरों से बाहर निकले तो उनके चेहरों पर एक अलग तरह का सुकून हो। इसलिए हम फिल्म में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं।

काजोल-कृति सैनन की फिल्म दो पत्ती की शूटिंग शुरू

एजेंसियां

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल और कृति सैनन की आने वाली फिल्म दो पत्ती की शूटिंग शुरू हो गयी है। कृति सैनन अब निर्माता बन गयी है। कृति सैनन, कनिका ढिल्लों के साथ मिलकर फिल्म 'दो पत्ती' बना रही है।दो पत्ती में काजोल की अहम भूमिका होगी। कृति 'दिलवाले' के आठ साल बाद काजोल के साथ 'दो पत्ती' में काम करती नजर आयेंगी। दो पत्ती की शूटिंग शुरू हो गयी है। फिल्म दो पत्ती को शशांक चतुर्वेदी निर्देशित कर रहे हैं। यह फिल्म एक मिस्ट्री-थ्रिलर है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।

300 करोड़ क्लब में शामिल हुई 'गदर' 2

एजेंसियां

मुंबई : बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 , ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है। अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म 'गदरः एक प्रेम कथा' वर्ष 2001 में रिलीज हुयी थी। इस फिल्म में सनी देओल ,अमीषा पटेल और अमरीश पुरी ने अहम भूमिका निभायी थी। 'गदरः एक प्रेम कथा' के सीक्वल गदर 2 में एक बार फिर से सनी और अमीषा की जोड़ी है। 'गदर' 2 , 'गदर 2' पहले दिन से ही ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है।

05 अक्टूबर को रिलीज होगी राजवीर देओल और पलोमा ढिल्लों की फिल्म 'दोनों'

एजेंसियां



मुंबई : राजवीर देओल और पलोमा ढिल्लों की आने वाली फिल्म दोनो 05 अक्टूबर को रिलीज होगी। राजश्री प्रोडक्शन हाउस ने नये कलाकारों को लॉन्च करने के अपनी 75 साल की लैगेसी को बरकरार रखा है। यह प्रोडक्शन सभी स्ट्रीम्स के नई प्रतिभाओं को लॉन्च करते आया है। राजश्री प्रोडक्शंस (पी) लिमिटेड अपनी 59वी फिल्म दोनों ,जियो स्टूडियोज के सहयोग से प्रस्तुत कर रहा हैं।फिल्म दोनो से सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर देओल डेब्यू कर रहे हैं। इस फिल्म में राजवीर देओल के अपोजिट मुख्य भूमिका में बॉलीवुड अभिनेत्री पूनम ढिल्लों की बेटी पलोमा नजर आएंगी।

कंगना रनौत ने संजय लीला भंसाली की तारीफ की

एजेंसियां

मुंबई : बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने फिल्मकार संजय लीला भंसाली की तारीफ की है। कंगना रनौत अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने मन की बातें शेयर करती हैं। कंगना ने संजय लीला भंसाली की तारीफ की है।कंगना रनौत ने लिखा, मैं एक कलाकार के रूप में संजय लीला भंसाली की तारीफ करती हूं, वह कभी भी सक्सेस या ग्लोरी का दिखावा नहीं करते। वह इस समय फिल्म इंडस्ट्री में रहने वाले सबसे सच्चे आर्टिस्ट हैं।

प्रदेश ›› अपडेट

शिवराज ने किया शंकर दयाल शर्मा को नमन

भोपाल : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिह चौहान ने आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर उन्हें नमन किया। चौहान ने भोपाल के रेत घाट चौराहे पर स्व. डॉ शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। इसके पूर्व चौहान ने अपने ट्वीट में कहा कि लोकहित व समाज कल्याण को समर्पित डॉ शर्मा का सादगीपूर्ण जीवन प्रत्येक व्यक्ति के लिए वंदनीय है।

शॉर्ट न्यूज अपडेट्स ››

उदयपुर-खजुराहो एक्सप्रेस के इंजन में लगी आग

ग्वालियर : मध्यप्रदेश के ग्वालियर के सिथौली स्टेशन के पास आज दोपहर उदयपुर-खजुराहो एक्सप्रेस के इंजन में आग लग गई, जिससे यात्रियों में अफरातफरी मच गई। रेलवे सूत्रों के अनुसार ग्वालियर स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर दूर सिथौली स्टेशन के पास उदयपुर-खजुराहो एक्सप्रेस के इंजन में लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही लोको पायलट ने ट्रेन को रोका और कंट्रोल रूम को सूचित किया। सूचना मिलने पर ग्वालियर से फायर अमला मौके पर पहुंचा।

मॉडल पब्लिक रेजिडेंशियल स्कूल ढीकली की वार्डन को तत्काल प्रभाव से हटाया

उदयपुर : राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग आयुक्त ताराचंद मीणा ने आदेश जारी करते हुए उदयपुर में मॉडल पब्लिक रेजिडेंशियल स्कूल ढीकली की वार्डन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। जारी आदेशानुसार उपायुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट से अवगत कराया कि मॉडल पब्लिक रेजिडेंशियल स्कूल ढीकली में छात्राओं को दूषित भोजन के सेवन से फूड पॉइजनिग हुई है। रिपोर्ट अनुसार अधीक्षिका द्वारा छात्राओं के लिए भोजन तैयार कराने आदि में लापरवाही पाई गई।

संक्षिप्त ›› अपडेट्स

जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंचने से मोदी प्रसन्न

नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनधन खातों की संख्या के 50 करोड़ के पार पहुंचने की महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ को पार कर गई। इस पर मोदी ने आज कहा कि यह देखकर प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि इनमें से आधे से अधिक खाते हमारी नारी शक्ति के हैं। पीआईबी इंडिया के एक ट्वीट पर प्रधानमंत्री ने कहा यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि इनमें से आधे से अधिक खाते हमारी नारी शक्ति के हैं। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए 67 प्रतिशत खातों के साथ, हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि वित्तीय समावेशन का लाभ हमारे देश के हर कोने तक पहुंचे।

गीतांजलि एक्सप्रेस में महिला जहरखुरानी की शिकार

रायगढ़ : छत्तीसगढ़ के जशपुर की एक महिला के गीतांजली एक्सप्रेस में जहर खुरानी की शिकार होने के बाद रायगढ़ रेलवे पुलिस ने महिला को मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया है। अज्ञात आरोपी ने महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उसके पर्स से नकदी और मोबाइल लेकर फरार हो गया। रायगढ़ जीआरपी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जशपुर निवासी संतोषी यादव गुरुवार को गीतांजलि एक्सप्रेस से रायगढ़ आ रही थी। इसी दौरान किसी यात्री ने उसे कुछ खिला दिया जिसके कुछ देर बाद वह बेहोश हो गई। इसके बाद अज्ञात आरोपी उसके पर्स में रखे नकदी और मोबाइल लेकर फरार हो गया। काफी देर तक महिला ट्रेन में अचेत अवस्था में रही तो बोगी में आसपास बैठे यात्रियों को शंका हुई। सह यात्रियों ने इसकी सूचना टीटी को दी, जिसके बाद शुक्रवार को ट्रेन के रायगढ़ पहुंचने पर पुलिस बुलाई गई।

रिहाई

अदालत ने तीन लोगों को दंगा के आरोपों से मुक्त किया

दिल्ली दंगा पर पुलिस के साक्ष्य फर्जी है

- सूचना दर्ज होने से पहले रात से पहले बर्बरता और आगजनी के कृत्यों में शामिल था
- संदेह व्यक्त किया गया है कि दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी ने सबूतों में हेरफेर किया

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में तीन लोगों को आरोपमुक्त कर दिया है, जिसमें संदेह व्यक्त किया गया है कि दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी ने सबूतों में हेरफेर किया और पूर्व निर्धारित और यांत्रिक तरीके से आरोप पत्र दायर किया। न्यायाधीश ने जांच के आकलन और शिकायतों को कानूनी और तार्किक अंत तक पहुंचाने के लिए मामले को वापस दिल्ली पुलिस के पास भेज दिया है। तीन व्यक्तियों - अकील अहमद उर्फ पापड़, रहीश खान और इरशाद - पर दंगा करने, गैरकानूनी सभा का हिस्सा होने और दंगों के दौरान बर्बरता करने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने आरोप पत्र और उसके बाद के बयानों में विसंगतियां पाईं, जो अभियोजन पक्ष के मामले में खामियों को छिपाने के प्रयास का सुझाव देती हैं। 28 फरवरी, 2020 को एक सहायक उप-निरीक्षक द्वारा तैयार किए गए रूक्का के आधार पर दयालपुर पुलिस स्टेशन में पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर 71/2020) दर्ज की गई थी। (रुक्का सिर्फ एक शिकायत प्रति है जिसमें से सामग्री दाखिल करने के लिए ली गई है)। बाद में जांच अधिकारी ने मामले में फारूक अहमद, शाहबाज मलिक, नदीम फारूक और जय शंकर शर्मा द्वारा की गई कई शिकायतों को जोड़ दिया। 14 जुलाई, 2020 को तीन व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था और 9 दिसंबर, 2020 को इसका संज्ञान लिया गया था।

इसके बाद, कुछ दस्तावेजों और नए बयानों के साथ 15 फरवरी, 2022 और इस साल 16 फरवरी को दो पूरक आरोपपत्र दायर किए गए। न्यायाधीश ने कहा कि पहले पूरक आरोप पत्र में, जांच अधिकारी (आईओ) ने तीन व्यक्तियों को आरोपी के रूप में शामिल किया, जिनका एक कांस्टेबल के बयान में उल्लेख नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जब तक अदालत ने मामले में उल्लिखित घटनाओं की समयसीमा पर सवाल उठाना शुरू नहीं किया, तब तक आईओ ने मुख्य और पहले पूरक आरोपपत्र दोनों में लगातार कहा कि, एक घटना को छोड़कर, विभिन्न शिकायतकताओं द्वारा बताई गई अन्य सभी घटनाएं मामले के दौरान हुईं। 24 और 25 फरवरी, 2020 के बीच की रात। अदालत ने आगे देखा कि जब शिकायतों को एक साथ जोड़ दिया गया, तो पुलिस को यह सूचित करने का कोई रिकॉर्ड नहीं था कि एक ही समूह 25 फरवरी की सुबह सूचना दर्ज होने से पहले रात से पहले बर्बरता और आगजनी के कृत्यों में शामिल था। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि शिकायतकताओं के बाद के बयानों को मुख्य रूप से अभियोजन पक्ष के मामले में कमियों को छिपाने और आरोपी व्यक्तियों पर आरोप लगाने के लिए आधार प्रदान करने के लिए दर्ज किया गया था। अदालत ने यह भी बताया कि जांच अधिकारी इन बाद के बयानों की सटीकता को प्रदर्शित करने वाला कोई भी सबूत पेश करने में विफल रहा।

राजस्थान के दो राजकीय महाविद्यालयों में खुलेंगे नवीन संकाय

एजेंसियां

जयपुर: राजस्थान सरकार प्रदेश में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने एवं विद्यार्थियों को अपने पंसदीदा संकायों में अध्ययन करने का अवसर देने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के दो राजकीय महाविद्यालयों में नए संकाय एवं विषय खोलने तथा इनके संचालन के लिए 16 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार धौलपुर के राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा में नवीन विज्ञान संकाय खोला जाएगा। साथ ही राजसमंद के नाथद्वारा में मथुरादास बिनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भूगर्भशास्त्र विषय शुरू किया जाएगा। नवीन संकाय एवं विषय के संचालन के लिए सहायक आचार्य के छह, प्रयोगशाला सहायक के पांच तथा प्रयोगशाला वाहक के पांच पदों सहित 16 नवीन पदों का सृजन किया गया है। गहलोत की इस मंजूरी से विद्यार्थियों को उनके इच्छित विषयों में पढ़ाई करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। वे स्थानीय स्तर पर ही इन विषयों की पढ़ाई करके अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकेंगे।

इमरान को जेल में जहर दिया जा सकता है, बुशरा बीबी ने जतायी आशंका

एजेंसियां

इस्लामाबाद: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने जेल में बंद अपने पति की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए और कहा है कि उनके पति को अटोक जेल में जहर दिया जा सकता है। पंजाब के गृह सचिव को लिखे पत्र में सुश्री बुशरा कहा कि अदालत ने संबंधित अधिकारियों को उनके पति को रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा, मेरे पति को बिना किसी कारण के अटोक जेल में कैद कर दिया गया है। कानून के मुताबिक, मेरे पति को अदियाला जेल में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

उन्होंने मांग की कि उनके पति ऑक्सफोर्ड स्नातक तथा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं। इसलिए उन्हें बेहतर सुविधा मुहैया करायी जाएं और अटोक जेल में ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती, जिसके वह हकदार हैं। उन्होंने कहा कि अतीत में खान की हत्या के दो प्रयास किए गए थे। इसमें शामिल आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। जेल मैनुअल पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा खान को 48 घंटे के भीतर सभी सुविधाएं प्रदान की जानी थीं, लेकिन 12 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें प्रदान नहीं किया गया है। जेल नियमों के मुताबिक उन्हें निजी डॉक्टर से मेडिकल जांच कराने का अधिकार है। उन्होंने पीटीआई प्रमुख को जेल मैनुअल के मुताबिक सुविधाएं मुहैया नहीं कराने के मामले की जांच की मांग की। उल्लेखनीय है कि अगस्त माह की शुरुआत में यहां की अदालत ने श्री खान को 2018-22 के कार्यकाल के दौरान विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से प्रधानमंत्री के रूप में प्राप्त राज्य उपहारों की बिक्री से संबंधित तोशाखाना मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उन्हें पांच साल के लिए राजनीति से भी प्रतिबंधित कर दिया गया।

जी-20 के नाम पर जमकर चल रहा है चुनावी प्रचार : कांग्रेस

एजेंसियां

नयी दिल्ली: कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि मोदी सरकार देश में हो रहे जी-20 सम्मेलनों का पूरा फायदा उठा रही है और इसको लेकर जमकर चुनावी प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने आज यहां जारी एक बयान में कहा कि सरकार जी-20 सम्मेलनों के जरिए देश का ध्यान मुद्दों से भटकाने के लिए कर रही है और इस संगठन की बैठकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का चुनावी प्रचार जमकर किया जा रहा है। उनका कहना था कि अन्य देशों में भी जी-20 के सम्मेलन होते हैं लेकिन वहां इस तरह का प्रचार नहीं चलता है। उन्होंने कहा, ''जी-20 का गठन 1999 में हुआ था। इसमें दुनिया के 19 देश तथा यूरोपीयन यूनियन सदस्य हैं। इसके गठन से लेकर अब तक बारी-बारी से 17 देशों में जी-20 शिखर सम्मेलनों का आयोजन हो चुका है और अब भारत का नंबर है। लेकिन यहां इसे लेकर जिस तरह का चुनावी कैंपेन चलाया जा रहा है और माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वैसा किसी भी दूसरे देश में नहीं हुआ। वास्तव में ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों के ज़रूरी मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके।'' कांग्रेस नेता ने कहा, ''हमें याद रखना चाहिए कि इसी नई दिल्ली में 1983 में 100 से अधिक देशों का गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन और उसके बाद कॉमनवेल्थ देशों का शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित हो चुका है। लेकिन तब की सरकार ने चुनावी फ़ायदे के लिए उन मौकों का इस्तेमाल नहीं किया। फिर मुझे लालकृष्ण आडवाणी की वह बात याद आ रही है। पांच अप्रैल 2014 को उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक शानदार इवेंट मैनेजर बताया था।

अग्निवीर वायु भर्ती की अंतिम तिथि 20 अगस्त तक बढ़ाई

एजेंसियां

कोटा: भारतीय वायु सेना में अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत अग्निवीर वायु भर्ती के लिए ऑनलाईन पंजीकरण की तिथि 20 अगस्त तक बढ़ाई गई है। कमान अधिकारी विंग कमांडर अभिषेक सिह ने बताया कि इच्छुक अविवाहित पुरूष एवं महिला उम्मीदवार भर्ती से संबंधित सभी नियमों की भारतीय वायुसेना की अधिकारिक वेबसाईट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जन्म तिथि 27 जून 2003 से 27 दिसम्बर 2006 तक के बीच जन्मे अविवाहित पुरूष एवं महिला उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। सिंह ने बताया कि 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा विज्ञान संकाय में गणित, भौतिक और अंग्रेजी विषय के साथ एवं कला तथा वाणिज्य संकाय में किसी भी विषय के साथ 50 फीसदी अंको के साथ अंग्रेजी विषय में भी 50 फीसदी अंक होना अनिवार्य है ।

मदद

16 मिलियन लोगों को डब्ल्यूएफपी से जीवन रक्षक भोजन मिला

भारत ने फिर अफगानिस्तान की मानवीय मदद भेजा

- भारत जैसे उदार दानदाताओं के आभारी हैं जिन्होंने ऐसा किया

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्ली: मानवीय संकट और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की तत्काल अपील के सामने, भारत ने जमीनी स्तर पर व्यावहारिक समर्थन के साथ अफगान लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। भारत सरकार ने देश में नशा करने वालों के लिए सहायता के साथ-साथ 47,500 मीट्रिक टन गेहूं और 200 टन चिकित्सा सहायता भेजी। स्थिति की गंभीरता को पहचानते हुए, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (यूएनडब्ल्यूएफपी) के साथ भारत के सहयोग ने पूरे अफगानिस्तान में गेहूं के आंतरिक वितरण को सुविधाजनक बनाया है। इस साझेदारी ने अफगानिस्तान के भीतर यूएनडब्ल्यूएफपी केंद्रों को सहायता के रूप में गेहूं की सफल डिलीवरी सुनिश्चित की है, जिसमें शिपमेंट ईरान में चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अपना रास्ता बना रहे हैं और हेरात में अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। यूएनडब्ल्यूएफपी ने भारत और अन्य दानदाताओं के अमूल्य समर्थन के लिए उनके प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। यूएनडब्ल्यूएफपी के एक हालिया ट्वीट में बताया गया है कि इस साल की पहली छमाही में, अफगानिस्तान में 16 मिलियन लोगों को डब्ल्यूएफपी से जीवन रक्षक भोजन मिला। हम भारत जैसे उदार दानदाताओं के आभारी हैं जिन्होंने ऐसा किया।

अतीत में, भारत ने पाकिस्तान को सहायता भेजी है, लेकिन इस्लामाबाद की जल्दी सहायता देने में अनिच्छा के कारण इसमें देरी हुई है। चिकित्सा सहायता भी भारत के सहायता प्रयासों की आधारशिला है। आवश्यक दवाओं, कोविड-19 टीकों, टीबी रोधी दवाओं और विभिन्न चिकित्सा और शल्य चिकित्सा वस्तुओं सहित लगभग 200 टन चिकित्सा आपूर्ति काबुल के इंदिरा गांधी बाल अस्पताल में भेजी गई। इसके अलावा, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) के साथ भारत की साझेदारी नशीली दवाओं के प्रभाव के मामले में अफगान आबादी के सामने आने वाली चुनौतियों को संबोधित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। इस साझेदारी का उद्देश्य अफगानिस्तान में महिला ड्रग उपयोगकताओं को बहुत जरूरी मानवीय सहायता प्रदान करना है। योगदान में महिला स्वच्छता किट, कंबल और चिकित्सा आपूर्ति की 1,100 इकाइयाँ शामिल हैं। ये वस्तुएं देशभर में यूएनओडीसी के महिला ड्रग पुनर्वास शिविरों के लिए भेजी जाती हैं, जो जरूरतमंद लोगों के व्यापक पुनर्वास में योगदान देती हैं। भारत की सहायता तत्काल राहत प्रयासों से आगे तक फैली हुई है। काबुल के हबीबिया स्कूल के प्राथमिक छात्रों को शीतकालीन कपड़े और स्टेशनरी की वस्तुएं प्रदान की गई हैं।

न्यूज फटाफट

पश्चिमी कनाडा में जंगल की आग का बढ़ा संकट

ओटावा : पश्चिमी कनाडा में शुक्रवार को जंगल की आग की और अधिक घटनाएं हुई। कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया पर कहा कि सरकार उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में तत्काल संसाधन जुटाना जारी रखे हुए है और केलोना में सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। लगभग डेढ़ लाख की आबादी वाले ब्रिटिश कोलंबिया के शहर केलोना ने जंगल की आग के बीच आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गयी है। लगभग 36हजार की आबादी वाले वेस्ट केलोना शहर ने भी स्थानीय आपातकाल की घोषणा कर दी। अधिकारियों ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में पुष्टि की कि शहर में कुछ संरचनात्मक नुकसान हुआ है। आस-पास की 2,400 से अधिक संपत्तियों को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में येलोनाइफ़ में आबादी को हटाने के प्रयास शुक्रवार को भी जारी रहे। स्थानीय मीडिया के अनुसार शहर से कैलगरी के लिए 26 निकासी उड़ानें निर्धारित की गई हैं। संघीय सरकार ने कहा कि वह सैन्य प्रयासों को पूरा करने के लिए निजी विमानों को अनुबंधित कर रही है।

चीन में अगले तीन दिनों में भारी बारिश होने के आसार

बीजिंग : चीन के उत्तरपूर्वी प्रांत हेइलोंगजियांग और जिलिन में अगले तीन दिनों में भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, तिब्बत के कुछ हिस्सों के साथ-साथ सिचुआन, हुनान और शनाक्सी प्रांतों में भी अगले तीन में बारिश होने के अनुमान हैं। चीन के मध्य प्रांत हुबई के कुछ हिस्सों में अगले तीन दिनों में तापमान में बढ़ोत्तरी होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने खराब मौसम को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है।

रूस के साथ कैदियों की अदला-बदली में 2 हजार 500 से अधिक यूक्रेनी रिहा

कीव : रूस-यूक्रेन संघर्ष में बंदी बनाए गए कुल 2,598 यूक्रेनियन को कैदियों की अदला-बदली के परिणामस्वरूप रिहा कर दिया गया है। इंटरफैक्स-यूक्रेन समाचार एजेंसी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यूक्रेन के सैन्य खुफिया विभाग के प्रवक्ता एंड्री युसोव के हवाले से कहा गया है कि संघर्ष की शुरुआत के बाद से अब तक यूक्रेन ने रूस के साथ 48 कैदियों की अदला-बदली की है। युसोव ने यूक्रेन और रूस के बीच कैदियों की अदला-बदली की प्रक्रिया को अभूतपूर्व स्थिति बताया क्योंकि यह संघर्ष के सक्रिय चरण के दौरान किया जा रहा है। योसोव के अनुसार, जिनेवा कन्वेंशन सीधे तौर पर शत्रुता के सक्रिय चरण के दौरान आदान-प्रदान का प्रावधान नहीं करता है, और वे शत्रुता की समाप्ति के बाद युद्धबंदियों की वापसी का प्रावधान करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच नए कैदियों की अदला-बदली की तैयारी चल रही है।

कैमरून सेना ने जवाबी हमले में बोको हराम के 4 आतंकवादियों को मार गिराया

याउंडे : कैमरून के सुदूर उत्तर क्षेत्र में एक सैन्य चौकी पर समन्वित हमले में बोको हराम के कम से कम चार आतंकवादी मारे गए। सैन्य सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। क्षेत्र के लोगोन और चारी डिवीजन के एक इलाके हिले अलीफा में शुक्रवार की रात हुए हमले के दौरान आतंकवादी समूह द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ हथियार भी जब्त किए गए। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने शिन्हुआ को बताया, वहां 50 से अधिक आतंकवादी थे। उन्होंने घात लगाकर चौकी पर हमला किया। हमारे बहादुर सैनिकों ने हमले को नाकाम कर दिया, जिसमें चार लोग मौके पर ही मारे गए और कई अन्य गोली लगने से घायल हो गए। सरकारी बलों की ओर से किसी के हताहत होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। सुरक्षा रिपोर्टों के अनुसार, बोको हराम द्वारा 2014 से सुदूर उत्तर में हमले शुरू करने के बाद से दो हजार से अधिक लोग मारे गए हैं।

पीएलए ने ताइवान के आसपास संयुक्त गश्त और सैन्य अभ्यास किया शुरू

नानजिंग : चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पूर्वी थिएटर कमांड ने शनिवार को ताइवान द्वीप के आसपास नौसेना और वायु सेना की संयुक्त हवाई और समुद्री गश्त और सैन्य अभ्यास शुरू किया। कमांड के प्रवक्ता शी यी ने कहा, गश्त और अभ्यास का उद्देशच सैन्य जहाजों और हवाई जहाजों के समन्वय और हवाई और समुद्री स्थानों पर नियंत्रण हासिल करने की उनकी क्षमता को प्रशिक्षित करना है। सशस्त्र बलों की वास्तविक युद्ध स्थितियों में लड़ने की क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। शी ने कहा, गश्त और अभ्यास विदेशी तत्वों और उनके उकसावे के साथ ताइवान स्वतंत्रता अलगाववादियों की मिलीभगत के लिए एक कड़ी चेतावनी के रूप में काम करते हैं।

आज का इतिहास

- 1828 : राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के पहले सत्र का आयोजन कलकत्ता (अब कोलकाता) में संपन्न हुआ।
- 1897 : रोनाल्ड रॉस ने कलकत्ता (अब कोलकाता) के प्रेसिडेंसी जनरल हॉस्पिटल में काम करने के दौरान मलेरिया के कारक एनोफिलीज मच्छर की पहचान की।
- 1921 : केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह की शुरुआत हुई। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में शुरू हुआ।
- 1949 : यूरोपीय देश हंगरी में संविधान को अंगीकार किया गया।
- 1955 : मोरक्को और अल्जीरिया में फ्रांस-विरोधी दंगों में सैकडों लोग मारे गए।
- 1972 : तत्कालीन सोवियत रुस ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया।
- 1979 : तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के 23 दिनो के अंदर ही इस्तीफा दिया।
- 1988 : पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक का हवाई दुर्घटना में निधन एवं सीनेट के सभापति गुलाम इशहाक ख़ान राष्ट्रपति बने। भारत और नेपाल में 6.5 की तीव्रता वाले भूकंप से एक हजार लोगों की मौत हुई।
- 1994 : सं.रा. अमेरिका द्वारा क्यूबा के शरणार्थियों को आश्रय देने की 28 वर्ष की पुरानी नीति को समाप्त करने की घोषणा।
- 1998 : लिएंडर पेस ने पीट सम्प्रास को हराकर पायलेट पेन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता जीता।
- 1991 : उत्तरी यूरोपीय देश इस्तोनिया ने तत्कालीन सोवियत रुस संघ से अलग होने की घोषणा की।
- 2001 : स्पेन में भारतीय चैम्पियन विश्वनाथन आनन्द ने स्पेन के अलेक्सेई शिरोव को शिकस्त देकर विलारोडेज शतरंज चैम्पियनशिप का ख़िताब जीता।
- 2002 : फिलिस्तीन छापामार नेता अबू निदाल मरा पाया गया।
- 2004 : फ़ोर्ब्स पत्रिका ने विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की। अमेरिका की कोंडोलीजा राइस, चीन की वू यी तथा भारत की सोनिया गांधी क्रमशः प्रथम तीन स्थानों पर।
- 2008 : भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध कलाकार अरुणा साई राम को अमेरिका में विशिष्ट सम्मान से नवाजा गया। रसायन व उर्वरक मंत्री राम विलास पासवान ने खाद उद्योग को चालू वित्त वर्ष में 22,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने की घोषणा की।
- 2013 : उत्तरी काकेशस में रूसी पुलिस की कार्रवाई में नौ आतंकवादी मारे गए।
- 2012 : वेनेजुएला की राजधानी काराकस में दंगे में 20 लोग मरे।

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी बरी

रांचीः रांची सिविल कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को निर्दोष करार दिया है। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त आसिफ इकबाल की कोर्ट ने संतोष कुमार साहू को सभी आरोपों से मुक्त करते हुए निर्दोष करार दिया है। संतोष कुमार साहू के खिलाफ एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में कांके थाना में कांड संख्या 155/2019 दर्ज किया था। जिसे सेशन ट्रायल में बदलकर पोक्सो की विशेष अदालत सुनवाई कर रहा था।

छिनतई राजधानी में लगातार बढ़ रही है छिनतई की घटना

रांची में दिनदहाड़े दो लाख की छिनतई यूनिफॉर्म हाउस का कर्मचारी बना शिकार

राष्ट्रीय खबर

रांचीः शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े छिनतई की वारदात को अंजाम दिया गया है। थाना क्षेत्र के लाइन टैंक तालाब के पास बाइक सवार दो अपराधी यूनिफॉर्म हाउस के एक कर्मचारी से पैसों से भरा बैग छीन कर फरार हो गए। इस छिनतई को स्नैचरों ने दिनदहाड़े अंजाम दिया और बड़े आराम के साथ फरार भी हो गए।कोतवाली थाना क्षेत्र के पंचवटी प्लाजा में स्थित यूनिफॉर्म हाउस के कर्मचारी अरुण कुमार शनिवार की दोपहर बैंक से दो लाख रुपया निकाल कर फिरायालाल चौक के पीछे स्थित लाइन टैंक तालाब रोड से वापस यूनिफॉर्म हाउस लौट रहे थे। जैसे

ही अरुण कुमार तालाब के पास पहुंचे उनके पीछे से दो बाइक सवार अपराधी हेलेमट पहने पहुंचे और पैसों से भरा बैग छीन कर तेजी के साथ फरार हो गए। स्नैचर्स ने चलती बाइक से छिनतई की थी। इस वजह से अरुण कुमार बीच सड़क पर गिर पड़े।अपराधियों के द्वारा दिनदहाड़े हुई इस छिनतई की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में यह साफ दिखाई दे रहा है की किस तरह दोनों बाइक सवार अपराधियों ने दुःसाहस दिखाया है। सीसीटीवी फुटेज में अरुण कुमार जमीन पर गिरते भी दिख रह हैं।कोतवाली थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने कहा कि हमें सीसीटीवी फुटेज मिला है। गाड़ी का नंबर परिवहन विभाग से पता करवा रहे हैं, उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। वहीं छिनतई की वारदात की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि दोनों अपराधियों का पुलिस अब तक कोई सुराग हासिल नहीं कर पाई है।

आरोपी को डोरंडा पुलिस ने देवघर से किया गिरफ्तार

राष्ट्रीय खबर

रांचीः रांची के डोरंडा पुलिस ने देवघर रिखिया थाना क्षेत्र से एक ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी दुमका का रहने वाला है। उसका नाम अभियान सिंह उर्फ चंदन उर्फ सरफराज बताया जा रहा है। इस शातिर ने देवघर की कई महिलाओं को सस्ते दर पर राशन उपलब्द्ध करवाने के नाम पर लाखों की ठगी को आंजाम दिया है। लोगों का कहना हा कि ये भेली भाली महिला को भला-फुसलाकर कम कीमत पर राशन दिलवाने और इससे अधिक मुनाफा कमाने का प्रलोभन देता था। जिससे ज्यादा लाभ के लालच में फंसकर महिलाओं ने कर्ज लेकर आरोपी को पैसे दे दिए।शातिर ठग अभियान सिंह ने महिलाओं को 30 दिनों में पैसा को दोगुना करने का लालच भी दिया था। इसी लोभ में आकर कई महिलाओं ने लाखों रूपए उसके

फर्जी कंपनी (ड्रीम फाऊंडेश) में निवेश कर दिया। महिलाएं जब अपने पैसों की जांच करने के लिए उक्त स्थान पर पहुंची तो देखा कि अभियान सिंह अपने दफ्तर में ताला लगाकर फरार हो चुका है। उसका कोई अता-पता नही है। फिर आक्रोशित महिलाओं ने उसके ऑफिस पर धावा बोल दिया। इस घटना को लेकर सभी महिलाओं ने देवघर के एसपी को शिकायत की थी।आपको बता दें कि अभियान सिंह के खिलाफ रांची के डोरंडा थाने में भी फर्जी कर ठगी का मामला कई महिलाओं ने दर्ज कराया था। वह खुद को सीबीआई का अधिकारी बताते हुए कई महिलाओं से करोड़ों को ठगी अंजाम दे चुका है। इसी संबंध में रांची के डोरंडा थाने की पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर के कार्रवाई कर रही थी। इसी बीच देवघर के रिखिया थाना से अभियान सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है।

13 एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

रांचीः झारखंड की लाइफ लाइन सेवा 108 एंबुलेंस का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों किया गया था। राज्य भर में 206 नयी व पूर्व की 337 एंबुलेंस के संचालन की जिम्मेवारी सिकंदराबाद की कंपनी ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के हाथों में है। रांची जिले को कुल 30 एंबुलेंस का आवंटन किया गया है। इनमें से करीब 22 एंबुलेंस जिले को सौंप दी गयी है। बची हुई एंबुलेंस भी जल्द सौंप दी जायेंगी। वहीं प्रथम चरण में 13 एंबुलेंस को रांची सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार ने हरी झंडी दिखाकर प्रखंडों के लिए रवाना किया।

कारोबार को सरल बनाने के लिए एफजेसीसीई की वेबसाइट लांच

रांचीः व्यवसायियों को व्यवसाय के लिए बेहतर सुविधा तथा माहौल मिले, इसे लेकर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने शनिवार को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लांच की। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने कहा कि झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स टेक्निकली काफी आगे बढ़ रहा है, जो व्यवसाय के दृष्टिकोण से काफी सकारात्मक है। व्यवसाय में तकनीक के विकास से व्यापार क्षेत्र में तेजी आती है। इसकी लांचिंग से व्यवसाय करने वाले या व्यवसाय से जुड़ने वालों को काफी सहूलियत मिलेगी। क्योंकि वेबसाइट को देखने मात्र से ही लग रहा है कि इसे काफी अच्छे तरह से डिजाइन किया गया है, जिसमें व्यवसाय से जुड़े सभी अपडेट आसानी से लोगों को मिल सकेंगे। और हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों से जुडे सकेंगे।चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने बताया कि अब तक कारोबारियों को चैंबर की सदस्यता लेने के बाद हर जानकारी या सुविधा के लिए चैंबर ऑफिस जाकर पता करना पड़ता था। लेकिन वेबसाइट की लांचिंग से छोटे -बड़े तमाम कारोबारियों को काफी सहूलियत मिलेगी। वेबसाइट में चैंबर का सारा डिटेल्स मौजूद रहेगा। यहां पर सदस्यता फॉर्म को आसानी से अपलोड कर ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकेगा। चैंबर द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रम तथा एजेंडा के साथ सरकारी स्कीम, एंटरप्रेन्योर्स के लिए चलने वाली स्कीम की जानकारी दी जा सकेगी। इसके अलावे चैंबर के सभी अधिकारियों का मोबाइल नंबर, पूर्व अध्यक्षों का मोबाइल नंबर, सभी एफ्लिएड बॉडी का संपर्क नंबर सहित दूसरे जिले के रीजनल वाइस प्रेसिडेंट्स के भी नंबर मौजूद रहेंगे।मौके पर चैंबर उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, अमित शर्मा, महासचिव डॉ अभिषेक रामाधीन, सह सचिव रोहित पोद्दार, शैलेष अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुनिल केडिया, प्रवक्ता ज्योति कुमारी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, जसविंदर सिंह, कार्तिक प्रभात, पीके जयसवाल समेत अन्य कई सदस्य उपस्थित थे।

झारखंड बिजली वितरण निगम की महिला समिति का सावन मिलन समारोह

राष्ट्रीय खबर

रांचीःसावन महिने में बर्षा के फुहारों के साथ ही हर तरफ तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किऐ जाते है। इसी क्रम में झारखंड बिजली वितरण निगम की महिला समिति ने आजशनिवार कोहोटल बीएनआर,चाणक्य में सावन मिलन समारोह आयोजित किया। जिसमें उपस्थित ढ़ेर सारी महिलाओं ने कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।जिनमें नृत्य प्रतियोगिता,खेल आदि भी हुए। इनमें प्रथम स्थान पर श्रीमती शिखा सिंह,दूसरे नंबर पर श्रीमती दीपा वत्सल और तृतीय स्थान पर चंदा कुमारी रहीं।सावन क्वीन का खिताब श्रीमती शिखा सिंह ने जीता।इस अवसर पर श्रीमती आशा सिंह,अनुपमा कश्यप,सविता,सुनीता, रंजीता,

अनुप्रिया एवं अन्य उपस्थित थीं।